

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2014—फाल्गुन 9, शक 1935

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

राजगढ़ दिनांक 7 फरवरी 2014

क्र. 144(6).—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नगर परिषद्, माचलपुर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है:—

#### अनुसूची

वार्ड क्र. (1)	वार्ड का नाम (2)
-------------------	---------------------

1. जवाहर वार्ड
2. महात्मा गांधी वार्ड
3. नेता जी सुभाष वार्ड
4. सरदार पटेल वार्ड

(1) (2)

5. महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड
6. तिलक वार्ड
7. विवेकानन्द वार्ड
8. मोलाना आजाद वार्ड
9. अम्बेडकर वार्ड
10. संत विनोबा वार्ड
11. शहीद कल्याण वार्ड
12. राणा प्रताप वार्ड
13. इन्दिरा गांधी वार्ड
14. छत्रपति शिवाजी वार्ड
15. गुरु गोविन्द सिंह वार्ड

#### वार्ड क्र. 01—जवाहर वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—पिपल्याकुल्मी रोड एवं लगानी भूमि

दक्षिण में—वार्ड 3 की सीमा

**पूर्व में**—लगानी भूमि एवं वार्ड 4 की सीमा

**पश्चिम में**—लगानी भूमि एवं वार्ड 2 की सीमा

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

गृह क्र. 1 सावलियां मंदिर से गृह क्र. 56 ओम जी माधावत के मकान तक एवं म.क्र. 65 भेरा बाई से म.क्र. 81, रामचन्द्र राठौर तक एवं म.क्र. 1 भगवान राठौर से म.क्र. 42 भेरू सिंह तक तथा म.क्र. 174(1) जतन बाई से 177(2) अग्रवाल धर्मशाला तक का क्षेत्र स्थित है जिसमें सावलपुरा, बजरंग रोड शामिल है.

#### वार्ड क्रमांक 02— महात्मा गांधी वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

**उत्तर में**—शमशान व लगानी भूमि

**दक्षिण में**—वार्ड 9, 10 व 12 की सीमा

**पूर्व में**—वार्ड 3 की सीमा

**पश्चिम में**—जीरापुर गोघटपुर रोड

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

म. क्र. 57 सैयद असगर अली से म.क्र. 126 रामबाबु गुप्ता तक म.क्र. 145 शिवनारायण से म.क्र. 173(1) बट्टीलाल म.क्र.1 रामनारायण से म.क्र. 25 छोटी मस्जिद एवं म. क्र. 258 हनीफ टायर वाले की दुकान से म.क्र. 266 थाना परिसर शिव मंदिर तक एवं म.क्र. 35 शहजाद के मकान से म.क्र. 64 करणसिंह के मकान तक का क्षेत्र शामिल है. जिसमें पिपल्याकुल्मी रोड, सुतार मोहल्ला, चौकी मोहल्ला बागरी मोहल्ला झण्डा चौक बस स्टेण्ड, गोघटपुर रोड, थाना परिसर शामिल है.

#### वार्ड क्रमांक 03— नेता जी सुभाष वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

**उत्तर में**—वार्ड 1 की सीमा

**दक्षिण में**—वार्ड 9 की सीमा

**पूर्व में**—वार्ड 6 की सीमा

**पश्चिम में**—वार्ड 2 की सीमा

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

म. क्र. 1 मोहनलाल सोनी से म.क्र. 89 चन्द्रशेखर उपाध्याय तक का एवं म.क्र. 26(1) चन्द्र शेखर टेलर से म.क्र. 34 अय्याद के मकान एवं म.क्र. 127 रामबाबु मोदी की दुकान से म.क्र. 144(2) प्रेमनारायण गुजराती तक का क्षेत्र स्थित है जिसमें मंदिर वाली गली तीनों रावले एवं जमीदार मोहल्ला शामिल है.

#### वार्ड क्रमांक 04— सरदार पटेल वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

**उत्तर में**—लगानी भूमि

**दक्षिण में**—वार्ड 6 की सीमा

**पूर्व में**—वार्ड 5 की सीमा

**पश्चिम में**—वार्ड 1 की सीमा

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

म.क्र. 1(1) भैरूलाल नागर से म.क्र. 55 सुरेश त्रिवेदी की दुकान एवं म.क्र. 60 सुरेश त्रिवेदी के मकान से म.क्र. 90(2) पप्पु गुर्जर तक का क्षेत्र स्थित है जिसमें कुम्हार मोहल्ला शामिल है.

#### वार्ड क्रमांक 05— महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

**उत्तर में**—लगानी भूमि

**दक्षिण में**—लगानी भूमि एवं वार्ड 6 की सीमा

**पूर्व में**—शासकीय बड़ा तालाब

**पश्चिम में**—वार्ड 4 व 6 की सीमा

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

म.क्र. 84 मामा साहब की आटा चक्की से म.क्र. 94(2) दयाराम राठौर के मकान एवं म.क्र. 1 ऊकार नाथ मंदिर से म.क्र. 107 गोकुलप्रसाद के मकान तक का क्षेत्र स्थित है जिसमें लोधा मोहल्ला एवं मतवाली गली तथा बाद्या बल्डी शामिल है.

#### वार्ड क्रमांक 06—तिलक वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

**उत्तर में**—वार्ड 4 व 5 की सीमा

**दक्षिण में**—वार्ड 7 की सीमा

**पूर्व में**—वार्ड 5 की सीमा

**पश्चिम में**—वार्ड 3 की सीमा

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

म.क्र. 43(1) दशरथ सिंह से म.क्र. 76(2) कैलाशचन्द्र, म.क्र. 1 मनोहर बेछौटे से म.क्र. 87 गिरीराज बैरागी, म.क्र. 75 मनोहर दास बैरागी से म.क्र. 83 भंवरलाल माली के मकान एवं म.क्र. 56(1) कौशल्या बाई सोनी से म.क्र. 57 मूलचन्द्र त्रिवेदी के मकान तक का क्षेत्र स्थित है जिसमें बड़ा बाजार की एक पट्टी तथा पोस्ट आफिस वाली गली एवं चुड़ी मोहल्ला शामिल है.

**वार्ड क्रमांक 07— विवेकानन्द वार्ड**

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—वार्ड 6 की सीमा

दक्षिण में—वार्ड 8 की सीमा

पूर्व में—लगानी भूमि

पश्चिम में—वार्ड 9 की सीमा

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

म.क्र. 1 रामबिलास जी की दुकान से म.क्र. 37 भैरूलाल पाटीदार के मकान म.क्र. 44 बापूलाल पाटीदार से म.क्र. 74 चतुर्भुज नाथ मंदिर एवं म.क्र. 46(1) से 98(2) मोहम्मद हुसैन से बजरंग तक का क्षेत्र स्थित है जिसमें नाना बाजार एवं हरिजन मोहल्ले की एक पट्टी शामिल है।

**वार्ड क्रमांक 08— मोलाना आजाद वार्ड**

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—वार्ड 7 की सीमा

दक्षिण में—लगानी भूमि

पूर्व में—लगानी भूमि

पश्चिम में—वार्ड 10 व 11 की सीमा

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

म.क्र. 1 रामदेवरा से म.क्र. 78 सहीद भाई, म.क्र. 94 केदार मकवाना से म.क्र. 103 पानी की टंकी एवं म.क्र. 38(1) गफूर खों से म.क्र. 43 बेगम बी तक का क्षेत्र स्थित है जिसमें हरिजन मोहल्ला शामिल है।

**वार्ड क्रमांक 09— अम्बेडकर वार्ड**

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—वार्ड 2 व 3 की सीमा

दक्षिण में—वार्ड 10 की सीमा

पूर्व में—वार्ड 7 की सीमा

पश्चिम में—वार्ड 10 की सीमा

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

म.क्र. 1 दयाराम राठौर से म.क्र. 72 जगदीश खण्डेलवाल एवं म.क्र. 1 भवानीराम राठौर से म.क्र. 45 रामचन्द्र राठौर तक का क्षेत्र स्थित है जिसमें मुसलमान मोहल्ला एवं बस स्टेण्ड रोड तथा गुर्जर मोहल्ला की एक पट्टी शामिल है।

**वार्ड क्रमांक 10— संत विनोबा वार्ड**

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—वार्ड 2 व 3 की सीमा

दक्षिण में—वार्ड 10 की सीमा

पूर्व में—वार्ड 7 की सीमा

पश्चिम में—वार्ड 10 की सीमा

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

म.क्र. 1 राकेश से म.क्र. 72 नौशाद एवं म.क्र. 1 बापूलाल वर्मा से म.क्र. 9 केसर बाई तक का क्षेत्र स्थित है जिसमें गुर्जर मोहल्ला एक पट्टी एवं हरिजन मोहल्ला शामिल है।

**वार्ड क्रमांक 11— शहीद कल्याण वार्ड**

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—वार्ड 10 की सीमा

दक्षिण में—वार्ड 12 की सीमा

पूर्व में—वार्ड 8 की सीमा

पश्चिम में—वार्ड 12 की सीमा

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

म.क्र. 1 शिवलाल से म.क्र. 64 मांगीलाल एवं म.क्र. 79 से 93 शिशुमंदिर से केसरीमल मकवाना तक का क्षेत्र स्थित है जिसमें हरिजन मोहल्ला शामिल है।

**वार्ड क्रमांक 12— राणा प्रताप वार्ड**

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—वार्ड 2 व 13 की सीमा

दक्षिण में—लगानी भूमि

पूर्व में—लगानी भूमि एवं वार्ड 11 की सीमा

पश्चिम में—लगानी भूमि

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

म.क्र. 103 लालबाई माता मंदिर से 254 बाबू बैरागी की दुकान तक का क्षेत्र स्थित है जिसमें सम्पूर्ण रावण बल्डी तथा जीरापुर रोड की दोनों पट्टी शामिल हैं।

**वार्ड क्रमांक 13— इंदिरा गांधी वार्ड**

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—वार्ड 14 की सीमा

दक्षिण में—लगानी भूमि एवं वार्ड 12 की सीमा

पूर्व में—जीरापुर गोघटपुर रोड

**पश्चिम में—लगानी भूमि**

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

म.क्र. 279(1) बाबू भाई से म.क्र. 318(3) होकम सिंह गुर्जर एवं म.क्र. 1 रतनलाल से म.क्र. 102 अब्दुल लतीफ की आरामशीन तक का क्षेत्र स्थित है जिसमें आवास कालोनी का ग्रिट वाली पट्टी एवं भूतिया बे एवं मोया बे शामिल है.

**वार्ड क्रमांक 14— छत्रपति शिवाजी वार्ड**

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—वार्ड 15 की सीमा

दक्षिण में—वार्ड 13 की सीमा

पूर्व में—जीरापुर गोघटपुर रोड

पश्चिम में—लगानी भूमि

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

म.क्र. 136 रामसुखी बाई से म.क्र. 161 बालचन्द्र, म.क्र. 163 उमराव नट से म.क्र. 257(11) बालू के ढाबे एवं म.क्र. 267(1) ग्यारह दुकानों से म.क्र. 278(2) शेख रहमान तक का क्षेत्र स्थित है जिसमें आवास कालोनी एवं मण्डी रोड शामिल है.

**वार्ड क्रमांक 15— गुरु गोविन्द सिंह वार्ड**

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—लगानी भूमि

दक्षिण में—वार्ड 13 व 14 की सीमा

पूर्व में—जीरापुर गोघटपुर रोड

पश्चिम में—लगानी भूमि

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

म.क्र. 1 छितरलाल से म.क्र. 135 मेहरून के मकान तक का क्षेत्र स्थित है इसमें आवास कालोनी शामिल है.

**आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर.**

राजगढ़, दिनांक 7 फरवरी 2014

क्र. 144 (6).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 144 (6) दिनांक 7 फरवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

**आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर.**

Rajgarh, the 7th February 2014

No. 144 (6).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine the extent of Wards of Nagar Parishad Machalpur as per Schedule given below.—

**SCHEDULE****List of Ward**

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
01. (One)	Jawahar Ward
02. (Two)	Mahatma Gandhi Ward
03. (Three)	Neta Ji Subhash Ward
04. (Four)	Sardar Patel Ward
05. (Five)	Maharani Laxmi Bai Ward
06. (Six)	Tilak Ward
07. (Seven)	Vivekanand Ward
08. (Eight)	Molana Ajad Ward
09. (Nine)	Ambedkar ward
10. (Ten)	Sant Vinoba Ward
11. (Eleven)	Shahid Kalyan Ward
12. (Twelve)	Ranha Pratap Ward
13. (Thirteen)	Indira Gandhi Ward
14. (Fourteen)	Chhatrapati Shivaji Ward
15. (Fifteen)	Guru Govind Shingh Ward

**WARD NO.1—JAWAHAR WARD****Boundary.—**

**North—**Pipliya kulmi road and Land for rent

**South—**Boundary of Ward 3

**East—**Land for rent and Boundary of Ward 4

**West—**Land for rent and Boundary of Ward 2

**Details below.—** Form H.N.1 Sawliya Mandir To H.No.56 Om Ji Madhawati, H.N.65 Bhera bai To H.N.81 Ramchandra Rathour, H.N.1 Bhagwan Rathour To H.N.42 Bheroo Singh and H.N.174 (I) Jatan bai To H.N.177(2) Agrawal Dharmshala.

**Including Aldermanry.—** Sawlpura, Bajrang Road

**WARD NO.2—MAHATMA GANDHI WARD****Boundary.—**

**North—**Shamshan and Land for rent

**South—**Boundary of Ward 09,10 and 12

**East -**Boundary of Ward 3

**West- Jirapur Ghoghat Road**

**Details below.**— Form H.No. 57 Saiyed Asgar Ali to H.No.126 Rambabu Gupta, H.No. 145 Shivnarayan to H.No.173(1) Badrilal, H.No. 1 Ramnarayan to H.No.25 Chhoti Masjid, H. No. 258 Haniftayar wale ki shop to H.No.266, Police Station Shiv Mandir, and H.No.35 Shajad to H.N. 64 Karanh Singh.

**Including Aldermanry.**—

Pipliyakulmi Road, Sutar Mohalla, Chouki Mohalla, Bagri Mohalla, Jhanda Chouk, Bus Stand, Goghatpur Road, Thana Parisar.

**WARD NO .3—NETA JI SUBHASH WARD**

**Boundary.**—

**North**—Boundary of Ward 1  
**South**—Boundary of Ward 9  
**East**—Boundary of Ward 6  
**West**—Boundary of Ward 2

**Details below.**— Form H.N.1 Mohan lal Soni To H.N.89 Chandrashekhar Upadhyay, H.N .26(1) Chandrashekhar Telor To H.N.34 Ayad ke makan to H.No.127 Rambabu Modi ki shop to 144(2) Premnarayn Gujrati.

**Including Aldermanry.**—Mandir wali gali ,Tino Rawale and Jamindar Mohalla.

**WARD NO.4—SARDAR PATEL WARD**

**Boundary.**—

**North**—Land for rent  
**South**—Boundary of Ward 6  
**East**—Boundary of Ward 5  
**West**—Boundary of Ward 1

**Details below.**— Form H.N.1 (I) Bhairulal Nagar to H.N.55 Suresh Trivedi ki shop and H.N.60 Suresh Trivedi ke makan to H.No.90 (2) Pappu Gurjar.

**Including Aldermanry.**—Kumhar Mohalla

**WARD NO.5—MAHARANI LAXMI BAI WARD**

**Boundary.**—

**North**— Land for rent  
**South**- Land for rent and Boundary of Ward 6  
**East** - Govt. Big Pond  
**West**- Boundary of Ward 4 and 6

**Details below.**— Form H.N.84 Mama sahib ki aata

chakki to H.N.94(2) Dayaram Rathour ke makan, H.N.01 Ukar Nath Mandir to H.N.107 Gokul Prasad ka makan.

**Including Aldermanry.**— Lodha Mohalla, Matwali Gali and Baghabaldi.

**WARD NO.6—TILAK WARD**

**Boundary.**—

**North**—Boundary of Ward 4 and 5  
**South**—Boundary of Ward 7  
**East** —Boundary of Ward 5  
**West**—Boundary of Ward 3

**Details below.**— Form H.N.43(1) Dasharath singh To H.N.76(2) Kailashchandra H.N.1 Manohar bechhoute to H.N.87 Giriraj bairagi, H.N.75 Manohar Das Bairagi To H.N.83 Bhawar lal Mali of house, H.N.56(1) Koushalya Bai Soni To H.N.57 Mulchandra Trivedi at house

**Including Aldermanry.**— Bada bajar ki ek patti, post office wali gali and chudi mohalla.

**WARD NO. 7 —VIVEKANAND WARD**

**Boundary.**—

**North**— Boundary of Ward 6  
**South**— Boundary of Ward 8  
**East**— Land for rent  
**West**—Boundary of Ward 9

**Details below.**— Form H.N.1 Rambilas ji ki shope se To H.N.37 Bhairu Lal Patidar , H.N.44 Bapulal Patidar H.N.74 Chaturbhuj Nath Mandir and H.N.46(1) Mohammad Hussain To H.N. 98(2) Bajrang.

**Including Aldermanry.**— Nana Bajar and Harijan Mohalla ki ek patti.

**WARD NO.8—MOLANA AJAD WARD**

**Boundary.**—

**North**— Boundary of Ward 7  
**South**—Land for rent  
**East**—Land for rent  
**West**—Boundary of Ward 10 and 11

**Details below.**— Form H.No.1 Ramdevra to H.No.78 Sahid Bhai, H.N.94 kedar makwana To H.N.103 Pani ki Tanki and H.N.38(1)Gafur khan to H.No.43 begam bee .

**Including Aldermanry.**— Harijan Mohalla.

## WARD NO. 9—AMBEDKAR WARD

**Boundary.—****North**—Boundary of Ward 2 and 3**South**—Boundary of Ward 10**East**—Boundary of Ward 7**West**—Boundary of Ward 10

**Details below.**— Form H.N.1 Dayaram Rathour To H.N.72 Jagdish Khandelwal and H.N.1 Bhawaniram Rathour To H.N.45 Ramchandra Rathour.

**Including Aldermanry.**— Musalman Mohalla, bus stand road and Gurjar Moahalla.

## WARD NO. 10—SANT VINOBA WARD

**Boundary.—****North**—Boundary of Ward 2 and 3**South**—Boundary of Ward 10**East**—Land for rent 7**West**—Boundary of Ward 10

**Details below.**— Form H.N.1 Rakesh To H.N.72 Noushad and H.N.1 Bapulal verma To H.N.09 Kaisar Bao.

**Including Aldermanry.**— Gurjar Mohalla ek patti and Harijan Mohalla

## WARD NO.11—SHAHID KALYAN WARD

**Boundary.—****North**—Boundary of Ward 10**South**—Boundary of Ward 12**East**—Boundary of Ward 8**West**—Boundry of Ward 12**Details below.—**

Form H.N.1 Shivilal To H.N.64 Mangilal, H.N.89 Shishu mandi To H.N.93 Kaisri mal Makwana,

**Including Aldermanry.**— Harijan Mohalla.

## WARD NO. 12—RANA PRATAP WARD

**Boundary.—****North**—Boundary of Ward 2 and 13**South**—Land for rent**East**—Land for rent and Boundary of Ward 11**West**—Land for rent

**Details below.**— Form H.N.103 Lal Bai Mata Mandir to H N. 254 Babu Bairagi ki shop.

**Including Aldermanry.**—Sampurn Rawan Baldi and Jirapur road ki dono patti.

## WARD NO. 13—INDRA GANDHI WARD

**Boundary.—****North**—Boundary of Ward 14**South**—Land for rent and Boundary of Ward 12**East**—Jirapur and Goghatpur Road**West**—Land for rent.

**Details below.**— Form H.N. 279 (1) Bbu Bhai to H. N. 318 (3) Hokam Singh Gurjar and H. N. 1 Ratan Lal to H. N. 102 Abdul Latif ki Aramachin.

**Including Aldermanry.**— Awas Colony ki Grid wali patti, Bhutiya be and moya be.

## WARD NO. 14—CHHATRAPATI SHIVAJI WARD

**Boundary.—****North**—Boundry of Ward 15**South**—Boundry of Ward 13**East**—Jirapur and Goghatpur Road**West**—Land for rent.

**Details below.**— Form H.N.136 Ramsukhi bai to H. N. 161 Balchandra, H. N. 163 Umaraw nat To H. N. 257 (11) Balu ke Dhabe to H. N. 267 (1) 11 Dukano To H. N. 278 (2) Shekh Rahaman.

**Including Aldermanry.**— Awas Colony and Mani Road.

## WARD NO. 15 GURU GOVIND SHINGH

**Boundary.—****North**—Land for rent.**South**—Boundary of Ward 13 and 14**East**—Jirapur and Goghatpur Road**West**—Land for rent.

**Details below.**— Form H.N. 1 Chitar Lal To H. N. 135 Meharun at.

**Including Aldermanry.**— Awas Colony.

ANAND KUMAR SHARMA, Collector.

राजगढ़, दिनांक 7 फरवरी 2014

क्र. 144(7).—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नगर परिषद्, छापीहेड़ा, जिला

राजगढ़, मध्यप्रदेश के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित किया जाता है:—

### अनुसूची

वार्ड क्र. (1)	वार्ड का नाम (2)
1.	छत्रपति शिवाजी वार्ड
2.	दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
3.	स्वामी विवेकानंद वार्ड
4.	शहीद भगतसिंह वार्ड
5.	महावीर वार्ड
6.	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
7.	श्रीराम मंदिर वार्ड
8.	महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड
9.	तिलक वार्ड
10.	भीमराम अंबेडकर वार्ड
11.	मोलाना आजाद वार्ड
12.	ज्योतिबा फुले वार्ड
13.	सरदार पटेल वार्ड
14.	बाबा रामदेव वार्ड
15.	महात्मा गांधी वार्ड

#### वार्ड क्र. 1—छत्रपति शिवाजी वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—लगानी कृषि भूमि

दक्षिण में—वार्ड क्रमांक 2 की सीमा

पूर्व में—छापी नाला

पश्चिम में—लगानी कृषि भूमि

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

गृह क्र. 1 रामदयाल धाकड़ के मकान से गृह क्र. 55 बापूसिंह के मकान एवं गृह क्रमांक 65 अमरसिंह कुशवाह के मकान से गृह क्र. 70 विक्रम तवरं के मकान तक तथा मकान क्र. 73 हरीसिंह कुशवाह के मकान तक इस वार्ड में कुशवाह मोहल्ला एवं प्राथमिक विद्यालय के आसपास का एवं रनारा रोड की आबादी का क्षेत्र सम्मिलित है.

#### वार्ड क्र. 2—दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—वार्ड क्रमांक 1 की सीमा

दक्षिण में—वार्ड क्रमांक 3 की सीमा

पूर्व में—वार्ड क्रमांक 1 एवं 6 की सीमा

पश्चिम में—लगानी कृषि भूमि

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

गृह क्र. 131 अमृतलाल नागर के मकान से गृह क्रमांक 133 भवंरलाल तवरं के मकान तक एवं रामप्रसाद राठोर के मकान से ताराचंद टेलर के मकान के दोनों गोल वृत्त इस वार्ड में तवरं मोहल्ला, धाकड़ मोहल्ला एवं तेली गली सम्मिलित है.

#### वार्ड क्र. 3—स्वामी विवेकानंद वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—वार्ड क्रमांक 2 की सीमा

दक्षिण में—वार्ड क्रमांक 4 की सीमा

पूर्व में—वार्ड क्रमांक 6 की सीमा

पश्चिम में—रामपुरिया नाला तथा लगानी कृषि भूमि.

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

गोपाल प्रजापति के मकान से नंदकिशोर टेलर के मकान तक का गोल वृत्त एवं बालाजी मंदिर से मदनलाल कुशवाह के मकान तक का क्षेत्र तथा इस वार्ड में पाटीदार मोहल्ला, कुशवाह मोहल्ला की आंशिक क्षेत्र सम्मिलित है.

#### वार्ड क्र. 4—शहीद भगतसिंह वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—वार्ड क्रमांक 5 एवं 6 की सीमा

दक्षिण में—पचोर—माचलपुर मुख्य मार्ग

पूर्व में—वार्ड क्रमांक 8 की सीमा

पश्चिम में—वार्ड क्रमांक 3 की सीमा

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

मांगीलाल विश्वकर्मा की दुकान से सुतार समाज के मंदिर तक रमेश गुर्जर के मकान से कालूराम शर्मा के मकान तक का व आसपास का क्षेत्र इस वार्ड में गुर्जर मोहल्ला पाटीदार मोहल्ला, नाई की गली, तेली गली सम्मिलित है.

#### वार्ड क्र. 5—महावीर वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—वार्ड क्रमांक 6 एवं 7 की सीमा

दक्षिण में—वार्ड क्रमांक 4 की सीमा

पूर्व में—वार्ड क्रमांक 7 एवं 8 की सीमा

पश्चिम में—वार्ड क्रमांक 6 की सीमा

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

गृह क्र. 265 रसूल खां के मकान से 582 मोहनलाल जायसवाल के मकान तक का गोल वृत्त एवं गृह क्र. 267 गिरिराज सेठिया के मकान से गृह क्र. 301 दिनेश भील के मकान तक का गोल वृत्त,

गृह क्र. 322 मोहनलाल टेलर के मकान से गृह क्र. 313 लक्ष्मीनारायण सोनी के मकान तक व गोपाल कृष्ण गुप्ता के मकान से राजेश गुप्ता का मकान तक तथा इस वार्ड में कलाल की गली, ब्राम्हण गली, तालाब मोहल्ले का क्षेत्र व पोस्ट ऑफिस गली का क्षेत्र सम्मिलित है।

#### वार्ड क्र. 6—चन्द्रशेखर वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—वार्ड क्रमांक 1 की सीमा  
दक्षिण में—वार्ड क्रमांक 6 की सीमा  
पूर्व में—वार्ड क्रमांक 7 की सीमा  
पश्चिम में—वार्ड क्रमांक 2 की सीमा

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

गृह क्र. 323 गोपालदास जैन के मकान से बालकिशन सोनी की दुकान तक, गृह क्र. 307 गोविंदराम राठोर के मकान से राजकुमार सोनी की दुकान तक, गृह क्र. 355 विठ्ठलदास शर्मा के मकान से गृह क्र. 356 गोकुलप्रसाद शर्मा के मकान तक का गोल वृत्त इस वार्ड में पटवारी गली, धोबी गली तथा पाटीदार मोहल्ले का आंशिक क्षेत्र सम्मिलित है।

#### वार्ड क्र. 7—श्रीराम मंदिर वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—छापी नाला  
दक्षिण में—वार्ड क्रमांक 8 की सीमा  
पूर्व में—वार्ड क्रमांक 8 एवं 9 की सीमा  
पश्चिम में—वार्ड क्रमांक 5 एवं 6 की सीमा

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

गृह क्र. 372 कैलाशचन्द्र शर्मा के मकान से गृह क्र. 383 दीपक सोनी के मकान तक एवं गृह क्र. 556 बद्रीलाल साजी के मकान से गृह क्र. 581 मनोहर टेलर के मकान तक एवं गृह क्र. 661 नंदकिशोर गुप्ता के मकान से दरवाजे तक का क्षेत्र इस वार्ड में जैन गली, सिपाही मोहल्ला, त्रिपोलिया बाजार, कलाल मोहल्ले का आंशिक क्षेत्र सम्मिलित है।

#### वार्ड क्र. 8—महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—वार्ड क्रमांक 7 की सीमा  
दक्षिण में—पचोर- माचलपुर मुख्य मार्ग  
पूर्व में—पचोर- माचलपुर मुख्य मार्ग  
पश्चिम में—वार्ड क्रमांक 5 की सीमा

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

गृह क्र. 253 ज्ञानप्रकाश तिवारी के मकान से कैलाशचन्द्र वत्स के मकान तक का गोल वृत्त, नंदकिशोर सोनी के मकान से गृह क्र. 624 बुरहान भाई के मकान तक एवं गृह क्र. 630 कैलाश सेन

के मकान से श्याम सेठिया के मकान तक का गोल वृत्त व गृह क्र. 634 घनश्याम चौधरी के मकान से गृह क्र. 636 सुभाष सेठिया के मकान तक का वृत्त, सुरेश शर्मा के मकान से अनिल टॉक के मकान तक का क्षेत्र तथा इस वार्ड में कलाल मोहल्ला, माली मोहल्ला, मुख्य बाजार का क्षेत्र सम्मिलित है।

#### वार्ड क्र. 9—तिलक वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—छापी नाला  
दक्षिण में—लगानी कृषि भूमि  
पूर्व में—वार्ड क्रमांक 13 की सीमा  
पश्चिम में—लगानी कृषि भूमि

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

गृह क्र. 705 डॉ. महेश नागर के मकान से सोनी मेरिज गार्डन तक का क्षेत्र एवं मोहन सोनी के जीन से मुरली कंजर के मकान तक का क्षेत्र इस वार्ड में जीरापुर-पचोर मार्ग, खजूरी रोड, कंजर बस्ती व आवास कालोनी का क्षेत्र सम्मिलित है।

#### वार्ड क्र. 10—भीमराव अंबेडकर वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—वार्ड क्रमांक 12 की सीमा  
दक्षिण में—छापी नाला  
पूर्व में—वार्ड क्रमांक 11 की सीमा  
पश्चिम में—छापी नाला

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

गृह क्र. 389 भेरूलाल मालवीय के मकान से गृह क्र. 409 हजारीलाल वर्मा के मकान तक, गृह क्र. 387 मान खां के मकान से इकबाल खां के मकान तक एवं गृह क्र. 444 सत्तार खां के मकान से गृह क्र. 435 अब्बास खां के मकान तक का गोल वृत्त इस वार्ड में हरीजन मोहल्ला, मुसलमान मोहल्ले का क्षेत्र सम्मिलित है।

#### वार्ड क्र. 11—मोलाना आज़ाद वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—वार्ड क्रमांक 12 की सीमा  
दक्षिण में—वार्ड क्रमांक 7 की सीमा  
पूर्व में—वार्ड क्रमांक 13 की सीमा  
पश्चिम में—वार्ड क्रमांक 10 की सीमा

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

गृह क्र. 431 सलीम खां के मकान से गृह क्र. 433 फकीर मोहम्मद के मकान तक का गोल वृत्त, गृह क्र. 445 शाहिद मास्टर के मकान



से गृह क्र. 457 सलाम खां के मकान तक एवं गृह क्र. 458 बशीर खां के मकान से गृह क्र. 473 श्यामसुन्दर शर्मा के मकान तक एवं गृह क्र. 475 बृजमोहन शर्मा के मकान से प्रखर स्कूल तक एवं गृह क्र. 662 आजाद खां के मकान से गृह क्र. 664 दिनेश सोनी के मकान तक का क्षेत्र व बाबू भाई, हबीब भाई के मकान तक इस वार्ड में मुसलमान मोहल्ला, हरीजन मोहल्ला, तेली मोहल्ला का क्षेत्र सम्मिलित है।

#### वार्ड क्र. 12—ज्योतिबा फुले वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—लगानी कृषि भूमि

दक्षिण में—वार्ड क्रमांक 10 एवं 11 की सीमा

पूर्व में—वार्ड क्रमांक 13 की सीमा

पश्चिम में—छापी नाला

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

गृह क्र. 495 गनी खां के मकान से गृह क्र. 555 गंगाराम पिता गेंदालाल मालवीय के मकान तक के मकान सम्मिलित है। इस वार्ड में कुम्हार मोहल्ला, हरीजन मोहल्ला सम्मिलित है।

#### वार्ड क्र. 13—सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—लगानी भूमि एवं वार्ड क्रमांक 12 की सीमा

दक्षिण में—छापी नाला

पूर्व में—लगानी कृषि भूमि

पश्चिम में—छापी नाला

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

गृह क्र. 485 हरीप्रसाद बागरी के मकान से लगाकर गृह क्र. 493 रमेशचन्द्र भिलाला तथा गृह क्र. 665 कमलाबाई राजपूत के मकान से गृह क्र. 705 अयोध्यादास के मकान तक का क्षेत्र सम्मिलित है। इस वार्ड भील मोहल्ला, बिरजा मोहल्ला, कंजर बस्ती सम्मिलित है।

#### वार्ड क्र. 14—बाबा रामदेव वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—पचोर- माचलपुर मुख्य मार्ग

दक्षिण में—वार्ड क्रमांक 9 की सीमा

पूर्व में—रामपुरिया नाला एवं वार्ड क्रमांक 9 की सीमा

पश्चिम में—लगानी कृषि भूमि

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

मुकेश जैन की दुकान से दूर संचार विभाग के कार्यालय तक का क्षेत्र, हायर सेकेण्ड्री स्कूल के पीछे का सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है। इस वार्ड में आवास कालोनी सम्मिलित है।

#### वार्ड क्र. 15—महात्मा गांधी वार्ड

इस वार्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:—

उत्तर में—तेलीखेड़ा मार्ग

दक्षिण में—पचोर- माचलपुर मुख्य मार्ग

पूर्व में—तेलीखेड़ा मार्ग

पश्चिम में—लगानी कृषि भूमि

इस प्रकार इस वार्ड में निम्नांकित गली मोहल्ले शामिल हैं:—

केशरसिंह पाटीदार के मकान से रतनचन्द्र मोहकमचंद के मील तक का सम्पूर्ण क्षेत्र इस वार्ड में आवास कालोनी का क्षेत्र सम्मिलित है।

आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर.

राजगढ़, दिनांक 7 फरवरी 2014

क्र. 144 (7).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1447 दिनांक 7 फरवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर.

Rajgarh, the 7th February 2014

No. 144 (7).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine the extent of Wards of Nagar Prishad Chhapiheda as per Schedule given below.—

#### SCHEDULE

#### List of Ward

Ward No. (1)	Name of Ward (2)
01. (One)	Chhatrapati Shivaji Ward
02. (Two)	Dindayal Upadhyay Ward
03. (Three)	Swami Vivekanand Ward
04. (Four)	Shahid Bhagat Singh Ward
05. (Five)	Shree Mahaveer Ward
06. (Six)	Chandra Shekhar Ward
07. (Seven)	Shree Ram Mandir Ward
08. (Eight)	Maharani Laxmi Bai Ward

(1)	(2)
09. (Nine)	Tilak Ward
10. (Ten)	Bhimraw Ambedkar Ward
11. (Eleven)	Molan Ajad Ward
12. (Twelve)	Jyotiba Phoole Ward
13. (Thirteen)	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
14. (Fourteen)	Baba Ramdev Ward
15. (Fifteen)	Mahatma Gandhi Ward

**WARD No.1—CHHATRAPATI SHIVAJI WARD**

**Boundary.—**

**North**—Land for rent

**South**—Boundary of Ward 2

**East**—Chhapi runnel

**West**—Land for rent.

**Details below.**—Form H.No. 1 Ramdayal Dhakad to H.No. 55 Bapu Singh's house, H.No. 65 Amar Singh Kushwah to H.No. 70 Vikram Tanvar's house and H.No. 73 Hari Singh Kushwah's house.

**Including Aldermanry.**— Kushshwah Mohalla, Primary School and Ranara Road's populations Area.

**WARD No.. 2—DINDAYAL UPADHYAY WARD**

**Boundary.—**

**North**—Boundary of Ward 1

**South**—Boundary of Ward 3

**East**—Boundary of Ward 1 and 6

**West**—Land for rent.

**Details below.**—Form H.No. 131 Amritlal Nagar to H.No. 133 Bhanwarlal Tanvar's house and rounded circle of Ramprasad Rathore and Tarachand Tailor's both houses.

**Including Aldermanry.**— Tanvar Mohalla, Dhakad Mohalla and Teli Gali.

**WARD No. 3—SWAMI VIVEKANAND WARD**

**Boundary.—**

**North**—Boundary of Ward 2

**South**—Boundary of Ward 4

**East**—Boundary of Ward 6

**West**—Rampuriya runnel and land for rent

**Details below.**—Form Rounded circle of Gopal Prajapati's house to Nandkishore Tailor's house, Area of Balaji Temple to Madanlal Kushwah's house.

**Including Aldermanry.**— Partially area of Patidar Mohalla and Kushwah Mohalla.

**WARD No. 4—SHAHID BHAGAT SINGH WARD**

**Boundary.—**

**North**—Boundary of ward 5 and 6

**South**—Pachore-Machalpur Road

**East**—Boundary of Ward 8

**West**—Boundary of Ward 3

**Details below.**—Form Mangilal Vishvakarma's shop to Sutar community's Temple and near about area of Ramesh Gurjar to Kaluram Sharma's house.

**Including Aldermanry.**— Gurjar Mohalla, Patidar Mohalla, Sen Mohall and Teli Gali.

**WARD No. 5—SHRI MAHAVEER WARD**

**Boundary.—**

**North**—Boundary of ward 6 and 7

**South**—Boundary of ward 4

**East**—Boundary of ward 7 and 8

**West**—Boundary of ward 6.

**Details below.**—Form Rounded circle of H.No. 265 Rasul Kha to H.No. 582 Mohanlal Jaysawal's house, Rounded circle of H.No. 267 Giriraj Sethiya to H.No. 301 Dinesh Bhil's house, H.No. 322 Mohanlal Tailor to H.No. 313 Laxminarayan Soni's house and Gopal Krishna Gupta to Rajesh Gupta's house.

**Including Aldermanry.**— Kalal Mohalla, Brahman Gali, Talab Mohalla and Post Office Gali.

**WARD No.. 6—CHANDRA SHEKHAR WARD**

**Boundary.—**

**North**—Boundary of Ward 1

**South**—Boundary of Ward 6

**East**—Boundary of Ward 7

**West**—Boundary of Ward 2

**Details below** :—Form H. No. 323 Gopaldas Jain's house to Balkishan Soni's shop, H. N. 307 Govindram Rathore's house to Rajkumar Soni's shop and rounded area of H. No. 355 Birththaldas Sharma to Gokulprasad Sharma's house.

**Including Aldermanry.**—Partially area of Patwari Gali, Dhobi Gali and Patidar Mohalla.

## WARD No.. 7 — SHREE RAM MANDIR WARD

**Boundary.—****North—**Chhapi runnel**South—**Boundary of Ward 8**East—**Boundary of Ward 8 and 9.**West—**Boundary of Ward 6.

**Details below.—**Form rounded circle of H. No. 265 Rasul Kha to H. No. 582 Mohanlal Jaysawal's house, Rounded circle of H. No.. 267 Giriraj Sethiya to H. No. 301 Dinesh Bhil's house, H. No. 322 Mohanlal Tailor to H.No. 313 Laxminarayan Soni's house and Gopal Krishna Gupta to Rajesh Gupta's house.

**Including Aldermanry.—**Kalal Mohalla, Brahman Gali, talab Mohalla and Post Office Gali.

## WARD No. 8—MAHARANI LAXMI BAI WARD

**Boundary.—****North—**Boundary of Ward 7**South—**Pachore-Machalpur road**East—**Pachore-Machalpur road**West—**Boundary of Ward 5

**Details below.—**Form rounded area of H. No. 253 Gyanprakash Tiwari to Kailashchandra Vats's house, Nandkishor Soni to H. No. 624 Burhan Bhai's house, rounded area of H. N. 630 Kailash Sen to Shyam Sethiya's house, Circle of H. N. 634 Ghanshyam Choudhri to H. No. 636 Subhash Sethiya's house and Suresh Sharma to Anil Taunk's house.

**Including Aldermanry.—**Kalal Mohalla, Mali Mohalla and Main Market area.

## WARD No. 9—TILAK WARD

**Boundary.—****North—**Chhapi runnel**South—**Land for rent**East—**Boundary of Ward 13**West—**Land for rent.

**Details below.—**Form Full area of H No. 705 Dr. Mahesh Nagar to Soni Marriage Garden and Mohan Soni's Jeen to Murlji Kanjar's house.

**Including Aldermanry.—**Zeerapur-Pchore Road, Khajuri Road, Kanjar Basti and Awas Colony.

## WARD No.10— BHIMRAW AMBEDKAR WARD

**Boundary.—****North—**Boundary of Ward 12**South—**Chhapi runnel**East—**Boundary of Ward 11**West—**Chhapi runnel.

**Details below.—**Form H. No. 389 Bhairulal Malviya to H. No. 409 Hajarilal Varma's house, H. No. 387 Man Kha to Ikbal Kha's house and rounded circle of H. No. 444 Sattar Kha to H. No.435 Abbas Kha's house

**Including Aldermanry.—**Musalman Mohalla and Harijan Mohalla.

## WARD NO. 11—MAULANA AZAD WARD

**Boundary.—****North—**Boundary of Ward 12**South—**Boundary of Ward 7**East—**Boundary of Ward 13**West—**Boundary of Ward 10

**Details below.—**Form Rounded circle of H. No. 431 Salim Kha to Fakir Mohammad's house, H. No. 445 Shahid Master to H No.. 457 Salam Kha's house, H. No. 458 Bashir Kha to H. No. 473 Shyam Sundar Sharma's house, H. No. 475 Brijmohan Sharma to Prakhar Convent School, H No.. 662 Ajad Kha to H. No. 664 Dinesh Soni's house and Babu Bhai to Habib Bhai .

**Including Aldermanry.—**Musalman Mohalla, Harijan Mohalla and Teli Mohalla.

## WARD NO. 12—JYOTIBA PHOOLE WARD

**Boundary.—****North—**Land for rent**South—**Boundary of Ward 10 and 11**East—**Boundary of Ward 13**West—**Chhapi runnel

**Details below.—**Form H. No. 495 Gani Kha to H. No. 555 Gangaram s/o Gendalal's house.

**Including Aldermanry.**—Kumhar Mohalla and Harijan Mohalla.

WARD No. 13—SARDAR VALLABH BHAI PATEL WARD

**Boundary.**—

**North**—Land for rent and boundary of Ward 12

**South**—Chhapi runnel

**East**—Land for rent

**West**—Chhapi runnel

**Details below.**—Form H. No. 485 Hariprasad Bagri to H No. 493 Rameshchand Bhilala and H.N. 665 Kamala Bai Rajput to H. No. 705 Ayodhyadas's house .

**Including Aldermanry.**—Bheel Mohalla, Birja Mohalla and Kanjar Basti.

WARD No. 14—BABA RAMDEV WARD

**Boundary.**—

**North**—Pachore-Machalpur road

**South**—Boundary of Ward 9

**East**—Rampuriya runnel and boundary of Ward 9

**West**—Land for rent.

**Details below.**—Form Area of Mukesh Jain's shop to Telephone Office and Background area of H.S. School.

**Including Aldermanry.**— Awas Colony.

WARD No.. 15—MAHATMA GANDHI WARD

**Boundary.**—

**North**—Telikheda Road

**South**—Pachore-Machalpur road

**East**—Telikheda Road

**West**—Land for rent.

**Details below.**—Form Keshar Singh's house to Ratanchand Mohakamchand's Meel.

**Including Aldermanry.**— Awas Colony.

ANAND KUMAR SHARMA, Collector.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 7 फरवरी 2014

क्र. 212-डूडा-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह-3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मैं, विवेक पोरवाल, कलेक्टर, जिला जबलपुर, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगरपालिका परिषद्, पनागर, जिला जबलपुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :-

अनुसूची

वार्ड क्र. (1)	वार्डों के नाम (2)
1.	बजरंग वार्ड
2.	विनोवा भावे वार्ड
3.	आजाद वार्ड
4.	मौलाना वार्ड
5.	भगत सिंह वार्ड
6.	सुभाष वार्ड
7.	गांधी वार्ड
8.	प्रताप वार्ड
9.	विद्यासागर वार्ड
10.	जगमोहन वार्ड
11.	गुरूनानक वार्ड
12.	विवेकानन्द वार्ड
13.	जयप्रकाश वार्ड
14.	शिवाजी वार्ड
15.	राम वार्ड

वार्डों की सीमाओं का विवरण

वार्ड क्र. 1—बजरंग वार्ड

**उत्तर**—रैपुरा ग्राम पंचायत की सीमा.

**पूर्व**—जबलपुर-कटनी रेल्वे लाईन तथा देवरी स्टेशन की पश्चिमी सीमा.

**दक्षिण**—हाऊसिंग बोर्ड के बाद परदेशी वंशकार के मकान के आगे तालाब की पुलिया से तालाब की ओर.

**पश्चिम**—राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7 की सीमा तक.

**वार्ड क्र. 2— विनोवा भावे वार्ड**

**उत्तर**—राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पुलिया स्थित रामप्रसाद बर्मन के मकान से पीछे तालाब की ओर नाला तक.

**पूर्व**—बजरंग वार्ड एवं आजाद वार्ड की पश्चिमी सीमा तक

**दक्षिण**—छतरपुर रोड की उत्तरी सीमा

**पश्चिम**—राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 7 की सीमा, रामप्रसाद बर्मन के मकान से थाने के सामने छतरपुर मोड़ तक.

**वार्ड क्र. 3— आजाद वार्ड**

**उत्तर**—चकहा नाला एवं बजरंग वार्ड एवं विनोवा भावे वार्ड की दक्षिणी सीमायें.

**पूर्व**—छतरपुर ग्राम पंचायत की सीमा एवं रेल्वे फाटक से जबलपुर की ओर बलेहा तालाब की ओर रेल्वे लाईन की पश्चिमी सीमा.

**दक्षिण**—मौलाना वार्ड रेल्वे समपार से जैन मंदिर की ओर आने वाले रास्ते एवं भगत सिंह वार्ड की सीमायें.

**पश्चिम**—शंकरजी के मंदिर से ब्रजमोहन के मकान होते हुये मुन्ना चक्की वाले के मकान से रेल्वे समपार की ओर मंदिर तक.

**वार्ड क्र. 4— मौलाना वार्ड**

**उत्तर**— छतरपुर ग्राम पंचायत की सीमा से रेल्वे फाटक तक, पूर्व-पश्चिम.

**पूर्व**—छतरपुर ग्राम पंचायत की सीमा, पश्चिम में रेल्वे लाईन.

**दक्षिण**—बलेहा तालाब एवं ईदगाह के सामने रोड क्रॉस कर पुलिया तक.

**पश्चिम**—रेल्वे लाईन एवं भगत सिंह वार्ड की सीमा.

**वार्ड क्र. 5— भगतसिंह वार्ड**

**उत्तर**—ईदगाह से रेल्वे पुल समपार तक एवं रेल्वे लाईन क्रॉस कर आजाद वार्ड की दक्षिणी सीमायें.

**पूर्व**—मौलाना वार्ड की पश्चिमी सीमायें.

**दक्षिण**—रेल्वे पुल से पूर्व-पश्चिम की ओर महेश प्रजापति के घर तक.

**पश्चिम**—पथरहाई रोड महेश प्रजापति के घर से सुखलाल काछी के घर तक.

**वार्ड क्र. 6—सुभाष वार्ड**

**उत्तर**—गणेश, मुकेश लोधी के मकान से बाबू भैया प्यासी के मकान तक एवं बलेहा रेल्वे पुल से पूर्व-पश्चिम की ओर, महेश प्रजापति तक, रोड क्रॉस कर घर के सामने तक.

**पूर्व**—पथरहाई रोड महेश प्रजापति के घर के बाजू से पथरहाई रोड पर डुम्मी गड़ारी से मुकेश लोधी के मकान तक एवं भरदा पुल से बलेहा पुलिया तक रेल्वे लाईन किनारा.

**दक्षिण**—राजाराम लखेरा के मकान से महेश प्रजापति तक एवं भरदा पुलिया से नाला के किनारे शमशान रोड तक.

**पश्चिम**—राजाराम लखेरा का मकान एवं रोड क्रॉस कर सुरेन्द्र साहू के मकान से बाबू भैया प्यासी तक एवं बलेहा तालाब रोड पर रामप्रसाद कुम्हार के मकान से नाला के किनारे गढ़ेरा तालाब तक.

**वार्ड क्र. 7—गांधी वार्ड**

**उत्तर**—हुकुम पटैल के मकान से तेजीलाल लोधी, धनीराम तिवारी, चन्द्रका व्यास के मकान तक एवं बलेहा तालाब रोड पर राम प्रसाद कुम्हार के मकान से पूर्व-पश्चिम सुरेन्द्र तिवारी की दुकान एवं मिठाई लाल यादव के मकान से लक्ष्मी जैन के मकान तक रोड क्रॉस कर बड़े स्कूल स्थित माता मंदिर से मुन्ना लाल दुबे के मकान होते हुये दुर्गा गौतम के मकान गल्ला बाजार डॉ. अग्रवाल से राकेश बर्मन के मकान तक.

**पूर्व**—हुकुम पटेल के मकान से उत्तर-दक्षिण मुकेश जैन की दुकान, अभिमन्यु चौक तक एवं रोड क्रॉस करके रामप्रसाद के मकान से नाला होते हुये नाला किनारे-किनारे गढ़ेरा तालाब तक.

**दक्षिण**—अभिमन्यु चौक मुकेश जैन की दुकान से कृष्णा बाई पाटकर के मकान तक एवं गढ़ेरा शमशान घाट तालाब के किनारे गनपत कुम्हार के मकान तक एवं बड़े स्कूल के खेल मैदान, सीमेन्ट रोड से पूर्व-पश्चिम होते हुये अस्पताल के सर्वेन्ट क्वार्टर होते हुये राकेश बर्मन के मकान तक.

**पश्चिम**—प्रताप वार्ड की सीमायें एवं जगमोहन वार्ड की सीमायें.

**वार्ड क्र. 8—प्रताप वार्ड**

**उत्तर**—छतरपुर रोड रामप्रसाद सोनी के मकान से पूर्व-पश्चिम किशन कुशवाहा, ओंकार व्यास का मकान होते हुये पर्मा काछी के मकान तक.

**पूर्व**—पथरहाई रोड स्थित रामप्रसाद सोनी के मकान से जैन धर्मशाला होते हुये चौधरी मुहल्ला मोड़ पटवा के मकान तक.

**दक्षिण**—पथरहाई पटवा के मकान से चौधरी मुहल्ला होते हुये प्रेम साहू के मकान एवं तेजीलाल पटेल के मकान से श्यामकिशोर के मकान एवं अग्निहोत्री के मकान होते हुये रोड क्रॉस कर नायडू के मकान से मुड़कर ज्ञानी सेन के मकान रम्मू नामदेव तक.

**पश्चिम**—छतरपुर रोड पर्मा काछी के मकान से रामकली पाण्डे का मकान एवं किशन विश्वकर्मा का मकान हुकुम राय का मकान होते हुये तारा सोनी के मकान से रम्मू नामदेव तक पूर्वानुसार.

#### वार्ड क्र. 9—विद्यासागर वार्ड

**उत्तर**—गुड़हाई प्राचीन हनुमान मंदिर से सुदर्शन सराफ के पीछे रोड क्रॉस कर शंकर ताम्रकार, नामदेव मंदिर, पटेलगंज मंदिर होते हुये, डॉ. मिश्रा के कोने तक.

**पूर्व**—प्राचीन हनुमान मंदिर.

**दक्षिण**—हनुमान मंदिर से पूर्व-पश्चिम की ओर सुदर्शन सराफ का मकान होते हुये फुहारा में मदन गुप्ता की दुकान से गल्ला बाजार मिठाई लाल साहू का मकान रोड क्रॉस करके शंकर लुहार के मकान से सेवाराम विश्वकर्मा के मकान एवं नगरपालिका भवन, नेहरू मार्केट संतोष भुर्जी की दुकान तक.

**पश्चिम**— डॉ. मिश्रा के मकान से उत्तर-दक्षिण होते हुये मेन रोड किनारे कमनिया गेट, उपाध्याय का मकान, प्रेम नारायण विश्वकर्मा का मकान, नेहरू मार्केट, संतोष भुर्जी की दुकान तक.

#### वार्ड क्र. 10—जगमोहन वार्ड

**उत्तर**—भरदा नाला से सुभाष वार्ड दक्षिणी, गांधी वार्ड की दक्षिणी सीमा एवं सब्जी बाजार रोड किनारे-किनारे राजमार्ग तक.

**पूर्व**—रेल्वे लाईन एवं सरस्वती शिशु मंदिर की पूर्वी सीमा स्कूल खेल मैदान नाला तक.

**दक्षिण**—कंदराखेड़ा ग्राम पंचायत की सीमा.

**पश्चिम**—सब्जी मंडी देवी मंदिर राजमार्ग के किनारे-किनारे नाला तक, मवेशी बाजार पुरानी चौकी से गार्डन ढाबा, भोलेनाथ केशरवानी का मकान, राजमार्ग के किनारे-किनारे वनमण्डल कार्यालय तक पूर्वानुसार.

#### वार्ड क्र. 11—गुरूनानक वार्ड

**उत्तर**—मोतीनाला एवं वार्ड क्रमांक-12 विवेकानन्द वार्ड की दक्षिणी सीमा.

**पूर्व**—वार्ड क्रमांक 10 जगमोहन वार्ड की दक्षिणी, पश्चिमी सीमा.

**दक्षिण**—ग्राम पंचायत भरदा केवलारी की सीमा

**पश्चिम**—ग्राम पंचायत बम्हनोदा, फूटाताल की सीमा

#### वार्ड क्र. 12—विवेकानन्द वार्ड

**उत्तर**—वार्ड क्रमांक-13 जयप्रकाश वार्ड की सीमा एवं मुड़िया रोड चेताराम लोधी के मकान से परोहा के मकान कुलयाना तक.

**पूर्व**—मोतीनाला से एन. एच.-7 के किनारे वृहताकार, बस स्टेण्ड, मोतीलाल केशरवानी का मकान एवं पुनऊ कोरी के मकान से होते हुये उत्तर की ओर मंगल नामदेव, पंचम गड़ारी तक एवं घासीराम कुशवाहा की बारी से खेरमाई की ओर सीमेन्ट रोड से नारायण के मकान तक.

**दक्षिण**—मोतीनाला स्थित नाला के किनारे-किनारे बम्हनौदा एवं मुड़िया ग्राम पंचायत की सीमा तक.

**पश्चिम**—मुड़िया ग्राम पंचायत की सीमा.

#### वार्ड क्र. 13—जयप्रकाश वार्ड

**उत्तर**—थाने के बाजू से मटियांकुई रोड, सीमेन्ट रोड होते हुये तालाब तक.

**पूर्व**—थाने के बाजू से राजमार्ग के किनारे-किनारे होते हुये जैन मेडिकल स्टोर्स, मुकरी की दुकान, चक्रेश मोदी का मकान, सरजू सोनी का मकान होते हुये विमल जैन के मकान तक.

**दक्षिण**—विवेकानंद वार्ड की उत्तरी सीमा.

**पश्चिम**—टीकाराम काछी की बारी होते हुये खेरमाई रोड होते हुये खेरमाई तक एवं रोड क्रॉस करके नई कालोनी होते हुये तालाब तक.

#### वार्ड क्र. 14—शिवाजी वार्ड

**उत्तर**—छतरपुर रोड पर पर्मा काछी के मकान बड़कुल की दुकान तक एवं बरझाई, तिवारीखेड़ा मोड़ से तहसीली होते हुये ग्राम पंचायत लीटी की सीमा तक.

**पूर्व**—नत्थू नामदेव के मकान से दक्षिण-उत्तर की ओर बुद्ध बड़ई, राधेलाल गुप्ता रोड क्रॉस कर विश्वकर्मा मंदिर रामकली पाण्डे का मकान छतरपुर रोड पर्मा काछी के मकान तक एवं मेन रोड एन. एच.-7 राजमार्ग पर हेमराज विश्वकर्मा के मकान से डॉ. धर्मेश, सरमन कुशवाहा, पीताम्बर प्रसाद मिश्रा, बरझाई स्थित जैन का मकान रोड क्रॉस कर कटंगहा के प्लॉट तिवारीखेड़ा रोड तक.

**दक्षिण**—नत्थू नामदेव के मकान से पूर्व-पश्चिम की ओर नायक के मकान तक तथा रोड क्रॉस कर राजमार्ग के किनारे हेमराज विश्वकर्मा के मकान से पूर्व-पश्चिम, मटियांकुई, ग्राम पंचायत की सीमा तक.

**पश्चिम**—थाने के सामने बड़कुल की दुकान से राजमार्ग के किनारे-किनारे उत्तर-दक्षिण नायक के मकान तक एवं तिवारीखेड़ा, लीटी ग्राम पंचायत की सीमा तक.

### वार्ड क्र. 15—राम वार्ड

**उत्तर**—रैपुरा ग्राम पंचायत की सीमा

**पूर्व**—राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7

**दक्षिण**—तिवारीखेड़ा रोड

**पश्चिम**—तिवारीखेड़ा ग्राम पंचायत की सीमा एवं मेन रोड राजमार्ग, राकेश पटेल के मकान से एस. आर. पब्लिक स्कूल की पुलिया तक.

विवेक पोरवाल, कलेक्टर.

Jabalpur the 12th February 2014

No. 212-Duda-2014.—In exercise of the powers conferred by the Notification No. 520- XVIII-3-04, Dated 24th February 2004 of Urban Administration and Development Department of Government of Madhya Pradesh, I, Vivek Porwal, Collector, District Jabalpur, Madhya Pradesh, under 29 (i) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 ( No. 37, of 1961) hereby determine the extent of Wards of Municipal Council Panagar, District Jabalpur as per Schedule below :-

### SCHEDULE

Ward Number (1)	Name of Ward (2)
1	Bajrang Ward
2	Vinobabhav Ward
3	Azad Ward
4	Moulana Ward
5	Bhagat Singh Ward
6	Subhash Ward
7	Gandhi Ward
8	Pratap Ward
9	Vidya Sagar Ward

(1)	(2)
10.	Jagmohan Ward
11.	Guru Nanak Ward
12.	Vivekanand Ward
13.	Jaiprakash Ward
14.	Shivaji Ward
15.	Ram Ward.

### Description of Boundaries of Wards

#### BAJRANG WARD No.—1

**North**—Raipura range of Gram Panchayat.

**East**—Deori, Jabalpur-Katni railway station and the western boundary line.

**South**—Housing Board, after the Pardeshi Vanshkar. The house next to the bridge of the pond to Pond.

**West**—National Highway No.7 to the limit.

#### VINOVABHAVE WARD No.—2

**North**—Located along a highway bridge to the sewer side of the pond behind the house of Ram Prasad Berman.

**East**—Bajrang Ward and to the western boundary of Azad Ward.

**South**—Chattarpur road to the northern boundary

**West**—National Highway No.7 to the limit. Ram Prasad Burman's house in front of the police station in Chhattarpur turn.

#### AZAD WARD No.—3

**North**—Chakaha sewer and southern boundaries of the Bajrang ward and Vinovabhav Ward.

**East**—Chhattarpur to Jabalpur railway gate Gram Panchayat limits and railway line to the lake's western border Baleha.

**South**—Moulana ward coming to the railway level crossing paths and Bhagat Singh Ward Jain Temple boundaries.

**West**—While Shankar ji Temple Munna mill house Brijmohan railway level crossing toward the temple of the house.

## MOULANA WARD No.—4

**North**— Chhattarpur Gram Panchayat limits to the East-West railway gate.

**East**—Chhattarnur raneer of Gram Panchayat, west railway line.

**South**—Bleha pond and bridge cross the road in front of Edgah.

**West**—Railway lines and the range of Bhagat Singh Ward.

## BHAGAT SINGH WARD No.—5

**North**— From Edgah to railway line cross the southern limits of Azad ward.

**East**— West boundries of Moulana Ward.

**South**—From railway bridge of East to the West side of the house Mahesh Prajapati.

**West**—Patharhai road from the house of Mahesh Prajapati to the house of Sukhlal Kachhi.

## SUBHASH WARD No.—6

**North**—From the house of Ganesh, Mukesh Lodhi to the house of Babu bhaiya Pyasi and from Baleha railway bridge to the East-West of Mahesh Prajapati crossing the road in front of the house.

**East**—Patharhai road next to the house of Mahesh Prajapati, Patharhai Mukesh Lodhi Road Dummi Gadari house and from Bharda bridge to Baleha Puliya to the edge of railway line crossing.

**South**—From the house of Rajaram Lakhera to Mahesh Prajapati and from Bharda puliya to the edge of the ravine to the morgue Shed.

**West**—Rajaram Lakhera house, and crossing the road the house of Surendra Sahu Babubhaiya pyasi and Pond road Baleha Ram Prasad Kumhar house to the sewer side of the pond Garehara.

## GANDHI WARD No.—7

**North**— From the house of Huku Patel, Tejilal Lodi, Dhaniram Tiwari, Chandra Vyas houses of pond road and allocation Ram Prasad Kumhar before houses of Surendra Tiwari East-West and house of Mithai Lal Yadav, Laxmi Jain houses of road to cross bade school from the temple at Munna Lal Dubey mother temple of Durga Gautam houses of market give Rakesh Barman Dr. Agarawal to houses.

**East**—From the house of Hukum Patel north-south Mukesh Jain's shop, and Abhimanyu Chowk and road from cross by Ram Prasad houses of Nalla, along to Garehra pond.

**South**—Abhimanyu chowk to Mukesh shop's and Krishna bai Patkar till house and Garehra Shamshan ghat pond of aside Ganpat Kumhar house till and Bade school of play ground, cement road to East-West for hospital to servant quarter till Rakesh Barban house.

**West**—Boundreis of Pratap ward and boundreis Jagmohan Ward.

## PRATAP WARD No.—8

**North**— Ram Prakash Soni Chhattarpur road from North to West near by Omkar Vyas house till to Parma Kachhi house.

**East**— From Ram Prasad Soni house Patharhai road cross by Choudhary Mohalla till Patwa house.

**West**—From Patharhai Patwa house near by Choudhary mohalla house to Prem Sahu from Tejilal patel house cross by Shyam Kishor house for Agnihotri house from Naidu house turn to Gyani Sen and Rammu Namdev house.

**South**—From Parma Kachhi house Chhattarpur road Ramkali pandey house and Kishan Vishwkarma house cross to Rai house and Tara Soni house till then Rammu Namdev house.

## VIDYASAGAR WARD No.—9

**North**— From Gurhai Old Hanuman Temple behind Sudarshan Saraf cross to road Shankar Tamrakar Namdev temple and of Dr. Mishra house Patelganj temple.

**East**— Old Hanuman temple.

**South**—Near Hanuman temple East-West side near Sudarshan Saraf house Phuhara road Madan Gupta Shop passing galla bazaar Mithai Lal Sahu house road cross by Shankar Luhar house to Sevaram Vishwkarma house and Nagar Palika Bhavan Nehru market to the shop of Santosh Bhurji.

**West**—From Dr. Mishra's house passing north-south inside of main road Kamaniya gate then Upaddhyay's house Prem Narayan Vishwakarma's house Nehru Market shop of Santosh Bhurji.



## JAGMOHAN WARD No.—10

**North**—From Bharda nala to south Subhash ward South limit of Gandhiji ward and a cross Sabzi market road to Rajmarg.

**East**— East boundary of railway line and to Saraswati Shishu Mandir School play ground.

**South**— Boundary of Kandrakhera gram panchayat.

**West**—Till inside of Sabzi Mandi Devi Mandir Rajmarg animal market purani chowki to garden Dhaba Bholenath Kesarvani's house inside of Rajmarg forest office till Previous.

## GURUNANAK WARD No.—11

**North**—Motinala and ward no. 12 Vivekanand ward boundary South.

**East**—Ward No. 10 Jagmohan Ward South-West boundary.

**South**— Gram Panchayat boundary of Bharda Kevlari.

**West**—Gram Panchayat Bamhnoda Boundary of Phutatal.

## VIVEKANAND WARD No.—12

**North**—From Ward no. 13 Jaiprakash boundary and Mudiya road till Chetram Lodhi house to Paroha house till Kulyana.

**East**— Motinala for inside of N. H.-7 Society, Bus Stand, Motilal Kesarvani's house and Punau Kori's house crossing north side Mangal Namdev till Panham Gadari and Ghasiram Kushvaha's garden to Khermai Cross till Cement road to Narayan house.

**South**— Stay of Motinala inside of Bamhnoda and till boundary of Mudiya Gram Panchayat.

**West**—Boundary of Mudiya Gram Panchayat.

## JAIPRAKASH WARD No.—13

**North**— By the side of police station to Matiyakuin road cement road till talab.

**East**— Inside of police station to NH.7 aside of Jain medical stores, Mukri shops, Chakresh Modi's house crossing Suraj Soni house till Vimal Jain house.

**South**—Boundary of Vivekanand Ward.

**West**—Crossing Teekaram Kachhi garden passing Khermai road till Khermai and crossed new colony till crossed talab.

## SHIVAJI WARD No.—14

**North**—On Chhattarpur road till Parma Kachhi's house to Badkul shop and Barjhai till Tiwarikhera mod to Tehsil crossing Gram Panchayat till Leeti boundary.

**East**—Natthu Namdev house's to south-north side Buddha Badhai till Radhelal Gupta road cross Vishwakarma's temple and Ramkali Pandey's house Chattarpur road Parma Kachhi's house and main road on NH-7 Rajmarg on Hemraj Vishwkarma's house to Dr. Dhermesh, Sarman Kushwaha, Pectambar Prasad Mishra, till stay Barjhai jain's house road, cross Katangha's plot till Tiwarikheda road.

**South**—Natthu Namdev's house to east-west side of Nayak's house and road cross aside of Rajmarg till Hemraj Vishwakarma's house to east-west boundary of Matiyakuin Gram Panchayat.

**West**—In front of police station Badkul shop to aside of Rajmarg till north-south Nayak's house and Tiwarikhera, boundary of Leeti Gram Panchayat.

## RAM WARD No.—15

**North**—Boundary of Raipura Gram Panchyat.

**East**— NH-7.

**South**—Tiwarikhera road.

**West**—Boundary of gram panchyat Tiwarikhera and main road Rajmarg Rakesh Patel house to S.R. public school Puliya.

VIVEK PORWAL, Collector.

## कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास),

जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. 47-जशविअभि-न.पा.-परिसीमन-प्रकाशन-2014.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नगरपालिका शुजालपुर, जिला शाजापुर की वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर वार्डों की संख्या तथा उनकी परिसीमाओं की अवधारणा नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करती है:—

## अनुसूची

- वार्ड क्रमांक 1— अशोक वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 2— जयेश्वर वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 3— छत्रपति शिवाजी वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 4— किदवई वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 5— महावीर वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 6— तिलक वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 7— दयानंद वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 8— अम्बेडकर वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 9— रानी दुर्गावती वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 10— मारूती वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 11— महात्मा गांधी वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 12— प्रेमचंद वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 13— डॉ. शंकरदयाल वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 14— रामचंद्र चौबे वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 15— जवाहर वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 16— डॉ. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 17— लक्ष्मीबाई वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 18— प्रताप वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 19— अरविन्द वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 20— महाराज अग्रसेन वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 21— मोती वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 22— चंद्र शेखर आजाद वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 23— शहीद भगतसिंह वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 24— सुभाष चन्द्र वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 25— सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड

## वार्ड नं.1—अशोक वार्ड

उत्तर—वार्ड नं. 3 की सीमापूर्व-मोहम्मद फकीर की बाडी से हनुमान मंदिर.

दक्षिण—वार्ड नं. 2 की सीमा

पश्चिम—वार्ड नं. 2 की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 1 में सम्मिलित है—बंजीपुरा हरिजन मोहल्ला मलकपुरा का भाग खरा कुंआ, हरिजन बस्ती इस प्रकार बंजीपुरा के मोहम्मद फकीर के मकान से समस्त बंजीपुरा की बसाहट अंदर लेते हुए वहां से खारा कुआं के मूलचंद अहीर के मकान व सम्पूर्ण नाई बाखल को अंदर लेते हुए लक्ष्मीनारायण सोनी के मकान तक वहां से सतय प्रकाश जी रमजानी तेली के मकान को अंदर लेकर मदनलाल तेली के मकान व वहां से सामने गली में मुडकर ताराचंद धोबी ताराचंद नेमा की बाखल को अंदर लेकर नाले के सहारे मलकपुरा इकराम पान वाले का मकान हीरालाल हरिजन का मकान अंदर लेते हुए बंजीपुरा पुलिया से मोहम्मद फकीर के मकान तक के बीच का भाग.

## वार्ड नं. 2— जयेश्वर वार्ड

उत्तर—शांतिलाल के मकान से कैलाश काका का मकान

पूर्व—वार्ड क्रमांक 1 की सीमा

दक्षिण—जमधड नदी

पश्चिम—वार्ड नं. 6 की सीमा

एरिया जो वार्ड 2 में सम्मिलित है—खाराकुआ का भाग ज्येश्वर मार्ग, बनियासेरी, हलवाईसेरी का भाग, महाराज मार्ग का भाग व किला, इस प्रकार सेन्ड पहलवान की बाखल अंदर लेते हुए नन्हे खॉ पिंजारे के मकान से चिरोजीलाल पटवारी के मकान तक वहां से खारे कुए के राजमल जी कोठेवाले कोठे अंदर लेते हुए मदनसिंह सराफ के मकान से शांतिलाल सूरजमल के मकान तक तथा सामने के मकान यादव रमेश राजपूत भंवरलाल दर्जी राधेलाल यादव अंदर लेते हुए वहां से गेंदमल बोरेवाले, कैलाश काका के मकान को अंदर लेकर मोतीलाल सराफ के मकान नए भवन तक वहां से ज्येश्वर मार्ग पर धनराज नेमा के मकान वाली लाईन से विश्वास राव के मकान राजा भैया के मकान तक की लाईन अंदर लेते हुए समस्त किला क्षेत्र अंदर लेकर सेन्डू पहलवान की बाखल के तक बीच का समस्त एरिया.

## वार्ड नं. 3— छत्रपति शिवाजी वार्ड

उत्तर—वार्ड क्रमांक 4 की सीमा

पूर्व—भंवर जी से नन्हे खॉ मलकपुरा के मकान तक

दक्षिण—वार्ड क्रमांक 1 की सीमा

**पश्चिम—**वार्ड नं. 5 व 2 की सीमा

एरिया जो वार्ड 3 में सम्मिलित है—मलकपुरा का भाग कुम्हार वाडी गली हलवाई सेरी का भाग गस्तीपुरा का भाग खारा कुआ का भाग युसूफ मेहर अली मार्ग का भाग इस प्रकार मंगल खों, शेर खों के मकान से बशीर सुपरवाईजर का मकान व सुबान खों दारूगर के मकान को अन्दर लेते हुए, इसी गली के जगन्नाथ नेमा छोगमल नेमा, सत्यप्रकाश जी सक्सेना, नाथूदास महाराज के मंदिर को अंदर लेते हुए उसी गली के पूर्व की ओर मुडकर फुन्दीलाल के मकान तक व युसूफ मेहरअली मार्ग पर रमजान खों वकील सहाब के मकान को अन्दर लेते हुए गस्तीपुर रोड से भंवरजी के मकान तक व वहां से रिंग रोड पर तालाब वाला मंदिर नन्ने खों चपरासी मलकपुरा के मकान को अंदर लेते हुए मंगल खों के मकान तक के बीच का एरिया.

**वार्ड नं. 4— किदवाई वार्ड**

**उत्तर—**भीमपुरा मस्जिद से मालगुजार सहिब का नेहरा

**पूर्व—**वार्ड नं. 3 की सीमा

**दक्षिण—**भोलू सुतार के मकान से सिन्धी की दुकान

**पश्चिम—**चांद बैग की हवेली से मालगुजार साहब का नेहरा.

एरिया जो वार्ड नं. 4 में सम्मिलित है—फदालीपुरा व युसूफ मेहरअली मार्ग का भाग गस्तीपुरा का भाग भीमपुरा कन्या शाला मार्ग का भाग इस प्रकार युसूफ मेहरअली मार्ग के भोलू सुतार के मकान से उत्तर की ओर मुडकर हयातगुल पठान के मकान व डॉ. खान के मकान भीमपुरा मस्जिद को अंदर लेते हुए शिवाजी राव देशमुख के नेहरे के अहमद खों के मकान व चांद बैग की हवेली अंदर लेते हुए इसी गली के पूर्व की ओर मुडकर नसीर मिस्त्री के मकान से धन्ना जी के मकान तक वहां से भोलू सुतार के मकान तक के बीच का समस्त एरिया.

**वार्ड नं. 5— महावीर वार्ड**

**उत्तर—**वार्ड क्रमांक 4 व 8 की सीमा

**पूर्व—**वार्ड नं. 3 की सीमा

**दक्षिण—**वार्ड नं. 2, 6 व 7 की सीमा

**पश्चिम—**कन्या शाला मार्ग व वार्ड नं. 7 की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 5 में सम्मिलित है—फदालीपुरा का भाग काजीपुरा स्वामी विवेकानंद मार्ग का भाग कन्या शाला मार्ग का भाग ओसवालसेरी का भाग छोटे बाजार का भाग बड़ा बाजार का भाग इस प्रकार अवंतिबाई भंवरलाल के मकान से कन्हैयालाल अहिर का मकान तक व वहां से मुडकर हजारीलाल होटल वाले के मकान से उत्तर की ओर मुडकर काजीपुरा मस्जिद अंदर लेते हुए इसी लाईन

के मकान गंगाप्रसाद नंदकिशोर को अंदर लेते हुए सामने सम्मी ड्रायवर के मकान को अंदर लेते हुए देवा माली के मकान युसूफ मेहर अली मार्ग के मकान तक व वहां से पूर्व की ओर मुडकर हेमराज सुतार चिमुबाई हकिम खों तेली व गली के सहारे गप्पु पहलवान के मकान से रोड क्रास कर सोनी का मकान तथा मोती मस्जिद रोड क्रास कर सोनी के मकान से बाबू जैन नेमा का मकान हकिम जी का बाडा अंदर लेकर धनराज नेमा की दुकान से शायर चबुतरा से अवंतिबाई भंवरलाल तक का बीच का समस्त एरिया.

**वार्ड नं. 6— तिलक वार्ड**

**उत्तर—**गणेश मंदिर से राजा भैया के मकान तक

**पूर्व—**वार्ड नं. 2 की सीमा

**दक्षिण—**नदी

**पश्चिम—**वार्ड नं. 7 की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 6 में सम्मिलित है—देवी मंदिर रोड तम्बोलीपुरा लखेरवाडी का भाग डाबरीपुरा का भाग एवं टिले की बसाहट इस प्रकार छोटे बाजार में गणेश मंदिर से प्रारंभ होकर इसी लाईन के मकान बाबूलाल सोनी लड्डू गुरू जैन मंदिर के पास की बसाहट जामा मस्जिद क्षेत्र की बसाहट राजा भैया वाकनकर का मकान अंदर लेकर सम्पूर्ण टिला क्षेत्र की बसाहट अंदर लेकर आत्माराम पटवारी से कुंवर जी चौधरी के मकान तथा पश्चिम की ओर मुडकर रामप्रसाद वैद्य दांडेकर वकील सा. मंदिर वाली गली के मकान अंदर लेते हुए इसी गली के सहारे मकान बसीर मास्टर दिल मोहम्मद के मकानों को अंदर लेते हुए लखेरवाडी तक तथा वहां से मुडकर देवी मंदिर रोड के पश्चिमी मकानों की बसाहट अंदर लेते हुए सम्पूर्ण तम्बोलीपुरा की बसाहट अंदर लेकर गणेश मंदिर तक के बीच का समस्त एरिया.

**वार्ड नं. 7— दयानंद वार्ड**

**उत्तर—**डॉ. दवे की दुकान से नूरपुरा के मकान नं. 22 तक

**पूर्व—**हनुमान मंदिर से रामसिंह चौधरी तक

**दक्षिण—**जमघड नदी

**पश्चिम—**वार्ड नं. 8 व 11 की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 7 की सीमा में सम्मिलित है—मरेठीपुरा डाबरीपुरा का भाग त्रिपोलिया बाजार का भाग नूरपुरा का भाग बड़ा बाजार का भाग इस प्रकार हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर रामसिंह चौधरी के मकान को अंदर लेते हुए सम्पूर्ण मरेठीपुरा की बसाहट अंदर लेकर सत्यनारायण मंदिर मार्ग पर रामनारायण दर्जी के मकान से सूरज प्रसाद पटवारी के मकान को अंदर लेते हुए सामने

गली के मकान माखन दर्जी लक्षमण माली मनोहरसिंह के मकान रखबदास जी के निवास वाले मकान को अंदर लेते हुए त्रिपोलिया बाजार के मकानों को अंदर लेकर केशरीमल मोची के मकान से रोड क्रास कर शबीर जूते वाले बालकृष्ण बेरागी के मकान से डॉ. दवे की दुकान तथा वहां से बड़ा बाजार का भाग अंदर लेते हुए पचौर रोड पर इब्राहिम खॉ के मकान से पूर्व की ओर मुडकर राजमल दर्जी का बाड़ा तथा वहां से गोरे सा. का मकान तथा हनुमान मंदिर के बीच की समस्त बसाहट.

#### वार्ड नं. 8— अम्बेडकर वार्ड

उत्तर—उगली जोड

पूर्व—वार्ड नं. 5, 7 की सीमा

दक्षिण—वार्ड नं. 7 की सीमा

पश्चिम—वार्ड नं. 9 की सीमा

डॉ. युसूफ खॉ के मकान से दाण्डेकर मार्ग होते हुए रामदयाल के मकान को लेते हुए मुल्ला जी इब्राहीम भाई के मकान से काजीपुरा होते हुए किका भाई के मकान को लेते हुए अजगर अली हसन अली का मकान को लेते हुए सोनी जी वकील सा. के मकान शितला माता मंदिर होकर कन्याशाला मार्ग युसूफ कुरेशी व शितल टंकी के सामने कन्याशाला स्कूल सम्पूर्ण तहसील परिसर को लेते हुए शा.बा.उ.मा.वि. को लेते हुए पचौर रोड के दोनों साईट के मकान कृषि भूमि को लेते हुए उगली जोड तक दोनों साईट के मकान को लेते हुए वापस निलेश नेमा की दुकान से रायपुर रोड के दोनों साईट के मकान लेते हुए ईदगाह बाउण्ड्री के पास अरविन्द्र कुशवाह के मकान लेते हुए देवेन्द्र परमार की होटल से सब्जी मण्डी गेट से होते हुए दशरथ बागरी के मकान को लेते हुए याकुब भाई साईकल वाले की दुकान लेते हुए हास्पिटल एरिये को लेते हुए प्रमोद नेमा किराने वाले बागरी पुरा में डॉ. युसूफ खान के मकान तक का सम्पूर्ण एरिया.

#### वार्ड नं. -9 रानी दुर्गावती वार्ड

उत्तर—रायपुर रोड

पूर्व—ईदगाह एरिया

दक्षिण—वार्ड नं. 10 की सीमा

पश्चिम—कृषि भूमि

शीतला माता मंदिर के पास सुभाषसिंह के मकान को लेकर सब्जी मण्डी मार्ग मंडी गेट क्रास कर विष्णुप्रसाद राठौर के मकान होते हुए उत्तर की ओर राजू भाई टाल वाले से पश्चिम की ओर कांकड का सम्पूर्ण एरिया चैनसिंह के मकान से दोनों तरफ के मकान लेते हुए जैल रोड के सामने राम मंदिर होते हुए जैल रोड मार्ग से शीतला माता मंदिर तक सुभाषसिंह के मकान तक का सम्पूर्ण एरिया.

#### वार्ड नं. 10— मारूती वार्ड

उत्तर—वार्ड नं. 9 की सीमा

पूर्व—फोरलेन रोड

दक्षिण—वार्ड 11 की सीमा

पश्चिम—कृषि भूमि

एरिया जो वार्ड नं. 10 में सम्मिलित है—जैल परिसर के आवास गोपालपुरा रायकनपुरा काली मंदिर मार्ग पचौर रोड इसी प्रकार पुलिस थाने से प्रारम्भ होकर पुलिस आवास गृह इसी रोड के मकान दयाराम पटवारी रामकिशन अंदर लेकर जैल परिसर तक वहां से मुडकर सम्पूर्ण गोपालपुरा की बसाहट अंदर लेकर चौधरी के मकान से सुरेन्द्रसिंह ठाकुर तथा गोपाल गुरु के मकान वहां से नगरपालिका की कालोनी अंदर लेकर धनसिंह मेवाडा वकील सा. के मकान अंदर लेकर हनुमान मंदिर रोड पर बाबू गोली वाले की दुकान अंदर लेकर पचौर रोड पर महावीर धर्मशाला काली देवी मंदिर युवराज क्लब थाना परिसर से जैल परिसर के बीच का समस्त एरिया.

#### वार्ड नं. 11—महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर—वार्ड नं. 10 की सीमा

पूर्व—वार्ड नं. 7 की सीमा

दक्षिण—वार्ड नं. 12 की सीमा

पश्चिम—कृषि भूमि की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 11 में सम्मिलित है—नूरपुरा का भाग बाल्मिकीपुरा डांक बंगला एरिया नाका नं. 4 का एरिया बस स्टेण्ड स्लाटर हाउस बसाहट हरिजन बस्ती, हनुमान मंदिर रोड पर गीताबाई हरिजन के मकान से उत्तर की ओर मुडकर जसमत ठेकेदार के मकान अंदर लेकर वहां से शांतिलाल के मकान को अंदर लेकर वहां से मनोहर जाटव के मकान वाली लाईन तथा सामने की लाईन अन्दर लेकर मकान शंकर चपरासी भगवानसिंह कुशवाह, प्रेमनारायण माली की बाडी अंदर लेकर सम्पूर्ण स्लाटर हाउस की बसाहट बस स्टेण्ड अंदर लेकर अजगर की टाल तथा नदी के पुल को पार कर डांक बंगले की सामने की बसाहट नाका नं. 4 की बसाहट कन्हैयालाल पेट्रोल पम्प से मुडकर नगरपालिका द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि की बसाहट डांक बंगला की बसाहट अंदर लेकर बाल्मिकीपुरा में गंदे नाले के सहारे के मकानों सम्पूर्ण नूरपुरा की बसाहट चुन्नी धोबी से पचौर रोड पर मूलचंद अहिर की चाय दुकान अंदर लेकर रोड क्रास कर गीताबाई हरिजन के मकान के बीच का समस्त एरिया.

**वार्ड नं. 12— प्रेमचंद वार्ड**

उत्तर—जमधड नदी

पूर्व—पूर्व वार्ड नं. 13 की सीमा

दक्षिण—फोरलेन रोड

पश्चिम—अकोदिया नाका व फोरलेन रोड

अकोदिया नाके के पास जटाशंकर रोड प्रतिक्षालय से राम मंदिर बजरंग अखाड़े के गेट से सम्पूर्ण महेशपुरा क्षेत्र जमधड नदी के किनारे होते हुए जल यंत्रालय का सम्पूर्ण एरिये को लेते हुए स्कारल एकेडमी स्कूल को लेते हुए वापस कच्चा रोड तुलसीनगर का सम्पूर्ण एरिया कान्वेन्ट स्कूल जनपद कार्यालय एस.डी.एम. बंगला, पशु चिकित्सालय, विधायक कार्यालय होते हुए फोरलेन एम.जी. मार्ग होते हुए वापस अकोदिया नाका के पास प्रतिक्षालय तक का सम्पूर्ण एरिया.

**वार्ड नं. 13— शंकरदयाल शर्मा वार्ड**

उत्तर—गंदा नाला वार्ड नं. 12 की सीमा

पूर्व—पूर्व वार्ड नं. 15 की सीमा

दक्षिण—फोरलेन रोड

पश्चिम—वार्ड 12 की सीमा

गोवर्धन जायसवाल के मकान से संतोष आटा चक्की वाले के मकान को लेते हुए प्रेमनगर मार्ग होते हुए गुरूकृपा स्कूल गंदा नाला तक प्रेमनगर एरिया राठौर कालोनी विद्यानगर का सम्पूर्ण एरिया लेते हुए ब्रह्मपुरी का सम्पूर्ण एरिया कान्वेन्ट स्कूल के पीछे होते हुए प्रभुलाल जी की बाडी को लेते हुए जगदीश सेन बाजपेयी जी के मकान से होते हुए कन्या शाला से गोवर्धन जायसवाल होटल तक का सम्पूर्ण एरिया.

**वार्ड नं. 14— रामचन्द्र चौबे वार्ड**

उत्तर—विद्युत् कालोनी (टावर कार्यालय) से मोहन प्रकाशसिंह तक.

पूर्व—वार्ड क्रमांक 15 की सीमा

दक्षिण—रेल्वे लाईन

पश्चिम—कृषि भूमि

एरिया जो वार्ड नं. 14 में सम्मिलित है—महात्मा गांधी मार्ग का भाग विद्युत् कालोनी, बी.टी.आई. कालोनी, ब्रजनगर गांधी कालोनी, चित्रांश नगर जगन्नाथपुरी इस प्रकार मथूरालाल चक्की वाले के मकान से पूर्व की ओर पेट्रोल पम्प अंदर लेते हुए मोहन प्रकाश सिंह

के मकान अंदर लेते हुए दक्षिण की ओर मुडकर सम्पूर्ण मोहल्ला ब्रजनगर की बसाहट रेल्वे लाईन की बसाहट गांधी कालोनी चित्रांश नगर गली नं. 12 जगन्नाथपुरी कालेज परिसर से विद्युत् कालोनी तक का बीच का एरिया.

**वार्ड नं. 15— जवाहर वार्ड**

उत्तर—फोरलेन मार्ग एम.जी. मार्ग

पूर्व—आष्टा रोड

दक्षिण—रेल्वे लाईन

पश्चिम—वार्ड नं. 14 की सीमा

रामचरण ठाकुर के मकान से गोतम हार्डवेयर से एम.जी. मार्ग बस स्टेण्ड एरिया अम्बिका बाजार एरिया होते हुए, डॉ. नगीना की गली आस-पास का एरिया होते हुए एम.जी. मार्ग पर हरी राठौर के मकान तक वही कार्नर से शंकर नगर मार्ग होते हुए नरेन्द्र जाधव से सम्पूर्ण शंकर नगर एरिया होते हुए रेल्वे लाईन बस स्टेण्ड के पीछे से पुनः रामचरण ठाकुर के मकान तक का सम्पूर्ण एरिया.

**वार्ड नं. 16— डॉ. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड**

उत्तर—रेल्वे लाईन

पूर्व—वार्ड 25 की सीमा

दक्षिण—कृषि भूमि

पश्चिम—कमलिया फाटक बाय पास रोड

रेल्वे फाटक के पास से सीधे अमरसिंह भोई के मकान से सीधे पीछे की रेल्वे लाईन की सीमा को लेते हुए शांतिबाई सोनी के मकान से होते हुए खीची सा. की कालोनी का सम्पूर्ण एरिया होते हुए कमलिया फाटक से कृषि भूमि एवं सिद्धनाथ कालोनी की बाउण्ड्री से होते हुए प्रमोद बापूलाल हरिजन के मकान से खलील भाई डायवर के मकान को लेते हुए राजेन्द्र परमार के मकान से रम्भाबाई के मकान से कृष्ण नगर मेन रोड होते हुए वापस अमर सिंह भोई के मकान से रेल्वे गेट तक का सम्पूर्ण एरिया.

**वार्ड नं. 17— लक्ष्मीबाई वार्ड**

उत्तर—नाला व कृषि भूमि

पूर्व—वार्ड नं. 18 की सीमा

दक्षिण—म. गां. मार्ग मेन रोड

पश्चिम—वार्ड 13 की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 17 में सम्मिलित है—महात्मा गांधी मार्ग का भाग पुराना पीठा रोड हरिजन बस्ती पंजाबी मोहल्ला भगतसिंह मार्ग

का भाग इस प्रकार वार्ड क्रमांक 11 के नाले के उपरी बसाहट से प्रारम्भ होकर मकान प्रहलादसिंह परमार से इसी लाईन के मकानों को अंदर लेकर पचौर रोड पर पाटीदार होटल तक तथा वहां से पूर्व की ओर मुडकर शुक्ला की दुकान वीर आटो मोबाइल्स जोगेन्द्रसिंह छाबडा का मकान अंदर लेकर पुलिस चौकी तथा वहां से त्रिलोकसिंह पंजाबी के मकान से उत्तर की ओर मुडकर बाबूभाई बेल्लिंग तथा वहां से रोड क्रॉस कर वीरूमल सिंधी से पंजाबी धर्मशाला तथा सामने के मकान विचित्रसिंह से पश्चिम की ओर मुडकर कांजी हाउस हरिजन बस्ती की बसाहट अंदर लेकर जटाशंकर रोड की बसाहट भंवरजी परमार का कुआं अंदर लेकर नाले की बसाहट के बीच का समस्त एरिया.

#### वार्ड नं. 18— प्रताप वार्ड

उत्तर—वार्ड नं. 19 की सीमा

पूर्व—वार्ड नं. 20 की सीमा

दक्षिण—रेल्वे लाईन

पश्चिम—वार्ड 17 की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 18 में सम्मिलित है—महात्मा गांधी मार्ग का भाग सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग का भाग कस्तुरबा मार्ग का भाग पंजाबी मोहल्ले का भाग रेल्वे कालोनी का उत्तरी भाग इस प्रकार रेल्वे कालोनी के उत्तरी भाग में निर्मित मकानों को लेकर लोक निर्माण विभाग इसी रोड के मकान महादेव अग्रवाल, राम भरोसे अग्रवाल, जानीमल सिंधी से इसी लाईन के मकान योगेन्द्र जैन से नेमा होटल तक वहां से वापस रोड क्रॉस कर ब्रजमोहनदास जी के मकान से चिरोन्जी धोबी से चौबे स्कूल गुरुद्वारा चंगीराम के मकान से फूलवाले माली के मकान तक तथा वहां से सामने मदन दाल वाले का मकान से कच्ची सेठ की दुकान से भार्गव बिल्लिंग तथा पीछे की ओर की लक्ष्मीबाई मार्ग एवं कस्तुरबा मार्ग की बसाहट अंदर लेकर लोक निर्माण विभाग कार्यालय को अंदर लेकर पीछे की ओर निर्मित आवास ग्रह जो उत्तर दिशा की ओर निर्मित है के बीच का एरिया.

#### वार्ड नं. 19— अरविंद वार्ड

उत्तर—जमघड नदी

पूर्व—वार्ड 20 व 21 की सीमा

दक्षिण—वार्ड नं. 21 की सीमा

पश्चिम—वार्ड नं. 18 की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 19 में सम्मिलित है—लालबहादुर शास्त्री मार्ग का भाग पटेल मार्ग का भाग लोहिया मार्ग का भाग आईल मिल के पीछे की गलियां इस प्रकार जैन मंदिर से प्रारम्भ होकर रीतेश एण्ड कम्पनी के मकान को अंदर लेकर रोड क्रॉस कर सामने के मकानों

को अंदर लेकर वहां से रोड अम्बार खाने के मकान से रोड क्रॉस कर शिवहरे मैनेजर के मकान से राम मंदिर अंदर लेते हुए वहां हनुमान मंदिर तक व नदी के किनारे-किनारे की बसाहट आईल मिल की गलियां पावर हाउस के अंदर लेकर इन्दरमल जैन के मकान से सरस्वती जीनिंग फैक्ट्री अंदर लेकर डॉ. शास्त्री के भवन से जैन के मकान तक व वहां से उसी रास्ते वापस आकर नवनीत पटेल के भवन से कांछी समाज की धर्मशाला अंदर लेकर वहां से जैन मंदिर तक के बीच का समस्त एरिया.

#### वार्ड नं. 20— महाराज अग्रसेन वार्ड

उत्तर—वार्ड 19 की सीमा

पूर्व—वार्ड क्र. 21 की सीमा

दक्षिण—रेल्वे लाईन

पश्चिम—वार्ड नं. 18 की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 20 में सम्मिलित है—महात्मा गांधी मार्ग का भाग राम मनोहर लोहिया का भाग रामचंद्र का मार्ग भाग उपाध्याय मार्ग का भाग तिलक पथ भांजी भाई मार्ग का भाग इस प्रकार डॉ. रामप्रसाद शास्त्री के मकान से उत्तर की ओर मुडकर पुराना टेलिफोन कार्यालय वहां से सामने नजमी बुट हाउस से पालिवाल का मकान भारतीय स्टेट बैंक से सामने चौबे जी का मकान से विष्णु हरिशंकर की दुकान से पालिवाल की दुकान तथा वहां से रोड क्रॉस कर बागमल ताराचंद जी के गोदाम से इसी लाईन के मकान अंदर लेकर आबकारी कार्यालय से विक्रमसिंह खत्री, चंदुमामा (टेम्पो चौराहा दुकान) तक तथा वहां से डॉ. रामप्रसाद शास्त्री के मकान के बीच का समस्त एरिया.

#### वार्ड नं. 21— मोती वार्ड

उत्तर—वार्ड क्र. 16 की सीमा

पूर्व—वार्ड क्र. 22 की सीमा

दक्षिण—रेल्वे लाईन

पश्चिम—वार्ड नं. 20 की सीमा

एरिया जो वार्ड नं. 21 में सम्मिलित है—तिलक पथ का भाग गणेश मंदिर गली नं. 1, 2, 3 का भाग मार्केटिंग का एरिया इस प्रकार पुराने शारदा स्कूल के पास रामचन्द्र हरिजन के मकान से प्रारंभ होकर मकान सेव वाले के पास मकान से पूर्व की ओर की बसाहट अंदर लेकर भजू जाट के मकान पर व मार्केटिंग के सामने जगन्नाथ दातारसिंह के मकान से रामप्रसाद गूजर के मकानों की लाईन अंदर लेकर अड्डा तार फैसिंग अंदर लेकर दक्षिण की ओर मुडकर गली नं. 3 के मकानों को अंदर लेकर इसी लाईन के मकानों को अंदर लेकर रामचन्द्र हरिजन के मकान के बीच का समस्त एरिया.

**वार्ड नं. 22— चन्द्रशेखर आजाद वार्ड**

उत्तर—वार्ड 21 की सीमा

पूर्व—ग्राम भीलखेड़ी की भूमि

दक्षिण—रेल्वे लाईन

पश्चिम—वार्ड नं. 21 की सीमा

एरिया जो वार्ड 22 में सम्मिलित है—श्मशान रोड की बसाहट गणेश मंदिर गली नम्बर 1, 2, 3 का कुछ भाग किदवई मार्ग का भाग वेयर हाउस रोड भांजी भाई मार्ग का भाग इस प्रकार श्मशान रोड पर गोपीलाल मंदरूप के मकान से प्रारम्भ होकर अड्डा तार फैसिंग के सहारे की बसाहट अंदर लेकर वहां से गुलाबसिंह ठेकेदार के मकान अंदर लेते हुए दोनों गलियों के मकानों को अंदर लेकर लक्ष्मीनारायण टेलर के मकान शिव मंदिर रोड को अंदर लेकर रोड क्रॉस कर नगीन चन्द्र जैन के मकान को अंदर लेते हुए इसी रोड पर सोनारसिंह के मकान तक के बीच का समस्त एरिया.

**वार्ड नं. 23— शहीद भगतसिंह वार्ड**

उत्तर—रेल्वे लाईन

पूर्व—कृषि भूमि भूगोर

दक्षिण—वार्ड 24 की सीमा

पश्चिम—आष्टा रोड

रेल्वे फाटक रेल्वे कालोनी से होते हुए आष्टा मार्ग सम्पूर्ण रेल्वे कालोनी, संजय देशमुख के मकान से चन्द्रशेखर पटेल खन्ना जी से होते हुए राघवगंज स्कूल मार्ग राठौर कालोनी से चिन्टू पत्रकार की आनन्द कालोनी लेते हुए रेल्वे गोडाउन से रेल्वे स्टेशन से फाटक तक का एरिया.

**वार्ड नं. 24— सुभाषचन्द्र वार्ड**

उत्तर—वार्ड 23 की सीमा

पूर्व—कृषि भूमि भूगोर

दक्षिण—कृषि भूमि

पश्चिम—आष्टा रोड

नंद किशोर साईकल की दुकान से जैन सा. से होते हुए भंवरसिंह ठाकुर के मकान से सीधे राघवगंज स्कूल होते हुए सुनिल बीलवान के मकान से मुकेश मीणा के मकान से होकर कैलाश मीणा की कृषि भूमि होते हुए शिवाजी मंदिर शासकीय शौचालय से अयोध्या बस्ती का सम्पूर्ण एरिया लेते हुए आष्टा रोड होते हुए वापस उत्तर की ओर गायत्री मंदिर होते हुए नन्द किशोर की दुकान तक सम्पूर्ण एरिया.

**वार्ड नं. 25— सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड**

उत्तर—रेल्वे फाटक

पूर्व—आष्टा रोड

दक्षिण—बायपास रोड

पश्चिम—वार्ड क्र. 16 कृष्णानगर कालोनी सीमा

रेल्वे गेट के पास असरफ भाई मेकेनिक की दुकान से विजय वाटिका लेते हुए विजेन्द्रसिंह सिसोदिया के मकान से ओम खत्री व हीरालाल पटेल की दुकान लेते हुए आष्टा बायपास रोड साई मंदिर के पास कृषि भूमि को लेते हुए पाण्डुरंग कालोनी दशहरा मैदान बायपास रोड सिद्धनाथ कालोनी, पंचवटी कालोनी विक्रम मालवीय के मकान को लेते हुए जलील भाई के खाली प्लाट से व प्रभुलाल पिता नारायणसिंह के मकान लेते हुए कृष्णनगर से लगा हुआ सिद्धी किराना स्टोर्स को लेते हुए असरफ भाई मेकेनिक की दुकान तक का सम्पूर्ण एरिया.

प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर.

**Ward Number 01—Ashok Ward**

**North**—Ward No. 3 in its eastern line—from wadi of Fakir to Hanuman Temple.

**South**—Boundary of Ward No. 2.

**West**—Boundary of Ward No. 3.

The area which is included in Ward No. 01 Banjipura Harijan Mohalla and part of Malakpura Khara Kua. Harijan living area then from the house of Mohammad Fakir of Banjipura to all Banjipura living residence taking inside and from there Khara Kua's Mulchand Ahir's house and all Barbers living inside area going to the house of Laxminarayan Soni and from the Mr. Satyaprakash Ramjani Teli's house to inside Madanlal Teli's house and from their in the front Street turning to Tarachand Dhobi and Tarachand Nema Bakhal inside to near by Nalla Malakpura Ikram Panwala's house Heeralal Harijan house taking inside Banjipura Pulia to Mohammed Fakir's house and its middle area

**Ward No. 02— Jayeshwar ward**

**North**— the house of Mr Shantilal to Kailash kaka

**East**— Boundary of ward no 01

**South**—Jamdhad River

**West**—Boundary of ward no 6

The area which is included in ward No. 02 Is a part of Khara kua. Jayeshwar way Baniya Seri Halwai Seri. part

of Maharaj way and Kila . This send wrcester's Bakhal taking in Naue khan Pinjara's house and from its house to Mr Chironjilal Patwari's house and from their Khara Kua Rajmalji Kothewal's Kothe taking inside Mr Madan singh saraf house and from here Mr Shantilal .Swagmal house and front house Mr Yadav Ramesh Rajput, Bhanwar lal tailor, Radhelal Yadav taking inside and from there Geudemal Berewale and Kailash kaka's house to inside taking Mr Motilal Saraf's new house and from their Mr Jayesver marg and Dhanraj Nema's house streat and from their Vishwas rao's house Raja Bhaiya's house taking inside all Kila area taking it to Sendu Pehlawan's Bakhal and all middle area.

#### Ward No. 03— Chhatrapati Shivaji Ward

**North**—Boundary of Ward No 04  
**East**— Bhawarji to Nanekhan Malakpura's house  
**South**—Boudnary of Ward No 01  
**West**—Boundary of Ward No 01 and 02

The area which is included in ward no 03 the part of Malakpura.Kumarwadi street and Halwai Seri part and Gastipura's and Khara kua and Usuf Mehar Ali Marg part thus from Mangal khan's house to Basheer supervisor house and Suban khan Darugar's house taking inside the same street Jagnnath Nema and Chhogmal N,ema Staya Prakash Saxena and from Nathudas Maharuj Temple. Taking inside in the same street to the eastern side turing to the house of Fundilal and Usuf Mehar Ali Marg on it Ramjan khan, Advoacate house taking inside to Gastipura road form here to Bhanwarji's house and from there on the Ring road pond Temple Nanne Khan, peon residing in Malakpura house taking in to Mangal khan's house and the middle area.

#### Ward No. 04— Kidwai Ward

**North**—Bheempura Mosque to Malgujar Nehra  
**East**— Boundary of Ward No. 3  
**South**—Bholu Carpenter house to Sindhi shop  
**West**—Chand Baig Haveli to Malgujar Nehra

The Area which is included in Ward no 04. The part of Fadalipura and Usuf Mehar Ali Marg part of Gastipura part of Bheernpura girls school marg there from the marg of Usuf Mehar ali marg the house of Bholu Carpenter to the north and turning to Hayatgul Pathan house and Dr.khan's house Bheempur mosque taking inside it Shivaji rao deshrnukh nehra and from Ahmad khan's house and huceli of Chand Baig taking inside to the same street eastern part turning from Naseer Carpenter's house to the house of Dhannaji and from there Bholu Carpenter's house and all is middle area.

#### Ward No 5— Mahaveer Ward

**North**—Boundary of Ward No. 04 and O8  
**East** —Boudary of Ward No. 03  
**South**—Boundary of 2.6 and 7  
**West**—Girls School marg to Boundarv of Ward 07

The area which is included ill ward no 05 part of Fadaleepura and Kajipura swami vevekanand marg and the part of girls school and part of oswal seri part. part of chhota market and big market . thus from the part of Awanti bai Bhanwarlal house to Kanhiyalal Aheer house and from there turning from Hajari lal hotel wala's house and from its house to North turning Kajipura mosque taking inside the same line the house of Ganga Prasad Nand kishor taking inside the same line front house or driver house Taking inside Deva Mali house Usuf Mehar Ali Marg to the house and from there to the east turning Hemraj carpenter Chimu bhai Hakeem Khan Teli and by the side of street and from the house of Gappu Wrester house and from here crossing road from soni house Babu jain nema house Hakeemji Wada taking inside the shop of Dhanraj Nema and from Shayar Cabutra plate form to Awantilal Bhanwarlal and all its middle area.

#### Ward No. 06— Tilak Ward

**North**— Ganesh Temple to Raja Bhaiya house  
**East**—Boudary of ward No 02  
**South**—River  
**West** —Boudary of Ward No 07

Area which is included in Ward No 6 Devi temple road Tambolipura and Lakher Wadri part and Dabripura part and living area of Teela and thus from Starting small market Ganesh temple on the same line the house of Babulal soni Laddu guru near Jain Temple living area jama masque area and the house of Raja Bhaia Wakankar house taking inside the whole Teela area living inside from Atma ram Patwari to Kunwarji Chaudhary house and to the west and taking a turn Ram Prasad Vaidya Dandekar advocate temple street house taking inside in the same street side the house of Baseer mater Dil Mohammad taking in the house to the Lakherwari and from there turning Devi temple road to the western house living area taking inside the whole Tambolipura living area taking inside to the Ganesh temple and all its middle area.

#### Ward No. 07— Dayanand Ward

**North**—the shop of Dr. Dave to the house No. 22  
**East** — Hanuman Temple to Ram Singh Choudhary  
**South**—Jamdhad River  
**West** —Boudary of Ward No. 8 and 11



The area which is included in the boundary of Ward No.07 The part of Marathipura and Dabripura and the part of Tripolia market and Noorpura is a part and part of big market and thus from beginning of Hanuman temple and taking in Ram Singh Choudhary house taking inside the whole Marathipura living area taking inside on the Satyanarayan temple marg from the house of Ramnarayan tailor house and from here to Suraj Prasad Patwri's house taking inside the front street house of Makhan tailor Laxman Mali Manohar Singh house Rakhadasji residence house taking inside to the Tirpoliya market house to Kesrimal Mochi house and from here crossing road Shabbir shoes Balkrishan Bairagi house to Dr Dave shop (Medical Stores) and from their big market starts taking inside on the Pachor road and from Ibrahim's hose to the East turning Rajmal Tailor and from their Gore Sahib house and Hanuman temple and living area.

#### Ward No. 8—Ambedkar Ward

**North**— Ugli joining area  
**East**—Boundary of Ward No 05 and 07  
**South**—Boundary of Ward No 07  
**West**—Boudary of Ward No 09

From the house of Dr. Yousuf Khan house Whaya Dandekar marg taking Ramdayal house and from Mullaji Ibrahim house going to kazipura and taking keeka bhai's house and taking Azgar Ali Hasan house and from Soniji Advocate house crossing Shitala Mata Mandir Whaya Girls School Marg and in front of Shital Tanki .and Girls School and taking the whole Tehsil compound Government Boys School taking it to Pachor road both side houses and taking agricultural land taking it to ugli joint and taking both side houses returning to Nilesh Nema house and shop and from here taking Both sides houses of Raipur road near Idgah boundary Crossing Arvind Kushwah house and from Devendra Parmar hotel and Vegetable market gate crossing and taking Dashrat Bagri's house taking the shop of Yakub Bhai Cycle Wala's shop to the Hospital all area to Pramod Nema's Kirana shop in the bagripura to the whole area of Dr. Yousuf Khan's house.

#### Ward No.- 09 Rani Durgawati Ward

**North**—Raipur road  
**East**—Idgah area  
**South**—Boundary of Ward No. 10  
**West**—Agricultural land

Beside Sheetala maa madir from the house of Subhas Singh to Vishnu Prasad Rathore's residence after crossing mandi gate of vegetable market then toward's

Raju Bhai Tallwala's in north then towards West direction including full kankad area from the house of Chain Singh covering from both side to Ram Mandir in front of Jail road and back to Sheet a Maa Mandir Shubash Singh house.

#### Ward No.10—Maruti Ward

**North**— Boundary of Ward No. 09  
**East**—Four lane road  
**South**—Boundary of Ward No. 11  
**West** —Agricultural land

The area which is included in ward No 10 starting from Jail compound and Residential area of Gopalpura Kali Mandir Marg Pachor road. Thus from police station inhabitant area on the same road the house of Dayaram Patwari and Ram Kishan taking inside Jail compound and from the turning the whole Gopalpura's living area, taking inside from Choudhary's house from here Surendra Singh Thakur and to the house of Gopal guru and from there Colony of Mulcipality colony taking inside Dhan Singh Mewada house taking inside Hanuman Mandir road on it Babu Goli Wala's shop in to Pachor road to Mahavir Dharma Shala Kali Mandir temple and from Yovraj club police station area from here to the whole Jail compound and its middle area.

#### Ward No. 11— Mahatma Gandhi Ward

**North**—Boundary of ward No. 11  
**East**—Boundary of Ward No. 07  
**South**—Boundary of Ward No. 12  
**West**—Boundary of Agricultural land

The area which is included in Ward No 11. The part of Noorpura rest house Balmikpura area Naka No. 04 area bus stand house living area Harijan area on the road of Hanuman Mandir from Geeta Bai Harijan's house to the north turning Jasmat Tekedar's house inside and from there Shantilal's house taking inside and from there Manohar Jatawa's house line and front line inside Shankar peon's house Bhagwan Singh Kushwah Prem Narayan Mali's Badi taking inside the whole slaughter house living area bus stand taking inside Azgar's tall and river Bridge crossing rest house front living area and Naka No. 04 living area turning 'to Kanhiyalal Petrol Pump turning to Municipality occupied land and its living area rest house living area taking in Vallikipura by the side of Dirty Nala's whole house of Noorpura living area and from Chunnihwahster men to Pachor road and Mulchand Aheer's tea stall taking inside crossing the road the whole area of Geeta Bai's house and between all area.

**Ward No.12— Premchand Ward**

- North**—Jamdhad river  
**East**—Boundary of Ward No. 13  
**South**—Four lane road  
**West** —Akodia Naka and four lane road

Beside Akodia Naka from Jatashankar road waiting room to Ram Mandir Bajran Akheke's gate covering the whole area of Mahesh pura moving on the banks of Jamdhad river including the whole area of water treatment plant also including the area of Scholar's Academy School and back to Muddy road, Tulsinagar whole area Convent School, block office, SDM Banglow, Amimal hospital, MIA office passing four lane MG road and back to Akodia Naka wating room whole area.

**Ward No.13— Dr. Shankar Dayal Sharma Ward**

- North**- Boundary of Ward No. 12 dirty water  
**East** - Boundary of Ward No. 15  
**South**-Four lane road  
**West** -Boundary of Ward No. 12

From the house of Gowardhan Jaiswal to Shantosh Flour Mill including it and passing to Prem Nagar Gurukripa School Dirty water including the whole area of Prem Nagar Rathore Colony Vildhya Nagar Brahmapuri Colony's full area from the back of Convent School including the Prabhulal ji garden passing from the house of Jagdish Sen Vajpai .Girls School to the Gowardhan Jaiswals hotel whole area.

**Ward No.14— Ramchandra Chaubey Ward**

- North**—MPEB Colony to Mohan Prakash house  
**East**— Boundary of Ward No. 15  
**South**—Railway line  
**West**—Agricultral land

Part of MG raod MPEB, Colony BTI Colony Brajnagar, Gandhi colony .Chitransh Nagar, Jaggnathpuri in the east of Mathuralal Flour mill and including petrol pump Mohan Prakash Singh house moving towards north total Kangi Mohalla part of Braj Nagar, Railway line, Gandhi Colony, Chitransh Nagar Colony No. 1, 2 Jaggnathpuri, Collage area to MPEB Colony centred area.

**Ward No.15— Jawahar Ward**

- North**—Four lane raod, MG road  
**East**—Ashta road.  
**South**—Railway line.  
**West**—Boundary of Ward No. 14.

From the house of Ramcharan Thakur, Gautam hardware to MG road bus stand area Ambika market Dr. Nagina's neighbor, colonies to Hari Rathor's house on MG road from that corner including Shankar Colony passing from the house to Narendra Jadhav to total area of Shankar colony railway line Bus Stand back to Ramcharan Thakur's residence whole area.

**Ward No.16— Dr. Rajendra Prasad Ward**

- North**—Railway line  
**East** — Boundary of Ward No. 15  
**South**—Agricultural land  
**West** —Bypass road Kamliya gate

Beside Railway crossing to straight to the house of Amar Singh Bhoi's house straight back railway line boundary to Shanti bai soni house passing form Kheechisaa Colony full area from Kamliya Gate Agricultural land and the boundary of Siddnath Colony to Pramod Babulal Harijan house including the house of Driver Khalil Bhai from the house of Rajendra Parmar to Rambha Bai's house passing from Krishana Nagar main road and back to the residence of Amar Singh Bhoi to Railway crossing whole area.

**Ward No.17— Laxmi Bai Ward**

- North**—Agricultural land  
**East**—Boundary of Ward No. 18  
**South**—MG main road  
**West**—Boundary of Ward No. 13

MG road old Pitha road Harijan Colony, Panjabi Colony part of Bhagat singh road in this way the upper living of Ward 11 beginning from there including house in the line of Prahlad Singh Parmar to Patidar hotel at Pachor road from there in east including Shukla's shop Veer Auto Mobile Jogendra Singh Chhabda house police station from here to house of Trilok Singh Panjabi moving in North Babu Bhai welding and from there crossing the road Virumal Sindhi to Panjabi Dharamshala and front house Vichitra Singh house to West including Kanji house whole harijan colony including residence of Jatashankar road well of Bhanwerji Parmar and the whole area upto dirty water area.

**Ward No.18— Pratap Ward**

- North**—Boundary of Ward No. 19  
**East**— Boundary of Ward No. 20  
**South**—Railway line  
**West**—Boundary of Ward No. 17

The area which is included in ward no 18 the part of Mahatma Gandhi marg and sardar Vallabh Bhai Patel Marg and the part of Kastruba Marg and Panjai Mohalla and north part of Railway Colony thus the constructed houses in Railway Colony North part and taking all there Build up house and PWD department road house and Mahadev Agrawal and Rambhrose Agrwal an Janimal Sindhi to the same line from the house of Yogendra jain to Nema hotel and from their again crossing the road Brijmohan Das house to Chironji Dhobi and from their Chobey School Gurudwara and from Chanjiram house to Phool Wale Mali house and from their infront Madan Dal Wala's house to Kachhi Seth shop to Bhargav bullidng and it Laxmi Bai Marg and Kasturba Marg living area taking inside PWD office takng inside its behind built up house which is construted in the north direction and its between area.

#### Ward No.—19 Arvind Ward

**North**—Jamdhad river

**East**—Boundary of Ward No. 20 and 21

**South**—Boundary of Ward No. 21

**West**—Boundary of Ward No.18

The area which is included in ward no 19 the part of Lal Bahadur Shastri marg part of Patel marg, Lohiya Marg part and the street of behind oil mill and thus from starting Jain Mandir reetish and Company's house taking inside and from there the house of Ambarkhane crossing the road and from shivhare house Manager's house to ram Mandir taking inside to Hanuman temple and at the bank of river living area and the street of oil mill and power house and taking in and from Indermal Jain to Sarsvati jeening factory to Dr. Shastri house and from here and coming from there from Navneet patel house to Kanchi society Dharamshalal taking inside Jain mandir complete middle area.

#### Ward No. 20— Maharaj Agrasen Ward

**Nouth**—Boundary of Ward No. 19

**East**—Boundary of Ward No. 21

**South**—Railway line

**West**—Bouduary of Ward No. 18

The area which is included in ward no 20 the part of Mahatma Gandhi Marg Rammanohar Lohiya Marg Ramchandra marg and updhya marg's part and Tilak Path Bhanji bhai marg's part and thus from Dr. Prasad Shastri house to the north and truning to old telephone office

and from there front area and from nazmi boot house to Palilwal house and Bhartiya State Bank's front and from Choudeyji's house and from Vishnu Hari Shankar shop to paliwal shop and from ther crossing the road to Bagmal Tarachand ji's godown on the same line house taking inside to Custom office and from here Vikram Singh khatri (Chandumama) tempu Chouraha shop and from there Dr. Ramprasad Shastri house and complet middle area.

#### Ward No.21— Moti Ward

**North**—Boundary of Ward No. 16

**East**—Boundary of Ward No. 22

**South**—Railway line

**West**—Boundary of Ward No. 20

The area which is included in ward no 21 the part of Tilak Path ganesh mandir street no 1,2,3 and its part the area of marketing and thus old Sharda School near Ramchandra Harijan's house from starting the house of apple seller to 'the eastern side living inside area and on the Bhajju jat house and from here to front part of marketing society and from the house of Jagannath Singh Datar house to Ram Prasad Gujar house' lines taking inside adda wire fancng taking in to the southern area turnig street no 03 house and on the same line houses taking in the complete middle area of Ramchandra Harijan.

#### Ward No. 22—Chandra Shaker Azad Ward

**North**—Boundary of Ward No. 21

**East**—Village Bheelkhedi land

**South**—Railway line

**West**—Boundary of Ward No. 21

The area which is included in the Ward No. 22 Funeral road living area to Ganesh temple street No. 1, 2,3 and its same part and the part of Kidwai marg and ware house road and the part of Bhanjibhai and thus on the funeral road and from Gopilal Mandroop house and starting from here to Adda wire fancng and by the side to living area taking inside it the house of Gulabsingh sing contractor house taking inside the both sides of the streets. Laxminarayan tailor house and Shiv Temple road taking in crossing the road out and taking Nageen Chandra jain house on the same road to the houe of Sonar Singh and its complete middle area.

**Ward No. 23— Shaheed Bhagat Singh Ward**

शाजापुर, दिनांक 31 जनवरी 2014

**North**—Railway line**East**—Agricultural land Bhugor**South**—Boundary of Ward no 24**West**—Asta road

From the area of railway gate colony to Asta road complete railway colony and from the house of Sanjay Deshmukh crossing Chandra Shekher Patel Khanna Ji to Ragahav Ganj school road and Rathore Colony to Chintu newspaper man and its Anand colony taking to railway station gate and its complete area.

**Ward No. 24— Shubhas Ward****North**—Boundary of Ward No. 23**East**—Agricultural and Bhugor**South**—Agricultural land**West**—Asta road

It is from Nandkishore cycle shop to Jain sir crossing Bhawar Singh thakur house and from here to Raghav Colony School crossing Sunil bilwan house and Mukesh Meena's house to kelash menaa agricultural land crossing to Shivaji Mandir Govt. toilet living and taking its complete area to asta road and coming back to the northern area Gyatri mandir road and to Nandkishor shop and its complete area,

**Ward No. 25—Sardar Ballabh bhai Patel Ward****North**—Railway gate**East**—Asta road**South**—Bypass road**West**—Boundary of Ward no 16

Krishana nagar colony it is near railway gate from Asraf bhai mechanic shop crossing vijay gardan taking to vijendra singh sisodiya house to Om khatri and heralal patel shop taking it to asta road and bypass road Satya Sain road temple near by agricultural land taking it to Pandurang Colony Dashara ground by pass road to siddhnath colony and Panchwati colony and taking to the house of vikram malviya and from Zaleel Bhai vacant plot and Prabhulal father Narayan Singh house taking it to Krishna nagar closed to Sindhec Kirana Stores taking it to Asraf bhai mechanical shop and its complete area.

PRAMOD GUPTA, Collector,

क्र. 48-जशविअभि-न.पा.-परिसीमन-प्रकाशन-2014.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नगर परिषद् अकोदिया, जिला शाजापुर की वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर वार्डों की संख्या तथा उनकी परिसीमाओं की अवधारणा नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करती है:—

**अनुसूची**

- वार्ड क्रमांक 1— डॉ. अम्बेडकर वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 2— चन्द्रशेखर वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 3— सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 4— लोकमान्य तिलक वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 5— जगजीवन राम वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 6— महात्मा गांधी वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 7— जवाहरलाल नेहरू वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 8— लालबहादुर शास्त्री वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 9— इन्दिरा गांधी वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 10— भगतसिंह वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 11— राजीव गांधी वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 12— महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 13— डॉ. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 14— विवेकानंद वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 15— सुभाषचन्द्र वार्ड

**वार्ड क्रमांक 1— डॉ. अम्बेडकर वार्ड****उत्तर**—कृषि भूमि तथा खुला मैदान**पूर्व**—वार्ड क्रमांक 3 की सीमा**दक्षिण**—वार्ड क्रमांक 2 की सीमा**पश्चिम**—कृषि भूमि तथा खुला मैदान

मंडलोई सा. के तालाब से सारंगपुर रोड होते हुए कृषि भूमि को अंदर लेते हुए पशु हॉट बाजार को अंदर लेते हुए पुलिया रमशान अकोदिया मण्डी तक वहां से नाला होते हुए मंडलोई की कुण्डी (पुलिया हरिजन) होते हुए नाले में होते हुए माली की बाड़ी के मकान अंदर लेते हुए श्रीपाल जैन, देवकरण, पर्वतसिंह का मकान अंदर लेते हुए रामसिंह चौहान के मकान तक वहां से जामनिया तालाब की भूमि अंदर लेते हुए मंडलोई सा. के तालाब तक.

**वार्ड क्रमांक 2— डॉ. चन्द्रशेखर आजाद वार्ड**

उत्तर—वार्ड क्रमांक 1 की सीमा

पूर्व—वार्ड क्रमांक 3 की सीमा

दक्षिण—कृषि भूमि तथा खुला मैदान

पश्चिम—कृषि भूमि तथा खुला मैदान

ज्ञानसिंह के मकान से लोहार के मकानों को अंदर लेते हुए श्री राम मंदिर नानी बाखल तक वहां से प्राथमिक विद्यालय को अंदर लेते हुए, भगवत, शंकरलाल, कुमेर गाड़री, शिव कुमेरसिंह पठारिया, बाबूलाल जैन के पीछे कुम्हारों के मकान लेते हुए नाला से होते हुए मालीयों के मकान अंदर लेते हुए एवं छंगीया बा की बाड़ी अंदर लेते हुए ज्ञानसिंह पार्श्व के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 3—सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड**

उत्तर—वार्ड क्रमांक 1 की खुली सीमा

पूर्व—वार्ड क्रमांक 8 की सीमा

दक्षिण—तालाब एवं वार्ड क्रमांक 7 की सीमा

पश्चिम—वार्ड क्रमांक 2 की सीमा

पुलिया अकोदिया मण्डी श्मशान के पास से चलते हुए छीतलमल जैन को अंदर लेते हुए वेयर हाउस को अंदर लेते हुए पुलिस थाने को अंदर लेते हुए रोड पर कर अनिल जैन के मकान को अंदर लेते हुए गोविन्द फोफलिया के मकान को अंदर लेते हुए नगरपालिका दुकान के पीछे तारु के मकान तक और वहां से पीछे की भूमि लेते हुए नवाब का तालाब अंदर लेते हुए मांगीलाल आटा चक्की तक वहां से मांगीलाल, भभूतसिंह, बनेसिंह के मकान को अंदर लेते हुए शिव मंडलोई के मकान के पीछे की गली होते हुए जगन्नाथ शर्मा के मकान को अंदर लेते हुए कृपाल सिंह मांगीलाल के मकान को अंदर लेते हुए मंडलोई सा. की कुंडी से नाला होते हुए पुलिया अकोदिया मंडी श्मशान घाट तक.

**वार्ड क्रमांक 4—लोकमान्य तिलक वार्ड**

उत्तर—कृषि भूमि तथा खुला मैदान

पूर्व—कृषि भूमि तथा खुला मैदान

दक्षिण—वार्ड क्रमांक 8 की सीमा

पश्चिम—वार्ड क्रमांक 8 की सीमा व खुली भूमि.

रमेशचन्द्र पन्नालाल सफाई कामगार के मकान से बीच के मकान को अंदर लेते हुए कुम्हाराखेड़ा हनुमान मंदिर तक तथा बीच के मकान एवं कुम्हाराखेड़ा से मांगीलाल राठौर का ट्यूबवेल अंदर लेते हुए हेमराज प्रजापति का मकान अंदर लेते हुए

शिवनारायण लाईनमेन को अन्दर लेते हुए रोड पार कर महेश नाथ के मकान को अंदर लेते हुए सरस्वती शिशु मंदिर को अंदर लेते हुए रमेशचन्द्र पन्नालाल के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 5— जगजीवन राम वार्ड**

उत्तर—कृषि भूमि तथा खुला मैदान

पूर्व—कृषि भूमि तथा खुला मैदान

दक्षिण—वार्ड क्रमांक 6 की सीमा

पश्चिम—कृषि भूमि तथा खुला मैदान

सईद लाला के मकान से आवास योजना के मकानों को अंदर लेते हुए अनुसूचित जाति बस्ती तक, अनुसूचित जाति की सम्पूर्ण बस्ती अंदर लेते हुए अनारसिंह, रघुनाथसिंह गेहलोत का मकान हैण्ड पम्प अंदर लेते हुए बाबूलाल शर्मा का मकान अंदर लेते हुए राम मंदिर के सामने वाली लाईन को अंदर लेते हुए आनंदीलाल सक्सेना के मकान के सामने से गोकुलप्रसाद शर्मा प्राथमिक शाला भवन, अब्दुल गनी लाला सालगराम कुम्हार के मकान को अंदर लेते हुए सईद लाला के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 6— महात्मा गांधी वार्ड**

उत्तर—वार्ड क्रमांक 5 की सीमा

पूर्व—वार्ड क्रमांक 5 की सीमा एवं खुली भूमि

दक्षिण—नाला एवं रेल्वे पटरी

पश्चिम—कृषि भूमि तथा खुला मैदान

नारायणसिंह रामचरण के बाड़े से सिद्धनाथ दौलतसिंह, प्रेमनारायण शर्मा का मकान अंदर लेते हुए विजयसिंह, मुन्नालाल के मकान तक, विजयसिंह के मकान से बागमल जैन, रामचरण गेहलोत का मकान अंदर लेते हुए, फुलसिंह, मांगीलाल के भवन तक, फुलसिंह मांगीलाल के मकान के सामने हीरालाल, कालूराम गाडरी राम मंदिर, करणसिंह, कैदारसिंह मेवाड़ा के मकान से नाला होते हुए ऊंकार, भेरूसिंह तथा नारायणसिंह परमार शिक्षक के मकान को अंदर लेते हुए नारायणसिंह रामचरण के बाड़े तक.

**वार्ड क्रमांक 7— जवाहरलाल नेहरू वार्ड**

उत्तर—वार्ड क्रमांक 3 की सीमा

पूर्व—वार्ड क्रमांक 8 की सीमा

दक्षिण—वार्ड क्रमांक 12 की सीमा

पश्चिम—वार्ड क्रमांक 14 की सीमा एवं खुली भूमि

नगरपालिका दुकान से ताऊ के मकान के पास से श्री राम मंदिर अन्दर को अंदर लेते हुए घनश्याम सोनी की दुकान अंदर लेते हुए नटवर राठी के मकान तक, नटवर राठी के मकान से पुरुषोत्तम शर्मा के मकान तक, पुरुषोत्तम शर्मा के मकान से सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल अंदर लेते हुए, ललताबाई का मकान अंदर लेते हुए, पन्नीवालों का मकान अंदर लेते हुए दामोदर धर्मशाला अंदर लेते हुए नगर परिषद् कार्यालय भवन अंदर लेते हुए नगरपालिका की दुकान (ताऊ के मकान के पास) तक.

#### वार्ड क्रमांक 8— लालबहादुर शास्त्री वार्ड

उत्तर—वार्ड क्रमांक 4 की सीमा

पूर्व—कृषि भूमि तथा खुला मैदान

- दक्षिण—वार्ड क्रमांक 10 व 9 की सीमा

पश्चिम—वार्ड क्रमांक 3 व 7 की सीमा

एस.आर. पेट्रोल पम्प शुजालपुर रोड से ईदगाह कालोनी को अंदर लेते हुए विद्युत् मंडल को अंदर लेते हुए अमरचन्द राठी एवं अस्पताल के पीछे की कालोनी को अंदर लेते हुए, देवबाई ठाकुर के मकान तक, देवबाई ठाकुर के भवन से रोड के दोनों तरफ के मकानों को लेते हुए पवन राठौर की दुकान तक, गोपाल राठौर के मकान से रामनारायण राठौर के मकान को अंदर लेते हुए, गोपाल राठी के मकान को अंदर लेते हुए पुलिस थाने तक, पुलिस थाने से गोपाल राठी की पीछे की कालोनी को अंदर लेते हुए, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पीछे की भूमि एवं कृषि मण्डी प्रांगण को अंदर लेते हुए मांगलीक भवन हनुमान मंदिर को अंदर लेते हुए, रोड पार कर बापूलाल भैराजी के मकान को अंदर लेते हुए पेट्रोल पम्प तक.

#### वार्ड क्रमांक 9— इन्दिरा गांधी वार्ड

उत्तर—वार्ड क्रमांक 8 व 10 की सीमा

पूर्व—कृषि भूमि एवं कब्रिस्तान

दक्षिण—वार्ड क्रमांक 11 की सीमा व खुली भूमि

पश्चिम—वार्ड क्रमांक 10 की सीमा

मयाराम, दयाराम के मकान से बीच के मकान अंदर लेते हुए मांगीलाल लाहोटी के कृषि फार्म तक, मांगीलाल लाहोटी के कृषि फार्म से पानी की खन्ती को अंदर लेते हुए, फिरोज खां के मकान को अंदर लेते हुए, शरीफ खां, बाबू खां को अंदर लेते हुए, अय्यूब लाला पान वाले को अंदर लेते हुए एल.एस.एस. बैंक अंदर लेते हुए, मयाराम के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 10— भगतसिंह वार्ड

उत्तर—वार्ड क्रमांक 12 की सीमा

पूर्व—वार्ड क्रमांक 9 की सीमा

दक्षिण—वार्ड क्रमांक 11 की सीमा

पश्चिम—वार्ड क्रमांक 12 की सीमा

मुरलीधर शर्मा के पुराने मकान से बीच के समस्त मकान लेते हुए, कोठारी जी की बिल्डिंग को अंदर लेते हुए, पारसजी मोना वाले के मकान को अंदर लेते हुए, पुरानी नगर पंचायत कार्यालय को अंदर लेते हुए, शासकीय अस्पताल अंदर लेते हुए, दिलीप भारती की दुकान तक, दिलीप भारती की दुकान से अस्पताल प्रांगण अंदर लेते हुए, पुरानी नगर पंचायत कार्यालय की पीछे की कालोनी को अंदर लेते हुए टेलीफोन एक्सचेंज सरस्वती स्कूल शिशु मंदिर स्कूल को अंदर लेते हुए, लतीफ भई मिर्ची वाले के मकान को अंदर लेते हुए, जगदीश राठौर के मकान को अंदर लेते हुए, बालकृष्ण राठौर के मकान तक बालकृष्ण राठौर के मकान से मांगीलाल लाहोटी की बिल्डिंग को अंदर लेते हुए मस्जिद एवं टप्पा कार्यालय को अंदर लेते हुए, देवेन्द्र गुरगोला के मकान तक, गुरगोला के मकान के मकान से मुरलीधर शर्मा के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक—11 राजीव गांधी वार्ड

उत्तर—वार्ड क्रमांक 9 व 10 की सीमा

पूर्व—कृषि भूमि एवं खुला मैदान

दक्षिण—वार्ड क्रमांक 13 की सीमा

पश्चिम—वार्ड क्रमांक 12 की सीमा

सुरेश टेलर किराना दुकान से बीच के समस्त मकान लेते हुए नूर अली की बर्तन की दुकान तक, रोड क्रॉस कर सार्वजनिक धर्मशाला को अंदर लेते हुए, जानकीनाथ मंदिर को अंदर लेते हुए, कन्याशाला स्कूल को अंदर लेते हुए, राव मोहल्ले को अंदर लेते हुए, रशीध खां, अजमत खां के मकान के बीच के समस्त मकानों को अंदर लेते हुए, मामूर खां के मकान तक, मामूर खां पिता मुरसबअली के मकान से बापूलाल मालवीय का मकान पशु चिकित्सालय, पोस्ट ऑफिस को अंदर लेते हुए, धनजी भाई के मकान तक, धनजी भाई के मकान से रोड क्रॉस कर कुशल डागा दवाखाना अंदर लेते हुए, सुरेश टेलर की किराना दुकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 12— महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

उत्तर—वार्ड क्रमांक 7 की सीमा

पूर्व—वार्ड क्रमांक 10 व 11 की सीमा

दक्षिण—वार्ड क्रमांक 13 की सीमा

पश्चिम—वार्ड क्रमांक 13 व 14 की सीमा

सेराज मेडम के मकान से समस्त बीच के मकान अंदर लेते हुए, रजाक भई कच्छी के मकान तक, रजाक भई के मकान से

उदयविला तक, उदयविला से मकानों को बीच में लेते हुए रोड क्रास कर आरामशीन को अंदर लेते हुए ब्रज चौरसिया के मकान तक रोड क्रास कर डागाजी के मकान से योगेन्द्र शर्मा के मकान को अंदर लेते हुए, सुन्दरसी रोड होते हुए शांतीलाल लाहोटी के मकान के पिछले कोने तक, शांतीलाल लाहोटी के मकान से मूलचन्द कोठारी के मकान को अंदर लेते हुए हरिसिंह वकील के मकान को अंदर लेते हुए सेराज मेडम के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 13— डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

उत्तर—कृषि भूमि एवं खुला मैदान वार्ड 7 की सीमा

पूर्व—वार्ड क्रमांक 12 की सीमा

दक्षिण—वार्ड क्रमांक 15 की सीमा

पश्चिम—वार्ड क्रमांक 14 की सीमा

कैलाशचन्द की आरामशीन से कृषि भूमि को अंदर लेते हुए, झीन में स्थित दरगाह को अंदर लेते हुए, डॉ. कमल परमार के मकान तक, कमल परमार के मकान से श्रीकिशन की गल्ले की दुकान को अंदर लेते हुए, प्रहलाद लाहोटी का पुराना मकान अंदर लेते हुए, लाहोटी जी के कोने से कृपालसिंह के मकान को अंदर लेते हुए पूनमचंद खत्री के मकान तक पूनमचंद के मकान से रामचरण पटेल के मकान को अंदर लेते हुए रोड क्रास कर कैलाशचन्द की आरामशीन तक.

#### वार्ड क्रमांक 14— विवेकानंद वार्ड

उत्तर—कृषि भूमि एवं खुला मैदान

पूर्व—वार्ड क्रमांक 13 की सीमा

दक्षिण—वार्ड क्रमांक 15 की सीमा

पश्चिम—कृषि भूमि एवं खुला मैदान

शिवहरी धाम कालोनी से दुर्गासिंह की कृषि भूमि को अंदर लेते हुए, विजय खत्री की आरामशीन को अंदर लेते हुए रोड क्रास कर ईश्वरसिंह का मकान अंदर लेते हुए, अशोक कुशवाह कि किराना दुकान तक. अशोक कुशवाह कि किराना से रोड क्रास कर परमानंद खत्री के मकान को अंदर लेते हुए, शीतला माता मंदिर के सामने होते हुए मोतीलाल पिता जालमसिंह का मकान अंदर लेते हुए, भोगीराम के मकान को अंदर लेते हुए, रोड क्रास कर लीलाबाई का मकान अंदर लेते हुए चंद्रसिंह जाट की कृषि भूमि को अंदर लेते हुए शिवहरी धाम कालोनी तक.

#### वार्ड क्रमांक 15— सुभाषचन्द्र बोस वार्ड

उत्तर—वार्ड क्रमांक 13 व 14 की सीमा

पूर्व—कृषि भूमि एवं खुला मैदान

दक्षिण—कृषि भूमि एवं खुला मैदान

पश्चिम—कृषि भूमि एवं खुला मैदान

हरलाल मुकुन्दराम के मकान से त्रिलोक ठाकुर के मकान को अंदर लेते हुए, नाला होते हुए छः ग्रह व रेल्वे कालोनी को अंदर लेते हुए, सिकरवार की होटल को अंदर लेते हुए, डॉ. खान के दवाखाने को अंदर लेते हुए, जगन्नाथ के मकान तक. जगन्नाथ के मकान से नाला पार करते हुए रेल्वे लाईन पार करते हुए विष्णु राव सुमित जैन की कृषि भूमि को अंदर लेते हुए, भुरा का मकान अंदर लेते हुए, दरगाह तक. दरगाह से नाले होते हुए सुन्दरसी रोड पर दशहरा मैदान तक. दशहरा मैदान से फतेहचन्द कुशवाह एवं बट्टी गुर्जर के मकान को अंदर लेते हुए, केवलराम प्रजापति के मकान को अंदर लेते हुए जसमतसिंह के मकान तक. जसमतसिंह के मकान से शीतलामाता मंदिर को अंदर लेते हुए रोड क्रास कर हरलाल मुकुन्दराम के मकान तक.

प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर.

#### Ward No.1—Dr. Ambedkar Ward

North— Agricultural Land and open ground

East—Boundary of Ward No. 3

South—Boundary of Ward No. 2

West— Agricultural Land and open ground

From the Pond of Mr. Mandloi, it starts through Sarangpur road, covering agricultural land, cattle market, small bridg, funeral parlour to Akodia Mandi small stream to the well of Mr.Mandloi (Pulia Harijan).It passes through garden of gardner and covers the building in the garden, and Mr.Shripal Jain, Devkaran Parvat Singh's houses reaches to the house of Mr. Ramsingh Chauhan. It again reaches to Mr. Mandloi's pond covering Jamnia pond.

#### Ward No.—2 Chandra Shekhar Ward

North—Boundary of Ward No.I

East—Boundary of Ward No.3

South—Agricultural Land and open ground

West—Agricultural Land and open ground

This ward starts from Mr.Gyan Singh's house. covers blacksmiths' houses, Shri Ram temple, Nani Bhakhal, Govt. Primary School,Bhagwat,Shankarlal, Kumer Gadari, Shiv Kumer Singh Patharia, Babulal Jain and poters houses. It passes through small stream covers gardeners' houses and Chhangiya Baa's garden and reaches again to Mr. Gyan Singh's house back.

**Ward No.—3 Sardar VallabhBhai Patel Ward**

- North**—Open space of ward No.1  
**East**—Boundary of ward No.8  
**South**—Pond and boundary of Ward No. 7  
**West**—Boundary of ward No.2

This ward starts from the small bridge, funeral parlour covers Mr.Anil Jain's house, Mr.Govind Phophalia's house runs behind Municipality's shoper and Tau's house covers Navab's pond, Mangilal's flour mill and from there it covers the lane behind Angilal, Bhabhootshigh, Banasingh and Shiv Mandloi houses. It covers Kripal Singh, Mangilal's houses and Mr. Mandloi's well reaches back to the stream, bridge and funeral parlor of Akodia Mandi..

**Ward No.— 4 Lokmanya Tilak Ward**

- North**— Agricultural Land and open ground  
**East**— Agricultural Land and open ground  
**South**—Boundary of Ward No.8  
**West**— Boundary of ward No. 8 and open land

This ward starts from the Ramesh Chandra Pannalal sweeper's middle house. It covers Kumharakheda Hanuman temple and the houses in between. it also covers Mangilal Rathore's tubewell, Hemraj Prajapati's, Shivnarayan line man's houses passes the main road and reaches to Mahesh Nath's Ramesh Chandra Pannalal's houses it covers Sarswati shishu mandir and connects to the starting point.

**Ward No.—5 Jagjeevan Ram ward**

- North**— Agricultural Land and open ground  
**East**—Agricultural Land and open ground  
**South**—Boundary of Ward No. 6  
**West**— Agricultural Land and open ground

The area covered in this ward starts from Saeed Lala's house include Awas yojana houses, sc, st complete basti reaches to Anarsingh, Raghunathsingh Gehlot's handpump covers Babulal Sharma's house, Ram temple, lineman, Anandilal Saxena's Gokul Prasad Sharma's houses. The Primary School building Abdul Gani Lala's, Shalgram Kumbhakar's houses and reaches back to the same point from it starts.

**Ward No.—6 Mahatma Gandhi Ward**

- North**— Boundary of Ward No.5  
**East**—Boundary of Ward No.5 and open land  
**South**—Stream and railway line  
**West** — Agricultural Land and open ground

The area covered in this ward starts from Narayan Singh Ramcharan's cattle court it covers Siddhanath Daulat Singh, Premnarayan Sharma's houses. Bagmal Jain, Ramcharan Gehlot's houses' it also includes Phulsingh Mangilal's house. The houses in front of Mr, Mangilal's house. belongs to Heeralal, Kalulra Gadri, Ram temple, Karan Singh, Kaidar Singh Mewada's houses are included in it. It reaches to the stream and Unkar, Bherusingh and Narayan Singh Parmar teacher's houses go back to the starting point Mr. Narayan Singh Ramcharan's cattle court.

**Ward No.—7 Jawahar Nehru Ward**

- North**—Boundary of ward No. 3  
**East**—Boundary of ward No. 8  
**South**—Boundary of ward No. 12  
**West**—Boundary of ward No. 14 and open ground

The area covered in this ward starts from The shops of Municipality and Tau's house shri Ram temple, Ghanshyam Soni's shop to the Natwar Rathi's house.it covers from Natwar Rathi's house to Purshottam Sharma's house, from Pursottam Sharma's house to Sarswati Gyan Mandir School to Laltabai's house, It covers to the huts of Litter Collector to the Damodar inn. it also covers the office of the Municipality shops and touches to the Tau's house.

**Ward No. —8 Lal Bhahadur Shastri Ward**

- North**—Boundary of Ward No.4  
**East**—Agricultural Land and open ground  
**South**—Boundaries of Ward No. 10 and 9  
**West**— Boundaries of Ward No. 3 and 7

The area covered in this ward starts from SR Petrol pump Shujapur road covering Idgaha Colony MPEB Office, Amarchand Rathi's and Hospital's back Colony, Devbai Thakur's house. It runs from Devbai Thakur's building to both sides of the main road and covers and touches the pan shop of Mr, Rathor. From Gopal Rathor's house Ramnarayan Rathor's house. Gopal Rathi's house to the Police Station. from police station to the back side Colony of Mr. Gopal Rathi's house touches Sarswati Shishu Mandir's back ground and Agriculture Mandi Ground Community Hall and Hanuman temple crosses the road and go back to the petrol pump.

**Ward No.—9 Indra Gandhi Ward**

- North**—Boundaries of Ward No.8 and 10  
**East**—Agricultural Land and burial ground  
**South**—Boundary of Ward No. 11 and open ground  
**West**—Boundary of Ward No. 10



The area covered in this ward starts in between the houses of Mr. Mayaram and Dayaram, covers Mangilal Lahoti Agricultural Form to the water pool and covers Mr. Firoz Khan's house Sharif khan, Babu Khan and Ayyub Lala Panwale's houses covering L S S Bank reaches back to the Mayaram's house.

#### Ward No.10— Bhagat Singh Ward

**North**— Boundary of Ward No.12

**East**—Boundary of Ward No. 9

**South**—Boundary of Ward No. 11

**West**—Boundary of Ward No.12

The area covered in this ward starts from Mr. Murlidhar Sharma's old house covering all the houses in between Kothari building, Paralji Monawale's house. Municipality old office, Govt. Hospital Dilip Bharaty's shop. From Bharty's shop to hospital ground and the colony back of the telephone exchange, Sarwati Shishu Mandir to the houses of Mr. Latif Bhai Chilly Merchant, Jagdeehs Rathor's house, Balkrishana Rathor's house. It covers Mangilal Lahoti's building, the Masque tappa tehsil office, Devendra Gurgela and from Gurgela's house to back Mr, Mr. Murlidhar Sharma's old house.

#### Ward No.11— Rajeev Gandhi Ward

**North**—Boundary of Ward No.9 and 10

**East**—Agricultural Land and open ground

**South**—Boundary of Ward No.13

**West**—Boundary of Ward No. 12

The area covered in this ward starts from Mr. Suresh Tailor Gorcer shop covers between all the houses Mr. Noor Ali's utensil shop, crossing the road includes Public inn Jankinath Temple Girls' School, Rao Mohalla, Mr. Rasheed khan Anjad Khan Mamur Khan's houses. It also covers mamur son of Mursballi's house, Bapulal Malviya's house. Veterinary Hospital, Post Office lane to the Dhanji Bhai's house and from his house crossing the road to kushal daga dispensary and again back to the Mr. Suresh Tailor Gorcer shop.

#### Ward No.12— Maharani Lakshami Bai Ward

**North**—Boundary of Ward No. 7

**East**— Boundaries of Ward No. 10 and 11

**South**— Boundary of Ward No. 13

**West**— Boundaries of Ward No.13 and 14

The area covered in this ward starts from Seraj Madam's house covering in between all the houses As Razak Bhai' Kachhi's house, From his house to Uday villa and from Uday villa to crossing the road to the saw

mill and Braj Chaurasiya's house again crossing the road Mr. Daga's house Yogendra Sharma's house to reaches to Sundarsi road and covers Shantilal Lahoti's house back portion and the corner. From Shantilal Lahoti's house to Moolchand Kothari and Harisingh adovacate's house reaches back to Seraj Madam's house.

#### Ward No.13— Dr. Rajendra Prasad Ward

**North**— Agricultural Land, open ground and the boundary Ward No. 7

**East**—Boundary of Ward No.12

**South**—Boundary of Ward No.15

**West**—Boundary of Ward No. 14

The area covered in this ward starts from Mr. Kailash Chandra saw mill and land jean, Dargah (shrine), Dr.Kamal Parmar's house. From his house to Shri Kishan's grain shop to Prahlad Lahoti's old house and from this old house to Kripal Singh's house to Poonam Chand Khatri's house and from there to Ram Charan Patel's house again crossing the road go back to the same place to Mr. Kailash Chandra saw mill .

#### Ward No. 14— Vivekanand Ward

**North**—Agricultural Land and open ground

**East**—Boundary of Ward No.13

**South**—Boundary of Ward No.15

**West**— Agricultural Land and open ground

The area covered in this ward starts from Shiv Hari Dham Colony to Durga Singh's agricultural land .it covers Vijaykhatri's saw mill crosses the road reaches to Ishawar Singh's house and Ahok Kushwah's grocer shop. From this shop again crosses the road and reaches Parman and Khatri's house touches Sheetla mata temple and Motilal son of Jalam Singh's house to Bhogiram's house. crosses the road and touches Leela Bai's house and Chandar Singh Jat's agricultural land goes back to the Shiv Hari Dham Colony.

#### Ward No. 15— Subhash Chandra Ward

**North**—Boundary of Ward No. 13 and 14

**East**—Agricultural Land and open ground

**South**—Agricultural Land and open ground

**West**—Agricultural Land and open ground

The area covered in this ward starts from Haral Mukundram's house to Trilok Thakur, covers dirty drain six grah and Railway Colony reaches to Sikarwar Hotel and Dr.Khan's dispensary and Jagnath's house. From his house to crosses the big drain and crosses the Railway line to the Vishnu Rao Sumit Jain's agricultural land.

It also cover Bhura's house and reaches to the shrine (Dargah). From Dargah to the stream and touches to sundasi road and Dashahara Maidan. From Dashahara Maidan to Phatehchand Kushawah and Badri Gurjar's house and includes Kewalram Prajapati's house and Jasmat Singh's house. Lastly from Jasmat Singh's house to Sheetala Mata temple and again crosses the road and touches HarIal Mukundram's house.

PRAMOD GUPTA, Collector,

शाजापुर, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. 49-जशविअभि-न.पा.-परिसीमन-प्रकाशन-2014.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नगर परिषद् मक्सी, जिला शाजापुर की वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर वार्डों की संख्या तथा उनकी परिसीमाओं की अवधारणा नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करती है:—

### अनुसूची

- वार्ड क्रमांक 1— संजय गांधी वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 2— शास्त्री वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 3— महाराणा प्रताप वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 4— सुभाष वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 5— इन्दिरा गांधी वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 6— डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 7— पार्श्वनाथ वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 8— अम्बेडकर वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 9— खेड़ापति हनुमान वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 10— जवाहर वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 11— महात्मा गांधी वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 12— तिलक वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 13— शिव मंदिर वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 14— लक्ष्मीबाई वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 15— भगतसिंह वार्ड

### वार्ड क्रमांक 1— संजय गांधी वार्ड

उत्तर—तहसील कार्यालय के पास चन्द्रसिंह गुर्जर काकाजी के मकान तक आगे पुलिया से सुन्दरलाल पटेल के खेत तक.

दक्षिण—खाजू खों के भवन से कैलाश मिस्त्री के भवन तक.

पूर्व—पहाड़ी किनारे कैलाश के मकान तक.

पश्चिम—ए.बी. रोड.

विवरण—चन्द्रसिंह गुर्जर काकाजी के मकान से ए.बी. रोड खाजू खों के मकान तक एवं सम्पूर्ण तलाई मोहल्ला कैलाश के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 2— शास्त्री वार्ड

उत्तर—गली डॉ. राजेश के भवन से बी.एस.एन.एल. टावर तक गली नम्बर 02.

दक्षिण—मजिद खों के मकान से किशनलाल के मकान तक गली नं. 8.

पूर्व—ग्राम कपालिया की भूमि से झरनेश्वर रोड तक.

पश्चिम—डॉ. राजेश के भवन से ए.बी. रोड पर गली नं. 8 के मजिद खों के मकान तक.

विवरण—डॉ. राजेश के भवन से प्रारंभ होकर ए.बी. रोड के किनारे गफफार के मकान से मजिद खों के मकान को लेते हुए, किशनलाल के मकान तक एवं ग्राम कपालिया की कृषि भूमि से झरनेश्वर रोड तक नई आबादी गली नं. 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8.

### वार्ड क्रमांक 3— महाराणा प्रताप वार्ड

उत्तर—सिद्धसिंह के मकान से विक्रम पंडाजी के मकान तक गली नं. 8.

दक्षिण—सिंधिया मार्केट के कोने से महुवापुरा को लेते हुए, सिरोलिया ग्राम की कृषि भूमि.

पूर्व—सिरोलिया की कृषि भूमि से महुवापुरा की कृषि भूमि.

पश्चिम—सिद्धसिंह के मकान से ए.बी. रोड की पुलिया से निकलते हुए सिंधिया मार्केट के कोने तक.

विवरण—सिद्धसिंह के मकान से प्रारंभ होकर ए.बी. रोड पुलिया को लेते हुए सिंधिया मार्केट के कोने तक पूर्व दिशा में उकाला रोड सिरोलिया भूमि की कृषि से हरिशंकर की भूमि लेते हुए झरनेश्वर रोड तक नई आबादी में चैनसिंह के भवन को लेते हुए गली नं. 8 विक्रम पंडाजी के भवन तक नई आबादी गली नं. 8, 9, 10, 11, 12 व लोधी मोहल्ला का आवासीय क्षेत्र.

### वार्ड क्रमांक 4— सुभाष वार्ड

उत्तर—केशरसिंह लोधी के भवन से महुवापुरा का रास्ता.

दक्षिण—सिताबसिंह पटेल के भवन से स्टेशन रोड के किनारे-किनारे उम्मेदसिंह लोधी के भवन को लेते हुए कृषि भूमि तक.

**पूर्व**—उम्मेदसिंह के भवन के पास कृषि भूमि को लेते हुए महूवापुरा के नाले के सामने मक्सी/ सिरोलिया कृषि भूमि तक.

**पश्चिम**—केशरसिंह लोधी के भवन से ए.बी. रोड के किनारे-किनारे झोंकर रोड पर चौराहे पर सिताबसिंह के मकान तक.

**विवरण**—केशरसिंह लोधी के भवन से प्रारम्भ होकर ए.बी. रोड के किनारे-किनारे झोंकर रोड चौराहे पर सिताबसिंह के भवन तक सिताबसिंह के भवन से स्टेशन के सामने उम्मेदसिंह के भवन तक उम्मेदसिंह के भवन होते हुए महूवापुरा नाले तक सम्पूर्ण भवन. ए.बी. रोड बस स्टेण्ड हा. से. रोड जगन्नाथपुरी व स्टेशन रोड के आवासीय क्षेत्र.

#### वार्ड क्रमांक 5— इन्दिरा गांधी वार्ड

**उत्तर**—मक्सी झोंकर की सीमा से ए.बी. रोड पर हनुमान मंदिर तक.

**दक्षिण**—रेल्वे स्टेशन के सामने उम्मेदसिंह के भवन के सामने वाले गली से झोंकर रोड पर शिव सेठ के खाली प्लाट तक.

**पूर्व**—हम्मालपुरा के पीछे ओमप्रकाश श्रीवास्तव की कृषि भूमि से मक्सी झोंकर की सीमा तक.

**पश्चिम**—झोंकर रोड पर शिव सेठ के खाली प्लाट के किनारे सम्पूर्ण इन्दिरा कालोनी स्टेशन रोड संदीप गुप्ता के मकान तक.

**विवरण**—शिव सेठ के खाली प्लाट के चलते हुए इन्द्रा कालोनी की दुकान हिंग वाले को लेते हुए हैण्डपम्प के पास से निकलते हुए आशाराम कालोनी की आधी पट्टी एवं सम्पूर्ण इन्द्रा कालोनी के भवन स्टेशन रोड संदीप गुप्ता के भवन तक एवं औद्योगिक क्षेत्र टी.आर.डी. कालोनी हम्मालपुरा ओमप्रकाश श्रीवास्तव की कृषि भूमि.

#### वार्ड क्रमांक 6— डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

**उत्तर**—लक्ष्मीनारायण पटेल का मकान.

**दक्षिण**—पंचमुखी हनुमान मंदिर.

**पूर्व**—आशाराम कालोनी स्थित लखनलाल मण्डलोई का मकान.

**पश्चिम**—बावड़ी मोहल्ला लेते हुए क.प्रा.वि. एवं उज्जैन रोड की आधी पुलिया.

**विवरण**—जलालपुरा कृषि भूमि से प्रारंभ होकर ए.बी. रोड के किनारे रेल्वे लाईन आशाराम कालोनी की दोनों पट्टियां लेते हुए,

लक्ष्मीनारायण के पटेल तक ए.बी. रोड, डाक बंगला होते हुए बावड़ी मोहल्ला के सम्पूर्ण क.प्रा.वि. तक एवं विद्यालय के पीछे से होते हुए पुलिया के नीचे से निकलते हुए उज्जैन रोड को क्रास कर पाटीदार धर्मशाला तक पुनः ए.बी. रोड तक.

#### वार्ड क्रमांक 7— पार्श्वनाथ वार्ड

**उत्तर**—जैन मंदिर परिसर लुनियाखेड़ रोड.

**दक्षिण**—जलालपुरा कृषि भूमि.

**पूर्व**—रामेश्वर खाती के मकान से जैन मंदिर तक.

**पश्चिम**—कालाभाटा, उज्जैन रोड सीमा से लुनियाखेड़ी रोड तक.

**विवरण**—मूरलीधर हास्पीटल से उज्जैन रोड के और अम्बिका वेयर हाउस तक एवं नर्मदा खाती के मकान से रामेश्वर खाती के मकान तक एवं तालाब की पाल होते हुए जैन मंदिर के कालाभाटा के सम्पूर्ण भवन.

#### वार्ड क्रमांक 8— अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर**—सामुदायिक भवन से प्रदीप के मकान व खुशीलाल के मकान तक.

**दक्षिण**—लुनियाखेड़ी रोड से पशु चिकित्सालय व गुर्जर सेरी तकिया चौराहा तक.

**पूर्व**—भावसार मोहल्ला.

**पश्चिम**—लुनियाखेड़ा रोड पर बाबा की दरगाह.

**विवरण**—लुनियाखेड़ा रोड दरगाह पशु चिकित्सालय होते हुए सामुदायिक भवन तक व ए.बी. रोड खुशीलाल के मकान तक गुर्जर सेरी हरिजन मोहल्ला व बजरंग मोहल्ला के सम्पूर्ण भवन.

#### वार्ड क्रमांक 9— खेड़ापति हनुमान वार्ड

**उत्तर**—अम्बाराम गुर्जर के भवन हरिशंकर पटेल के भवन तक.

**दक्षिण**—तकिया चौराहे पर युसूफ खॉ के मकान से कैलाश खाती के मकान तक.

**पूर्व**—हरिशंकर पटेल के भवन से कैलाश खाती के मकान तक.

**पश्चिम**—तकिया में युसूफ खॉ के भवन से हनुमान मंदिर के पास अम्बाराम गुर्जर के भवन तक.

**विवरण**—युसूफ खॉ के भवन से कैलाश खाती के भवन तक एवं पिंजारासेरी में हीरलाल भावसार के मकान तक उदयनारायण भावसार के मकान को लेते हुए मांगीलाल ड्रायवर हरिशंकर पटेल

के भवन हनुमान मंदिर अम्बाराम गुर्जर के भवन व युसूफ खॉ के भवन तक गुर्जर सेरी लालमाता क्षेत्र पिंजारा सेरी तकिया ब्राह्मण सेरी उपरसेरी बुन्देला गली बजरंग मोहल्ला के सम्पूर्ण भवन.

#### वार्ड क्रमांक 10— जवाहर वार्ड

**उत्तर**—कचहरी चौक रणछोड़ महाराज के मंदिर से भावसार मोहल्ला में पुरूषोत्तम भावसार के मकान तक.

**दक्षिण**—मो. गुड़ वाले के भवन से जैन भोजनशाला भवन को लेते हुए अंजनीलाल मंदिर तक.

**पूर्व**—अंजनीलाल मंदिर से जूना बाजार लेते हुए रणछोड़ महाराज के मंदिर तक.

**पश्चिम**—पुरूषोत्तम के मकान से पिंजारासेरी मोहम्मद गुड़ वाले के भवन तक.

**विवरण**—मो. गुड़ वाले के भवन से भोजनशाला वाली लाईन लेते हुए अंजनीलाल मंदिर जूना बाजार में रणछोड़ महाराज के मंदिर व पुरूषोत्तम भावसार के भवन से पिंजारा सेरी, मो. गुड़ वाले के भवन. लोहार सेरी, दर्जी सेरी, पिंजारा सेरी, खाती सेरी, जूना बाजार से सम्पूर्ण भवन.

#### वार्ड क्रमांक 11— महात्मा गांधी वार्ड

**उत्तर**—तेजाजी मंदिर मार्ग पुराना पशु बाजार.

**दक्षिण**—विडियो चौक.

**पूर्व**—शिव मंदिर पुलिया से मिराश्री गली पुलिया तक.

**पश्चिम**—जूना बाजार.

**विवरण**—जूना बाजार रणछोड़ महाराज के निवास से धर्मशाला के पीछे शिव मंदिर पुलिया तक पुलिया से नाले किनारे मिराश्री गली पुलिया तक पुलिया से रमेश कुमरावत की दुकान के सामने रमेश रावल की दुकान लेते हुए नया बाजार विडियो चौक कुर्बान हसैन की दुकान तक एवं बालकृष्ण भावे के मकान से शाबीर भाई के मकान अ. रज्जाक का मकान खटखटपुरा ताराचंद के मकान गवली मोहल्ला राधेश्याम के मकान से तेजाजी मंदिर मार्ग मुकेश के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 12— तिलक वार्ड

**उत्तर**—सुभाष कुमरावत नया बाजार से मिरासी गली में होते हुए ए.बी. रोड पर जाहिद खॉ के मकान तक.

**दक्षिण**—ए.बी. रोड, पीठा रोड चौराहे से मस्जिद चौक छुट्टन खॉ के भवन तक.

**पूर्व**—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ए.बी. रोड, शाबीर भाई व जाहिद खॉ के भवन से पीठा रोड चौराहे पर रामप्रसाद अग्रवाल की दुकान तक.

**पश्चिम**—सुभाष कुमरावत की दुकान से अशोक जैन की लाईन लेते हुए, मस्जिद चौक में छुट्टन खॉ के भवन तक.

**विवरण**—सुभाष कुमरावत की दुकान से छुट्टन खॉ के भवन से पीठा रोड होते हुए अग्रवाल की दुकान से ए.बी. रोड पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होते हुए मिराश्री गली में शाबीर भाई का मकान एवं महेश लावरे के मकान सिताबसिंह के मकान से स्वास्थ्य केन्द्र तक.

#### वार्ड क्रमांक 13— शिव मंदिर वार्ड

**उत्तर**—बजरंग मोहल्ला मार्ग पटेल साहब के भवन से पुलिया तक.

**दक्षिण**—ए.बी. रोड से दौलतसिंह के भवन से मिराश्री गली नुरानी मजिस्द के पीछे वाली लाईन के भवन बैण्ड वाले की पुलिया तक.

**पूर्व**—ए.बी. रोड पटेल साहब के भवन से स्वास्थ्य केन्द्र के बाजू में दौलतसिंह के मकान तक.

**पश्चिम**—पुराने पशु हाट की पुलिया से खाड़ी नाले के पास शिव मंदिर पुलिया को क्रास करते हुए बैण्ड वाले की पुलिया तक.

**विवरण**—दौलतसिंह के मकान से ए.बी. रोड होते हुए पटले साहब के भवन तक एवं पश्चिम में खाड़ी नाले तक एवं खाड़ी नाले से हरिनारायण भावसार के भवन को लेते हुए मिराश्री गली में बैण्ड वाले के सामने तक पुलिया से मिराश्री गली के भवन लेते हुए नुरानी मस्जिद तक. शिव मंदिर मार्ग गली नम्बर 1, 2, 3 एवं 4 मिराश्री गली नायक सेरी ए.बी. रोड के समस्त आवासीय भवन.

#### वार्ड क्रमांक—14 लक्ष्मीबाई वार्ड

**उत्तर**—तराना रोड पुलिया से भैरूसिंह के भवन तक.

**दक्षिण**—श्मशान घाट स्थित पूर्व पार्श्व मिश्रीलाल लोधी की आरामशीन एवं रमेशचन्द्र दुबे के मकान तक एवं नवीन स्वास्थ्य केन्द्र मक्सी.

**पूर्व**—ए.बी. रोड थाना.

**पश्चिम**—लुनियाखेड़ी की सीमा को क्रास करते हुए तराना रोड की कृषि भूमि तक.

**विवरण**—श्मशान घाट स्थित पूर्व पार्श्व मिश्रीलाल लोधी की आरामशीन एवं रमेशचन्द्र दुबे के मकान से ए.बी. रोड होते हुए

प्राथमिक विद्यालय गड़रौली में जाने वाले रास्ते को दक्षिण दिशा में लेते हुए, दोलाजी सुभान खों एवं सुन्दरलाल पटेल के मकान लेते हुए दरवाजे से निकलते हुए रणछोड़ पाटीदार के मकान की लाईन लेते हुए लुनियाखेड़ी व गड़रौली की कृषि भूमि लेते हुए समस्त आवासीय भवन.

#### वार्ड क्रमांक 15—भगतसिंह वार्ड

**उत्तर**—तराना मार्ग एवं कनासिया नाका.

**दक्षिण**—वार्ड नं. 1 व 14 की सीमा.

**पूर्व**—तहसील कार्यालय के पीछे मोहन उस्ताज के मकान से कनासिया नाका आरामशीन तक.

**पश्चिम**—गड़रौली लुनियाखेड़ रोड कृषि भूमि.

**विवरण**—नये थाने से प्रारम्भ होकर ए.बी. रोड कनासिया नाका एवं तराना रोड पर वेयर हाउस पुलिया से लुनियाखेड़ी गड़रौली की सीमा किनारे भेरूलाल पाटीदार के घर के सामने निकलकर दरवाजे के अंदर मणीशंकर के भवन को लेते हुए फर्शी वाली गली से स्कूल की ओर जाते हुए उस्मान व मुनीर खों के मकान को सम्मिलित करते हुए उत्तर दिशा के ओर थाने तक एवं पूर्व दिशा उज्जैन व शाजापुर के चिन्हित चिन्ह से ए.बी. रोड पर आरामशीन से तहसील कार्यालय तक.

प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर.

Shajapur, the 31st January 2014

#### Ward No.1— Sanjay Gandhi Ward

**North**—From Near Tehsil office to Chandar Singh Gurjar House and ahead Bridge to Sundar Lal Patel Field.

**South**—From Khaju Kha's House to Kailash Chandra Mistri's House

**East**— From Bottom of hill to House of Kailash.

**West**— A.B. Road.

**Description**—From Chandra Singh Gurjar Kakaji's House to A.B. Road, Khaju Khan's House & Whole Talai Mohalla up to Kailash's House.

#### Ward No.2—Shashtri Ward

**North**—Street No. 2 From Dr. Rajesh's House to BSNL Tower.

**South**—From Majid Khan's House to Kishnalal's House, Street No. 8.

**East**— From Land of Village Kapaliya to Jharneshwar Road.

**West**— From Dr. Rajesh's House to Street No. 8th Majid Khan's House.

**Description**—Start From Dr. Rajesh House, toward corner of A.B. Road, include Gaffar Khan & Majid Khans House to Kishnalal's House & From Land of Village Kapaliya to Jharneshwar Road, New Colony Street No. 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8.

#### Ward No.—3 Maharana Pratap Ward

**North**—From House of Sidhu Singh to Vikram Pandajis House, Street No. 8.

**South**—From The corner of Sindhiya Market include, include Mahupura to Agricultural Land of Vill. Siroliya.

**East**— From Agricultural Land of Siroliya to Agricultural Land of Mahuwapura.

**West**— Start From the house of Sidhi Singh include A.B. Road Bridge, corner of Sindhiya Market.

**Description**—Start From the house of Sidhi Singh include A.B. Road Bridge, corner of Sindhiya Market, in East Ukala Road up to Siroliya Agricultural Land, From Harishankar's Land up to Jharneshwar Road, in New Colony from Chen Singh house to Street No. 8 Vikram Pandajis House, New Colony Street No. 8, 9, 10, 11, 12 & including Lodhi Mohalla.

#### Ward No. 4— Subhash Ward

**North**—From the house Keshar Singh Lodhi to the Road of Mahuvapura.

**South**—From the house of Sitab Singh Patel including Station Road corner & Ummed Singh Lodhi house up to Agricultural Land.

**East**— From Agricultral Land near Ummed Singh's House, in front of Mahuvapura Nala up to Maksi/ Siroliya Agricultural Land.

**West**— Start From Keshar Singh Lodhi's House including boundary of A.B. Road up to Setab Singh House on Sqair.

**Description**—Start From Keshar Singh Lodhi's House including boundary of A.B. Road up to Setab Singh House on Sqair. Start From Ummed Singh's House up to Mahuvapura Nala, All House. Whole area of A.B. Road, Bus Stand, H. S. Road, Jagganathpuri & Station Road.

**Ward No. 5— Indira Gandhi Ward**

**North**—From Maksi-Jhonkar Boundary to A.B. Road Hanuman Mandir.

**South**—From the house of Ummed Singh opposite Railway Station to Plot of Shiv Seth on Jhonkar Road.

**East**— Start From Omprakash Shrivastav's Agricultural Land behind Hammalpara up to Maksi-Jhonkar Boundary.

**West**— Start From the Plot of Shiv Seth on Jhonkar Road, whole Indira Colony, Station Road up to Sandeep Guptas House.

**Description**—Start From the Plot of Shiv Seth including Shop of Hing Wala in Indira Colony Near Handpump, half side of Asharam Colony & Whole Indira Colony up to Sandip Gupta's House on Station Road & Industrial Area, TRD Colony, Hammal Pura, Agricultural Land of Omprakash Shrivastav.

**Ward No.—6 Dr. Rajendra Prashad Ward**

**North**—House of Laxminarayan Patel

**South**—Panchmukhu Hanuman Tempal

**East**— House of Lakhan Lal at Asharam Colony

**West**— Including Bawadi Mohalla up to Girls Primary School & also up to Ujjain Road half Bridg.

**Description**—Starting From the Agricultural Land of Vill. Jalalpura, Side of A.B. Road, Railway Line, Both side of Asharam Colony up to House of Laxminarayan Patel, A. B. Road Rest House to whole Bawadi Mohalla, up to Girls Primary School & Start behind School, under the bridge cross the Ujjain Road up to Patidar Dharmashala and agin on up to A. B. Road.

**Ward No.—7 Parshva Nath Ward**

**North**—Jain Tempal, Luniyakhedi Road.

**South**—Jalalpura Agricultrual Land

**East**— From Rameshwar Khatis house to Jain Mandir.

**West**— Kala Bhata Ujjain Road to Luniyakhedi Road.

**Description**—From Murlidhar Hospital to Ujjain Road up to Ambika Ware House & from Narmada Khati's House Talab Ki Pal up to Jain Mandir & Whole house of Kalabhata.

**Ward No. 8— Ambedkar Ward**

**North**—From Samudayik Bhawan to Pradeeps House & Khushilal House.

**South**—From Luniyakhedi Road, Vetnary Hospital Gurjar Seri up to Takiya Squir.

**East**— Bhawsar Mohalla.

**West**— Luniya Khedi Road, Baba Ki Dargah.

**Description**—From Luniyakhedi Road, Dargah, Vetnary Hospital up to Samudayik Bhavan & up to A. B. Road Khushilal's House including all house's of Gurjar Seri, Harijan Mohalla & Bajarang Mohalla.

**Ward No.—9 Khedapati Hanuman Ward**

**North**—From House of Ambaram Gurjar to Harishankar Patel's House.

**South**—From Yusuf Khan's House at Takiya Squir up to Kailash Khati's House.

**East**— From Harishankar Patel House to Kailash Khati's House.

**West**— From Yusuf Khan's House at Takiya to Ambaram Gurjar's House Near Hanuman Tempal.

**Description**—From Yusuf Khan's House to Kailash Khatis House, Mangilal Driver, Harishankar Patel's House, Hanuman Tempal house of Ambaram Gurjar up to Yusuf Khan's House, All House of Gurjar Seri, Lal Mata Area, Pinjara Seri, Takiya, Brahmin Seri, Upari Seri, Bundela Gali, Bajarang Mohalla.

**Ward No.10— Jawahar Ward**

**North**—From Kachari Chouk Ranchod Maharaj's House to Purushottam Bhawsar house at Bhawsar Mohalla.

**South**—From the house of Mo. Gud wala including Jain Bhojanshala up to Anjanilal Tempal.

**East**— Start From Anjanilal Mandir, include Juna Bajar up to Ranchod Maharaj Tempal.

**West**— From the house of Purushottam up to Mohammad Gud Wala's House in Pinjara Seri.

**Description**—Start From the Mohammd Gud Wala's house include Bhojanshala Side up to Anjanilal Mandir, Ranchor Maharaj Tempal in Juna Bajar & Purushottam

Bhawasar House, Pinjara Seri and agian Moh. Gud Wala's House. All house of Lohar Seri, Darji Seri, Pinjara Seri, Khati Seri, Juna Bajar.

#### Ward No 11—Mahatma Gandhi Ward

**North**— Tejjaji Mandir Mart, Old Pashu Bajar

**South**—Vidio Chouk

**East**—From Shiv Mandir bridg to Mirashri Street bridith.

**West**— Juna Bazar.

**Description**—From Ranchod Lal Maharaj house Juna Bajar, behind Dharmshala, Shiv Mandir Bridg, Mirashree Street bridge, from bridge to Shop of Ramesh Kumrawat including Ramesh Rawal's Shop Naya Bazar, Vidio Chok, Kurban Hussain's Shop & From Balkrishna Bhaves house, Shabir Bhai's House, A Rajjak's House, Khat Khatpura, Tarachand House, Gavali Mohalla, House of Radheshyam up to Tejjaji Mndir Road Mukesh's House.

#### Ward No 12—Tilak Ward

**North**— Starting From Naya Bazar Subhash Kumrawat up to Jahid khans house on AB Road.

**South**—From AB Road, Pitha Road Squir to Masjid Chouk up to Chuttan Khan's House.

**East**— From PHC AB Road, Shabir Bhai & Jahid Bhai house up to Shop of Ramprashad Agrawal on Pitha Road.

**West**—from Subhas Kumrawat Shop include side of Ashok jain up to Chuttan Khan's House at Masjid Chok.

**Description**—From Shop of Shubhash Kurmawat, Pitha Road Chuttan Khans House turn from Agrawals Shop up to PHC on AB Road & in Mirashri Gali house of Shabir Bhai & Mahesh Laware, From Sitab Singh's House up to PHC.

#### Ward No 13—Shiv Mandir Ward

**North**—Bajrang Mohalla Road from Patel's House to Bridge.

**South**—From Dolat Singh house on AB Road to Mirashri gali, house of bake side of Nurani Masjid up to bridge near Band Wala's Bhawan.

**East**—From Palte's House on AB Road side of PHC up to house of Dolat Singh.

**West**— From the bridge of old pashu hat, to near Khadi Nala, Cross Shiv Mandir Bridge up to bridge near Band Wala's house.

**Description**— Start form Dolat Singh house on A B Road to Paltel's house & in western are up to Khadi Nala. From Khadi Nala to Harinarayan Bhawsar house' up to Mirashree gali's bridge near Band Wala's house up to Nurani Masjid. including Shiv Mandir Marg Street No. 01,02,03 & 04, all house of Mirashree Gali, Nayak Seri, AB Road.

#### Ward No 14— Laxmi Bai Ward

**North**—from the bridge of Tarana Road up to Bheru Singh's House.

**South**— from Mishree Lal Lodhi's Ara Mashine near Shamshan Ghat to Rameshchandra Dubey's house up to New PHC.

**East**—AB Road Police Station.

**West**—Boundry of Vill. Luniyakhedi up to Tarna Road.

**Description**— Starting From Mishrilal Lodhi's Ara Machine Near Shamshan Ghat, Ramesh Chandra Dubey's House, AB.Road, Suterne side of Primary School, Gadroli's Road, Dolaji, Shuban & Sundar lal Patel house up to Ranchode Patidar's House. including luniyakhedi & Gadroli Agricultrual land and all house.

#### Ward No 15—Bhagat Singh Ward

**North**— Tarana Road & Kanasiya Naka

**South**— boundry of Ward No. 01 & 14

**East**—behidn Tahsil office from Mohana Ustad house to Kanasiya Naka arae machine.

**West**—Gadroli Luniykehdi Road Agricultrual land.

**Description**—Starting From New Police Station, A.S.Road, Kanasiya Naka, Tarana Road, bridge near Warehouse. including boundary of Luniyakhedi and Gadroli. Form the Bherulal patidar house to in the door Manishankar house in Chouk, including Farshi Wali Gali, Usman & Munir Khan's House northan side up to Police Station in western side Ujjian & Shajapur makred marks to A.B. Road Ara Mashine up to Tehsil office.

PRAMOD GUPTA, Collector,

शाजापुर, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. 50-जशविअभि-न.पा.-परिसीमन-प्रकाशन-2014.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नगर परिषद् पोलायकलॉ, जिला शाजापुर की वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर वार्डों की संख्या तथा उनकी परिसीमाओं की अवधारणा नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करती है:—

### अनुसूची

- वार्ड क्रमांक 1— जवाहर वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 2— सुभाष वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 3— महात्मा गांधी वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 4— शिवाजी वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 5— आजाद वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 6— सरदार पटेल वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 7— भगत सिंह वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 8— अम्बेडकर वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 9— श्रीराम वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 10— डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 11— महादेव वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 12— इंदिरा गांधी वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 13— बजरंग वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 14— तिलक वार्ड  
 वार्ड क्रमांक 15— महाराणा प्रताप वार्ड

### वार्ड क्रमांक 1— जवाहर वार्ड

- उत्तर— गोशाला भवन  
 पूर्व— हंसराज की दुकान  
 दक्षिण— वार्ड नं. 2 की सीमा  
 पश्चिम— देवकरण सायरी का मकान

विवरण—गोशाला से रोड साईड होकर हंसराज की दुकान व हसन खां के मकान तक सोकत खां के मकान से भोपाल भूत का मकान व अकोदिया रोड व खडी रोड के मध्य का क्षेत्र, देवकरण सायरी से प्रा. शा. हनुमान मंदिर तक खडी रोड से उत्तर दिशा की सम्पूर्ण सीमा.

### वार्ड क्रमांक 2—सुभाष वार्ड

- उत्तर— श्रीराम हेमराज के मकान.  
 पूर्व— वार्ड नं. 3 की सीमा  
 दक्षिण— जगन्नाथ पटेल का मकान.  
 पश्चिम— हेमराज सरपंच का मकान.

विवरण—खडी रोड पर हेमराज सरपंच के मकान से लगायत MPEB ग्रीड एवं कॉलेज होते हुए जयराम, जगन्नाथ पटेल के मकान खाताखेडी रोड तक का खडी रोड के दक्षिण का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं अकोदिया रोड पर श्रीराम हेमराज के मकान से सुदर्शन गैस एजेन्सी होते हुए बालक मिडिल स्कूल की सीमा तक का रोड के उत्तर दिशा का सम्पूर्ण क्षेत्र.

### वार्ड क्रमांक 3—महात्मा गांधी वार्ड

- उत्तर— देवकरण ब्रह्माजी का मकान.  
 पूर्व— बाबा का मठ एवं विधायक जी का मकान  
 दक्षिण— इसुफ खां का मकान  
 पश्चिम— मांगीलाल बाबूजी का मकान

विवरण—मांगीलाल बाबूजी के मकान से पुरानी पानी की टंकी होते हुए अस्पताल क्षेत्र बस स्टेण्ड होते हुए बालक एवं कन्या प्राथमिक शाला के पीछे का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं देवकरण ब्रह्माजी के मकान से प्रेम कामलिया होते हुए नई पानी टंकी के आसपास भगवानपुरा, मेहतरपुरा, कुम्हारपुरा होते हुए यूसुफ खां के मकान से हजारी ढबोटिया के मकान से गिरिराज मण्डलोई के मकान तक एवं बाबा के मठ का सम्पूर्ण क्षेत्र.

### वार्ड क्रमांक 4— शिवाजी वार्ड

- उत्तर— दरियावसिंह भारता एवं पूना भगत का मकान  
 पूर्व— हनुमान मंदिर सदर बाजार.  
 दक्षिण— लोकेश दीक्षित की दुकान.  
 पश्चिम— प्रहलादसिंह मण्डलोई का मकान.

विवरण—शिवनारायण नेरावाले की दुकान से दरियावसिंह भारता का मकान होते हुए धरम ढबोटिया के मकान से वृन्दावन गली होते हुए पूना भगत के मकान से कामलिया बाखल होते हुए हनुमान मंदिर सदर बाजार से छप्पन बड़ व श्रीनाथ जी मंदिर होते हुए प्रहलादसिंह मण्डलोई के मकान से लखन भागीरथ रेवारता की दुकान तक.



**वार्ड क्रमांक 5— आजाद वार्ड**

उत्तर— वार्ड नं. 6 की सीमा

पूर्व— राजाराम पटेल का मकान

दक्षिण— गोपाल माहेश्वरी का मकान

पश्चिम— भागीरथ रेवारता का मकान

**विवरण**— बिहारी कन्डक्टर के मकान से मुरारी ढबोटिया के मकान होते हुए राजमोहम्मद व लखेरा ग्वाडावाली बाखल होते हुए नीम चौक व देवीलाल कारीगर के मकान से बद्रीप्रसाद के मकान तक व शंकर हजारी के मकान से गजराज मास्टर के मकान तक व राजाराम पटेल के मकान से सदर बाजार होते हुए गोपाल माहेश्वरी के मकान तक एवं प्रेम पट्टी के मकान से रमेश भगत का मकान व करण वकील का मकान व संतोष धूलजी के मकान से भागीरथ रेवारता के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 6— सरदार पटेल वार्ड**

उत्तर— खाटसुर रोड

पूर्व— बोंदीलाल रावडिया का मकान

दक्षिण— मुकाती बाखल

पश्चिम— वार्ड नं. 5 की सीमा

**विवरण**— नरबत टेकरा वाले के मकान व अफिनिया बाखल होते हुए नीम चौक पटेल बाखल से मुकाती बाखल व जामुन वाली बाखल व चिन्तामना बाखल से लखनलाल चन्द्रवंशी अध्यक्ष तक तथा पुनमचन्द्र ग्वाडा वाले से गजराज मास्टर की दुकान होते हुए बोंदीलाल रावडिया व चौधरी बाखल व मगरदिया बाखल से संतोष फोजी ग्वाडा वाले के मकान छोटा गोहा पानी की टंकी तक एवं खाटसुर रोड के दोनों साईट नवीन मकान सन्ना तक.

**वार्ड क्रमांक 7— भगतसिंह वार्ड**

उत्तर— रामकरण गोरालोग का मकान

पूर्व— माली मंदिर

दक्षिण— भंवरलाल पटेल का मकान

पश्चिम— पिपलवाली बाखल

**विवरण**— छोटा गोहा रामकरण गोरालोग के मकान से नर्मदाप्रसाद तिवारी बाखल होते हुए, सेवाराम पंचभैया बाखल नर्मदाप्रसाद पटेल के मकान से अम्बेमात चौक पर भंवरलाल पटेल का मकान व परसराम, रामचरण बाखल होते हुए सुखराम तैली के मकान से छिता बागवान के मकान तक व माली मंदिर से बिल्ली वाले देवमहाराज

के आसपास का क्षेत्र व कान्हा हजारी के मकान से हरिजन खेड़ा तक व दरियावसिंह ढोला के मकान से पिपलवाली बाखल होते हुए, सीताराम, जयराम गोरालोग के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 8— डॉ. अम्बेडकर वार्ड**

उत्तर— मालीपुरा माता मंदिर

पूर्व— चमारपुरा

दक्षिण— वार्ड नं. 9 की सीमा

पश्चिम— मनोज विजयवर्गीय का मकान

**विवरण**— अमरसिंह बागवान व गोरू पडियार के मकान से पानी की टंकी से केशरसिंह सिलावट के मकान व चमारपुरा से हरिजन पुलिया होते हुए बाला चौकीदार व हरिजन मंदिर से कुंवरजी टेकरावाले व मनोज विजयवर्गीय के मकान से अंसारी चक्की मस्जिद रास्ता से केशरसिंह भड़ भूजिया के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 9— श्रीराम वार्ड**

उत्तर— भऊ टेकरावाले का मकान

पूर्व— मुगलीखेडा

दक्षिण— शिव चौकीदार का मकान

पश्चिम— काना कुम्हार का मकान

**विवरण**— मुगलीखेड़ा हरिजन पुलिया व अम्बेमात चौक से राजलबाई पार्षद के मकान होते हुए भऊ टेकरावाले के मकान तक तथा मांगीलाल मुन्नालाल मास्टर के मकान से शिवनारायण जोशी व रमेशनाथ, तेलीपुरा से काना कुम्हार के मकान तक एवं हाटा पटेल बाग व भंवरजी डाबरिया व शिवचरण मंसूरसिंह के मकान तक व बिनाया रोड पर अम्बाराम पटेल के मकान से शिव चौकीदार के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 10— डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड**

उत्तर— श्रीराम मंदिर चौक

पूर्व— टेकरा क्षेत्र

दक्षिण— लीलाधर पार्षद का मकान

पश्चिम— वार्ड नं. 11 की सीमा

**विवरण**— श्रीराम मंदिर चौक से टेकरा होते हुए देवकरण मुखर्जी के मकान से लुकमान तेली व कुम्हार पुरा से लीलाधर पार्षद के मकान से व त्रिपोलिया से रामचन्द्र सोनी के मकान से सदर बाजार होते हुए मकुन्दराम घासीराम चिरावाले के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 11— महादेव वार्ड**

उत्तर— ओम सोनी का मकान

पूर्व— रमेश टेलर का मकान

दक्षिण—करण वकील का मकान तकिया क्षेत्र

पश्चिम—वार्ड नं. 10 की सीमा

**विवरण**—शिवालय रोड करण वकील के मकान से त्रिपोलिया होते हुए ओम सोनी के मकान तक सदर बाजार होते हुए रमेश टेलर रम्भा बुआ के मकान तक व रामसिंह छनग्या के मकान से घनश्याम चौधरी के मकान होते हुए नारायण सेठ के मकान तक व विष्णु चौधरी के मकान से गजाधर मास्टर के मकान होते हुए सोहन देवादुर्गा के मकान होते हुए खुबचन्द के मकान तकिया क्षेत्र तक.

**वार्ड क्रमांक 12— इन्दिरा गांधी वार्ड**

उत्तर— प्रेमसिंह झाड़ का मकान

पूर्व— वार्ड नं. 11 की सीमा

दक्षिण—पगरावद देवझीरी रोड

पश्चिम—मोतीलाल ओढीवाले का मकान

**विवरण**—प्रेमसिंह झाड़ के मकान से धारकर के मकान होते हुए, गुलाबदास मंदिर मीरामाई का बाग तथा पगरावद रोड पर पंचभैया कालोनी व कालुचिमन कालोनी एवं देवझीरी रोड से घासीराम पटेल के मकान नाके से मोतीलाल ओढीवाले के मकान तक शिशु मंदिर के सामने तक तथा कब्रिस्तान क्षेत्र हनुमान मंदिर खेडाचौक टावर कालोनी होते हुए माखनसिंह नाना नृसिंह के मकान तक.

**वार्ड क्रमांक 13— बजरंग वार्ड**

उत्तर— माखन सरपंच का मकान

पूर्व— सोमनाथ सेन का मकान

दक्षिण—सीताराम मरेठिया का मकान

पश्चिम—वार्ड नं. 14 की सीमा

**विवरण**—कलाली रोड सोमनाथ सेन के मकान से बन्नीलाल भगवतसिंह व मढी चौक मंदिर के पास का सम्पूर्ण खेड़ा क्षेत्र से माखन सरपंच के मकान में चक्की होते हुए पवन दरबार के मकान होते हुए पगरावद रोड पर सीताराम मरेठिया के मकान नाके तक.

**वार्ड क्रमांक 14— तिलक वार्ड**

उत्तर— श्रीराम मांगलिक भवन

पूर्व— वार्ड नं. 13 की सीमा

दक्षिण—शिशु मंदिर क्षेत्र

पश्चिम—वार्ड नं. 15 की सीमा

**विवरण**—सरस्वती शिशु मंदिर से पगरावद नाका होते हुए सोसायटी भवन से श्रीराम मांगलिक भवन के पीछे का सम्पूर्ण क्षेत्र. नगर परिषद् कार्यालय से गणेश मंदिर होते हुए रूपेश मांगीलाल पड़ियार के मकान से चौधरी बाखल, गौरीशंकर पार्षद का मकान व नाथु खुशीलाल बाखल व हरलाल शिवनारायण के मकान से राधेश्याम देवबक्ष व बाबूलाल चौधरी के मकान तक. भेरूलाल हरिजन एवं बाबूलाल, रमेश सिद्धनाथ के मकान से कोदू चमार के मकान होते हुए प्रेमसिंह चमार का मकान व अजूपाल महाराज तक.

**वार्ड क्रमांक 15— महाराणा प्रताप वार्ड**

उत्तर— जगन्नाथ लखन पटेल की बाखल

पूर्व— चिलमची रोड

दक्षिण—पुरानी प्राथमिक शाला

पश्चिम—प्रेमनगर बर्डी नई आबादी

**विवरण**—हनुमान मंदिर से राधेश्याम राणा गली होते हुए मण्डलोई बाखल का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं भेरू मंदिर से जगन्नाथ मेम्बर के मकान तक एवं बाबूलाल गोपीलाल पटेल के मकान से चिलमची रोड होते हुए हरलाल रामचरण के मकान तक तथा पुरानी प्राथमिक शाला से चैनसिंह बापू के मकान होते हुए हरिनारायण बाबूलाल पटेल बाखल होते हुए शंकर हजारी के मकान तक, माध्यमिक शाला के पीछे की सम्पूर्ण नवीन प्रेमनगर कालोनी बर्डी क्षेत्र. प्राथमिक शाला से नई आबादी में जगन्नाथ लखन पटेल के आसपास का क्षेत्र श्मशान.

प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर.

Shajapur, the 31st January 2014

**Ward No. 1—Jawahar Ward****North**—Cow shade House**East**—The shop of Hansraj**South**—Boundry of ward No. 02**West**—Devkaran Saree house

From cowshade to road side and the shop of Hansraj and Hasan Khans house and from Shokat Khans house to house of Bhopal Bhoot and Akodia road and the area between Khadi road and its middle area and from Devkaran saree to govt. Primary School Hanuman temple and from Khadi road to North direction the total boundary.

**Ward No.2—Subhash Ward****North**—Shri Ram Hemraj house**East**—Boundary of Ward No. 03**South**—Jaganah Patels house**West**—Hemraj Sarpanch house

This ward starts from the house of Hemraj Sarpanch on Khadi road to the MPEB grid and from College area to the house of Jayram Patel to Khata Khedi road and south of Khedi road South Total area an on Akodiya road and from Hemraj house to the gas agency to Mr. Sudarshan and from boys Middle School Boundary to the north total area till the road.

**Ward No.3— Mahatma Gandhi Ward****North**—The house of Devkaran Brahmaji**East**—M.L.A. house and Baba Math**South**—The house of Usuf Khan**West**—The house of Mangilal Babuji

This ward starts from the house of Mangilal Babuji to the old water tank crossing hospital area bus stand Crossing to behind boy's and girl's Primary School total area and from Devkaran Brahamaji house to Prem Kamliya Crossing it the new water tank boundries area Bhagwanpura, Mehtarpur, Kumharpura and from the house of Usuf khan and from Hajari Dhabotiya's house to Giriraj Mandloi house and the Total area of Baba Math.

**Ward No.4—Shivaji Ward****North**— Dariyav Singh Bharti and Puna Bhagat's house**East**—Hanuman Temple Sadar Bazar**South**—Lokesh Dixit shop**West**—Pralhad Singh Mandloi house

This Ward starts from the house of Shiv Narayan Nerawale crossing Dariyav Singh Bharti house and from Dharam Dhabotiya house crossing Vrandravan street and from Poona Bhagat house to Kamliya Bakhhal crossing Hanuman temple and from Sadar market to 56 badh and crossing Shrinath temple and from the house of Prahalad Singh Mandloi's house to Lakhn Bhagirath Rewarata shop.

**Ward No.5— Azad Ward****North**—Boundary of Word no 06**East**—House of the Rajaram Patel**South**—Gopal Maheshwari's House**West**—Bhagirath Revarat House

The area which is included in Ward No.05 Bihari Conductor's house to the Murari Dhabotiya house Crossing Raj Mohammad and Lakhera Gwada Wali Bakhhal crossing Neem Chouk and from Devilal Karigar house to Badriprasad's, house and from Shankar Hajari house to Gajraj Master house and from Rajaram Patel house Crossing Sadar Market to Gopal Maheshwari house and from Prem Patti's house to Ramesh Bhagat house and Karan Advocate house and from Santosh Dhulji's Bhagirath revarta's house.

**Ward No.6— Sardar Patel Ward****North**— Khatsoor Road**East**—House of the Bondilal Rawdiya**South**—Mukati Bakhhal**West**—Boundry of Ward no 05

The area covered in this ward starts from the house of Narbat Tekara Wale and Crossing Afinia Bakhhal, and Jamun Wali Street Bakhhal and Chintaman Bakhhal to Lakhn Lal Chandrawanshi Chairman and Punam Chand Gwada to the Shop of Gajraj Master crossing Bondilal Rawdiya and Choudhri Bakhhal and from Magradiya Bakhhal to Santosh Army Wala House to Chhota Goha to Water tank and to the Khatsoor road Both Side New house Sanna.

**Ward No.7 —Bhagat singh Ward****North**—Ramkaran Goralog house**East**—Mali Temple**South**—Bhanwarlal patel house**West**—Pipal wali Bakhhal.

The area covered in this ward starts from the Chhota Goha Ramkaran Goralog house to Narbada Prasad Bakhhal Crossing Sevaram panch Brother Bakhhal Narbada Prasad Patel house to Ambe Mata Chouk the house of Bhanwarlal Patel and Crossing Parasram Ramcharan Bakhhal Crossing and from Sukhram Teli house to Chhita Bagwan house and from Mali Temple to Billi Wale. Dev Maharaj near by area and Kanhahajari house to Harijan Kheda and from Dariyav Singh Dhola's house to Pipal Wali Bakhhal Crossing to the house of Sitaram Jayram Goralog.

**Ward No. 8— Dr. Bhim Rao Ambedkar Ward****North**—Malipura Mata mandir**East**—Chamarpura**South**—Boundry of word no 09**West**—The house of Manoj Vijayvargiya

The area covered in this ward starts from the house of Amar singh Bagwan and Goru Padiyar house to water tank and from hear to Keshar Singh Silawat house and Chamarpura to Harijan Puliya Crossing Bala Chokidar

and from Harijan Mandir to Kunwar ji Tekra Wale and from Manoj Vijayvargiya house to ansari Chakki Mosque and from hear to Keshar Singh Bhadbhunja house.

#### Ward No.9— Shri Ram Ward

**North**—Bhou Tekara Wal's house

**East**—Mugalikheda

**South**—Shiv Choukidar's house

**West**—Kana Kumhar's house

The area covered in this ward From Mugli Kheda Harjian pulia and Ambe Mata's Chouk to Rajal Bai Prashad house crossing Bhau Tekara wale house and from Mangilal Munnalal Master's House to Shiv Narayan Joshi Ramenath Telipura and from hear to Kanha Kumhar house and hata Patel Bag and Bhanwarji Dabriya and to Shivcharan Mansur Singh house and Binaya road and from Amaram patel's house to shiv Chokidar's house.

#### Ward No. 10— Dr Rajendra Ward

**North**—Shree Ram Mandir Chouk .

**East**—Tekara area

**South**—Leeladhar's Prashad house.

**West**—Boundry of the Ward No 11

The area covered in this Ward starts from Shree Ram Mandir Chouk crossing Tekara and from Devkaran Mukharji house to Lukhman Teli and Kumharpura and from the house of Leeladhar Prashad House and from Tripolia to Ramchandra Soni house and from Soni's house crossing Sadar market to Makundram Ghansiram Chirawale's house.

#### Ward No. 11— Mahadev Ward

**North**—Om Soni house

**East**— Ramesh Tailor house

**South**—Karan Vakil house Takiya area

**West**—Boundary of Ward No. 10

The area covered in this ward starts from the temple of Shivaliya road The house of Advocat Karan Singh the house of way of Tripoliya. The house of Om Soni at the Way of Sadar market and Ramesh tailor and Rambha Bhua and From Ramsingh Changy's House to Ghanshyam Choudhari house at the house of Narayan Seth and Vishunu Choudhari and Gajadhar Master and Sohan Devadurga Street the Way of Khub chand house Takiya area.

#### Ward No. 12— Indira Gandhi Ward

**North**—Prem Singh Jhad ka Makan

**East**—Boundry of Ward No. 11

**South**—Pagrawad dev jhiri road

**West**—Motilal Odhee wale's house

The area covered in this ward starts from the house of

Prem Singh Jhad crossing the house of Dharkar and the Garden of Gulabdas Mandi meera mai's bag and on the Pagrawad road Panch Bhaiya Colony and Kaluchiman Colony and from Devjheri road and Ghansiram Patel's house and from Naka Motilal Odheewala house to Shishu Mandir from area and Graveyard area, Hanuman temple crossing Kheda Chouk Tower Colony to Makhan Singh Nana Narsingh house.

#### Ward No. 13— Bajrang Ward

**North**—The house if Makhan Sarpanch

**East**— The house of Somnath Sen

**South**—The house of Sitaram Marethiya

**West**—Boundry of the Ward No. 14

The area covered in this ward starts from Kalali road Somnath sen's house, to the house of Badrilal Bhanwar Singh and the complete Madi Chouk Mandir and Kheda area and grom Makhan Sarpanch house crossing flour mill and crossing Pavan Darbar's house to Pagrawad road and to Sitaram Marethia Naka.

#### Ward No. 14— Tilak Ward

**North**—Shri ram Manglik House

**East**—Boundry of Ward No. 13

**South**—Shishu Mandir area

**West**—Word No 15 boundry

The area covered in this ward starts from Sarswati Shishu mandir crossing Pagrawad naka and so city house and the complete area of Shri Ram Manglik house and behind and from city council office crossing Ganesh Mandir and from Rupesh Mangi Lal Padiyar house to Choudhri Bakhhal Gourishankar Parshad house and Nathu Khushulala Bakhhal and Grom Harlal Shivnarayan house to Radheshyam Devaksh and Baulal Choudhary house and Grom Bherulal Harijan and Babulal, Ramesh Siddnath house crossing Kodu Chamar house to Prem Singh Chamar house and to Ajupal Maharaj house.

#### Ward No. 15 —Maharana Pratap Ward

**North**—Jagannath Lakhan patel's Bakhhal

**East**—Chilmachi Road

**South**—Old Primary School Building

**West**—Prem Nagar Burdi New Living area.

The area covered in this ward starts from Hanuman temple crossing Radheshyam Rana street and the Complete area of Mandloi Bakhhal and from Bheru temple and to Jagannath Member house and from Babulal Gopil Patel could house to Chilmili road crossing Harlal Ramcharan house and the old preimary school building and from here crossing Chain Singh Babu house and crossing Harinaryan Bbabulal Patel's bakhhal to Shankar Hajari's house and behind the complete middle school building and Naveen Prem Nagar Colony Buldi area and from Primary School to the new living area and the Cemeteries area funral area of Jagannath Patel.

PRAMOD GUPTA, Collector,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर,  
मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी 2014

क्र. 210-डूडा-2014.—मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक-4-520-अठारह-3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मैं, विवेक पोरवाल, कलेक्टर, जिला जबलपुर, एतद्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगरपालिका परिषद्, पाटन, जिला जबलपुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

“अनुसूची”

वार्डों की सीमा का विवरण

01. सुभाषचन्द्र बोस वार्ड, 02. सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड, 03. महात्मा गांधी वार्ड, 04. डा. भीमराव अम्बेडकर वार्ड, 05. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड, 06. राममनोहर लोहिया वार्ड, 07. रविशंकर शुक्ल वार्ड, 08. पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड, 09. लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, 10. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, 11. महाराणा प्रताप वार्ड, 12. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड, 13. विनोबा भावे वार्ड, 14. शिवाजी वार्ड, 15. रानी दुर्गावती वार्ड.

वार्ड क्रमांक 01—सुभाषचन्द्र बोस वार्ड

उत्तर—साहब सिंह के मकान से गोपाल पटेल के मकान से कतका रोड होते हुए नीमी मार्ग राजस्व (पाटन नगर) सीमा तक का दक्षिण पश्चिम भाग.

पूर्व—पाटन नगर की सीमा से बालक शाला चौधरी मु. से जेकम सिंह के मकान से सुशील भुर्रक के मकान से धनी गोठिया के मकान से साहब सिंह गौड़ के मकान तक.

दक्षिण—मनकेंडी रोड इन्द्र कुमार के खेत से पाटन राजस्व सीमा होते हुए बालक शाला के पीछे राजस्व सीमा तक.

पश्चिम—मनकेंडी रोड इन्द्र कुमार बबेले के खेत से पाटन राजस्व होते हुए अनिल कुमार के खेत तक.

वार्ड क्रमांक 02—सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड

उत्तर—छिद्दी पटेल के मकान के उत्तरी भाग से पाटन नगर की राजस्व सीमा होते हुए नीमी रोड तक.

पूर्व—मुल्लू धोबी के मकान से पखई रोड तक का पश्चिमी भाग.

दक्षिण—नाला से अशोक बबेले के मकान से होते हुए इन्द्र कुमार बबेले के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 03—महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर—विष्णु सेन के मकान से महादेव प्यासी के मकान से होते हुए विजय बबेले के मकान से विश्वनाथ बबेले के मकान से अशोक बबेले के सामने से होते हुए नाला तक.

पूर्व—डब्ल काली के मकान से नाला होते हुए तुलसी काली के मकान तक.

दक्षिण—डब्ल काली के मकान से यादव आइसक्रीस फैक्ट्री होते हुए खेरमाई तक.

पश्चिम—मनकेंडी रोड से विमला बाई के मकान से रूपलाल नंदेसरिया के मकान से मोहन गोठिया के मकान से विष्णु सेन के मकान तक.

वार्ड क्रमांक 04—डा. भीमराव अम्बेडकर वार्ड

उत्तर—बराती चमार के मकान से रम्पू चमार के मकान से बड़ी इमली तक.

पूर्व—नाग तालाब से कुवंर मन मेहतर के मकान से पूरन राठौर के मकान से हरि चमार के मकान से बराती के मकान तक.

दक्षिण—नारायण कुम्हार के मकान से नाग तालाब होते हुए पाटन नगर की राजस्व सीमा होते हुए वार्ड क्र. 3 की सीमा तक.

पश्चिम—बड़ी इमली से वार्ड क्र. 3 की सीमा होते हुए खेरमाई तक.

वार्ड क्रमांक 05—राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

उत्तर—बन्दोबस्त कार्यालय से वार्ड क्र. 3 की सीमा होते हुए डब्ल काली के मकान तक.

पूर्व—नाग तालाब से सरमन राठौर के मकान से नाला होते हुए डब्ल काली के मकान तक.

दक्षिण—सरमन राठौर के मकान से नाग तालाब होते हुए वार्ड क्र. 4 की सीमा तक.

पश्चिम—नाग तालाब के मकान से बृजलाल मकान से तारे चौरसिया के मकान से वार्ड क्र. 4 की सीमा होते हुए पंचन मास्टर के मकान से बन्दोबस्त कार्यालय तक.

वार्ड क्रमांक 06—राममनोहर लोहिया वार्ड

उत्तर—जैन धर्मशाला से सुरेश जैन से अर्पित मेडीकल से बुधू नेमा के मकान से अजय सिंह की आरा मशीन से राजस्व सीमा तक का पश्चिमी भाग.

**पूर्व**—जैन धर्मशाला से सुरेश जैन से अर्पित मेडिकल से बुद्ध नेमा के मकान से अजय सिंह की आरा मशीन से राजस्व सीमा तक का पश्चिमी भाग.

**दक्षिण**—सुरैया रोड पर नगर की राजस्व सीमा होते हुए वार्ड क्र. 4 तक का उत्तरी भाग.

**पश्चिम**—शंकर विश्वकर्मा के मकान से द्वारका सोनी के मकान से नाग तालाब होते हुए पाटन नगर की राजस्व सीमा तक.

#### वार्ड क्रमांक 07—रविशंकर शुक्ल वार्ड

**उत्तर**—पखई रोड के उत्तरी भाग से नगर की सीमा होते हुए शंकर नगर के पास की पुलिया तक का दक्षिणी भाग.

**पूर्व**—गंगा शर्मा के मकान से राजकिशोर व्यास के मकान से लक्ष्मी नारायण मंदिर होते हुए हरवंश तिवारी के मकान से नंदू शर्मा के मकान से सीमेन्ट रोड होते हुए दमोह रोड पुलिया तक पश्चिमी भाग.

**दक्षिण**—गंगा शर्मा के मकान से कपूर चंद जैन के मकान से नाला तक उत्तरी भाग.

**पश्चिम**—कपूरचंद के मकान से नाला होते हुए परवई रोड से होते हुए दमोह रोड से नगर की राजस्व सीमा तक का पूर्वी भाग.

#### वार्ड क्रमांक 08—पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड

**उत्तर**—मोहरम मुसलमान के मकान से रामकुमार राठौर के मकान से गुरुजी के मकान तक का दक्षिणी भाग.

**पूर्व**—भगवानदास वैद्य के मकान से होते हुए रामकुमार राठौर के मकान तक का पश्चिमी भाग.

**दक्षिण**—भगवानदास वैद्य के मकान से रामनेरश त्रिपाठी के घर एवं रतन चंद जैन की दुकान तक.

**पश्चिम**—धरमचंद जैन के मकान से कन्या शाला सुरेन्द्र जैन का मकान से जैन मंदिर से गुरुजी के मकान से होते हुए शेख जमील के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 09—लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

**उत्तर**—शंकर नगर के उत्तरी भाग की नगर की राजस्व सीमा होते हुए मढतालाब का दक्षिणी भाग. (बरगी कॉलोनी).

**पूर्व**—शेख नजीर के मकान से सीमेन्ट रोड होते हुए राजाराम शास्त्री के मकान से रम्मू चौरहा से पीर मोहम्मद के मकान से नगर की उत्तरी सीमा तक का पश्चिमी भाग.

**दक्षिण**—आजाद धावडेकर के मकान से बज्जू चमार के मकान से नारायण तिवारी के मकान तक.

**पश्चिम**—नारायण तिवारी के मकान से मुन्ना शर्मा के मकान से गोठल पटेल के मकान से नगर की राजस्व सीमा तक.

#### वार्ड क्रमांक 10—दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

**उत्तर**—रेस्ट हाउस के पीछे से नगर की राजस्व सीमा होते हुए वार्ड क्र. 9 की सीमा का दक्षिणी भाग.

**पूर्व**—शंकरलाल खरे के मकान से कांजी हाउस होते हुए रेस्ट हाउस तक का दक्षिणी भाग.

**दक्षिण**—निर्मलचंद जैन के मकान से नाला होते हुए नर्मदा चमार के मकान से होते हुए हरगोविंद चौबे के मकान तक.

**पश्चिम**—निर्मलचंद जैन के मकान से नाला होते हुए नर्मदा चमार से शालिग्राम व्यास के मकान से छिदामी गौड़ का उत्तरी सीमा तक का पूर्वी भाग.

#### वार्ड क्रमांक 11—महाराणा प्रताप वार्ड

**उत्तर**—अखाड़ा से डा. गोविंद नेमा के दवाखाना से स्टेट बैंक तक.

**पूर्व**—अखाड़ा से हरप्रसाद गौड़ के मकान से पुलिया से नाला होते हुए ट्रांजिट हॉम की पुलिया ने नगरपालिका पुराना भवन होते हुए हनुमान मंदिर से बहीदन बी के मकान से होते हुए लोटन विश्वकर्मा मकान से पाटन नगर की राजस्व सीमा का पश्चिमी भाग.

**दक्षिण**—नगर की राजस्व सीमा से होते हुए वार्ड क्र. 6 की राजस्व सीमा तक का उत्तरी भाग.

**पश्चिम**—पुरानी स्टेट बैंक से वाचनालय होते हुए मदार छल्ला होते हुए नगर की राजस्व सीमा तक का पूर्वी भाग.

#### वार्ड क्रमांक 12—मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड

**उत्तर**—नत्थीबाई के मकान से जलील के मकान से रफीक मुसलमान के मकान तक का दक्षिणी भाग.

**पूर्व**—रफीक मुसलमान से सोमचंद के गल्ले होते हुए पाटन नगर की राजस्व सीमा तक.

**दक्षिण**—नगर की राजस्व सीमा होते हुए वार्ड क्र. 11 की सीमा तक का पूर्वी भाग.

**पश्चिम**—नत्थीबाई दीवान के मकान से लल्लू डीमर के मकान से कल्लू गौड़ के मकान से रामदास के मकान से नगर की सीमा तक.

**वार्ड क्रमांक 13—विनोबा भावे वार्ड**

**उत्तर**—सेन्ट्रल बैंक से गंगा सेठिया के मकान से गोविंद अग्रवाल के मकान के सामने से कांजीहाउस के सामने से दमोह रोड होते हुए राजस्व सीमा तक.

**पूर्व**—कन्या शाला मार्ग से गनी के मकान होते हुए विजय अग्रवाल के मकान से कमनिया गेट से सिविल कोर्ट चौराहा होते हुए कटंगी रोड के राजस्व सीमा तक का पश्चिम भाग.

**दक्षिण**—ट्रांजिट होम से मायाबाई के मकान से सिद्दीक के मकान होते हुए उत्तर की ओर नगर की सीमा तक.

**पश्चिम**—सेन्ट्रल बैंक से ईदगाह नाला होते हुए ट्रांजिट होम तक.

**वार्ड क्रमांक 14—शिवाजी वार्ड**

**उत्तर**—जगन्नाथ तिवारी के मकान से कमनिया गेट होते हुए सिविल कोर्ट चौराहा.

**पूर्व**—सिविल कोर्ट चौराहा से शहपुरा रोड नगर की राजस्व सीमा से नगर की सीमा तक.

**दक्षिण**—नगर की राजस्व सीमा होते हुए वार्ड क्र. 12 की सीमा तक.

**पश्चिम**—जगन्नाथ तिवारी के मकान से होते हुए आरा मशीन से मैसूर अली के भवन से वीरेन्द्र तिवारी के मकान से कपूरे कुम्हार के भवन तक.

**वार्ड क्रमांक 15—रानी दुर्गावती वार्ड**

**उत्तर**—कटंगी रोड से नगर की राजस्व सीमा का दक्षिणी भाग.

**पूर्व**—भागवती बाई के खेत से राजस्व सीमा होते हुए उत्तर की ओर लखन अग्रवाल के खेत का पश्चिमी भाग.

**दक्षिण**—पाटन शहपुरा मार्ग का पूर्वी भाग नगर की राजस्व सीमा तक.

**पश्चिम**—शहपुरा मार्ग से सिविल कोर्ट चौराहा होते हुए कटंगी मार्ग राजस्व सीमा तक का पूर्वी भाग.

**विवेक पोरवाल, कलेक्टर.**

Jabalpur, the 12th February 2014

No. 210.—Duda 2014.—In exercise of the powers conferred by the Notification No. 520-XVIII-3-04, Dated 24th February 2004 of Urban Administration and Development Department of Government of Madhya Pradesh, I, Vivek Porwal, Collector, District Jabalpur, Madhya Pradesh, under 29 (i) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine the extent of wards of Nagar Parishad Patan,

District Jabalpur as per Schedule below:—

**SCHEDULE****NUMBER & NAME OF THE WARD**

1. Subhash Chandra Bose Ward, 2. Sardar Ballbh Bhai Patel Ward, 3. Mahatma Gandhi Ward, 4. Dr. Bheemrao Ambedkar Ward, 5. Dr. Rajendra Prasad Ward, 6. Ram Manohar Lohiya Ward, 7. Pt. Ravi Shankar Shukla Ward, 8. Jawaharlal Nehru Ward, 9. Lal Bhadur Shastri Ward, 10. Pt. Deen Dayal Upadhyay Ward, 11. Maharana Pratap Ward, 12. Moulana Abdul Kalam Azad Ward, 13. Vinoba Bhawe Ward, 14. Shivaji Ward, 15. Rani Durgawati Ward.

**Ward No. 01—Subhash Chandra Bose Ward**

**North**—From the house of Sahib Singh to Gopal Patel house via Katka Nallah raod, Neemi Road upto Patan's revenue limits Southern Portoon.

**East**—From Patan town's boundary to boys School Choduary mohalla via Jakems house to Sushil Bhurra's house and Shani Gontiya's house to Sahib Singh Gound house.

**South**—From Indra Kumar's farm (at Mankandi road to revenue limit of Patan behind boys's School.

**West**—At Mankandi road, from Indra Kumar Babale's farm via Patan's revenue limit upto Anil Kumar's farm.

**Ward No. 02—Sardar Ballbh Bahi Patel Ward**

**North**—From northern portion of Chhiddi Patel's house upto Neemi road via patan cities revenue limit.

**East**—From the house of Mallu Rajak's via nalla upto Pakhai road western portion.

**South**—Nalla to House of Ashok Babley via Indra Kumar Babley house.

**West**—From Raghunath Pyasi's house to Wards Neemi Raod upto revenue limit of Patan via Rajaram Lodhi's house Mankobai's house at Pakhai road.

**Ward No. 03—Mahatma Gandhi Ward**

**North**—From house of Vishnu Sen house of Mahadev Pyasi Vijay Babley to Viswanath Babley via front of Ashok Babley to Nalla.

**East**—From house of Dabbal Kachhi to house of Tulsi Kachhi via nalla.

**South**—From the house Dabbal Kachhi to house Yadav's Icecream factory via Khermai.

**West**—From Mankandi road to house to Vishnu Sen via house of Vimla Bai, Rooplal, Mohan Gontiya.

**Ward No. 04—Dr. Bheemrao Ambedkar Ward**

**North**—From house of Barati Chamar to Badi Imli via house of Rammu Chamar.

**East**—From nagtalab to house of Barati Chamar via house of Pooran Rathor, Hari Chamar.

**South**—From house of Narayan Kumhar to revenue limit of Patan At Ward No. 3's Boundary via nagtalab.

**West**—From Badi Imli to Khairmai I/c limit of Ward No.3.

**Ward No. 05—Dr. Rajendra Prasad Ward**

**North**—From Settlement office to house of Dabbal Kachhi to wards limit of ward No. 3.

**East**—From Nag Talab to house of Dabbl Kachhi via Saman Rathore house, Nalla.

**South**—From house of Sarman Rathore upto limit of ward No. 4 Nag Talab.

**West**—From Nag Talab to Settlement office via house Brijlal, Tarendra Chaurasiya, Panoram Master, upto limit of ward No. 4

**Ward No. 06—Ram Manohar Lohiya Ward**

**North**—From Jain Dharamshala to southern portion of house of Shankar Vishwakarma via Rambai Badhai's house.

**East**—From Jain Dharamshala towards house of Suresh Jain, Arpit Medical Stores, Buddu Nema via Shaw Mill of Ajay Singh upto revenue limit of Patan in western portion.

**South**—From the revenue limit of patan at Suraiya road upto northern portion of ward No. 4.

**West**—From the house of Shanker Vishwakarma via house of Dwaraka Soni, Nag Talab upto revenue limit of Patan.

**Ward No. 07—Pt. Ravi Shanker Shukla Ward**

**North**—From northern portion of Pakhi Road to southern portion of Shankar Nagar via revenue limit of Patan.

**East**—From the house of Ganga Sharma via house of Rajkishore Vyas, Laxmi Narayan Mandir, Harvansh Tiwari, Nandu Sharma C.C. road upto culvert's western portion of Damoh road.

**South**—From the house of Ganga Sharma via Kapoor chand Jains's house upto Nallah's northern portion.

**West**—From the house of Kapoor chand Jain via Pakhai road to eastern portion of Patan's revenue limit.

**Ward No. 08—Jawaharlal Nehru Ward**

**North**—Moharram Musalman's house to southern portion off culvert via house of Ram Kumar Rathore's house.

**East**—From the house of Bhagwandas Vaidya to western portion of Ram kumar Rathore's house.

**South**—From the house of Bhagwandas vaidya to Nallah via house of Ram Naresh Tripathi, Shop of Singhai Ratan Chand Jain.

**West**—From the house of Dharam Chand Jain via girls School, house of Surendra Jain, to Jain Temple Guruji house by Shekh Jameel house.

**Ward No. 09—Lal Bhadur Shastri Ward**

**North**—From the northern portion of Shankar Nagar via revenue limit up to southern portion of Madh Talab.

**East**—From the house of Seikh Najeer via C.C. road, house of Raja Ram Shastri, Dilley Musalman, Peer Mohammad upto western portion of Patan revenue limit.

**South**—From the shop of Azad Dhavdekar via.

**West**—From Narayan Tiwari house to Munna Sharma Gothal Patel house to town revenue border.

**Ward No. 10—Pt. Deen Dayal Upadhyaya Ward**

**North**—From the back side of rest house via revenue limit of town upto southern boundary of ward No. 9.

**East**—From house of Shankar Khare via Kanji house upto southern portion of rest house.

**South**—From house of Nirmal Chand Jain to via Nallah, house of Narmada Chamar, Shalig Ram Vyas to eastern portion of Chhidami Gaund, northern limit.



**Ward No. 11—Maharana Pratap Ward**

**North**—From Akhada to State Bank of India via clinic of Dr. Govind Nema.

**East**—From Akhada via Harprasad Gund's house culvert, Nallah, Transit home, old Municipal Building, Hanuman Mandir, house of Bahadur, Lotan Vishwakarma to western portion of revenue limit of town.

**South**—From revenue limit of town to northern portion of revenue limit town at ward No. 6.

**West**—From old state Bank via Library, Madar Chhalla upto eastern portion of revenue limit of Patan.

**Ward No. 12—Moulana Abdul Kalam Azad Ward**

**North**—From the house of Natti Bai to southern portion of Rafeek Musalman's house via Jaleel's house.

**East**—From house of Rafeek via Som chand's Grain yard upto revenue limit of Patan.

**South**—Eastern portion of boundry of ward No. 11 via revenue limit of town.

**West**—From the house of Natthi Bai via house of Lallu Dhimar, Kallu Gaund, Ramdas to revenue limit of town.

**Ward No. 13—Vinoba Bhawe Ward**

**North**—From Central Bank to house Ganga Sethiya, Govind Agrawal in front of Kanji house to Damoh road by revenue border.

**East**—From Girls School road to Gani house Vijay Agrwal house Kamaniya gate civil court square by Katangi road revenue road western side.

**South**—From Transit house culvert's to southern direction from Siddiki's house upto revenue limit of Patan.

**West**—From Cental Bank to Transit home via Idgah Nalla.

**Ward No. 14—Shivaji Ward**

**North**—From house of Jagannath Tiwari to Kamaniya Gate by civil court square southern side.

**East**—From civil court square to Shapura road revenue border to town border western side.

**South**—From the revenue limit of town upto ward No. 12 northern side.

**West**—From house of Jagannath Tiwari via, Maisoor Ali's home Vireendr Tiwari's house upto Kapoor Kumhar house.

**Ward No. 15—Rani Durgawati Ward**

**North**—From Stadium via southern portion of revenue limit of town to ward Katangi road upto revenue limit of town.

**East**—From the house of Bhagwati Bai via revenue limit of town towards southern direction upto western portion of Lakhan Agrawal Farms.

**South**—Patan Shapura road east portin to town revenue border.

**West**—From Shapura road civil square by Katangi road revenue border eastern portin.

VIVEK PORWAL, Collector.

जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी 2014

क्र. 211 डूडा-2014.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक-4-520-अठारह-3-04, दिनांक 24 फरवरी 2004 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मैं, विवेक पोरवाल, कलेक्टर, जिला जबलपुर, एतद्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 (1) के अधीन नगर परिषद्, शहपुरा जिला जबलपुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ:—

“अनुसूची”

वार्डों की सीमा का विवरण

1. लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, 2. डा. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड, 3. पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड, 4. संत रैदास वार्ड, 5. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड, 6. चंद्रशेखर आजाद वार्ड, 7. भगत सिंह वार्ड, 8. सुभाष चंद्र बोस वार्ड, 9. मुंशी प्रेमचन्द वार्ड, 10. स्वामी विवेकानंद वार्ड, 11. जयप्रकाश नारायण वार्ड, 12. महात्मा गांधी वार्ड, 13. पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, 14. रानी दुर्गावती वार्ड, 15. डा. भीवराव अंबेडकर वार्ड.

वार्ड क्र. 1—लालबहादुर शास्त्री वार्ड

उत्तर—गंजकटंगा की सीमा से रेल्वेलाईन क्रॉस करते हुए वाचनालय मार्ग पर स्थित मुन्नालाल चौधरी के मकान तक.

**पूर्व**—मुन्ना चौधरी के मकान से दक्षिण की ओर वाचनालय मार्ग छत्तर सिंह के मकान को क्रॉस करते हुए गुमान सिंह के मकान से जग्गू सोनी (चक्की) के मकान तक.

**दक्षिण**—जबलपुर नरसिंहपुर मार्ग के उत्तर में स्थित जग्गू सोनी (चक्की) के मकान से पश्चिम की ओर सड़क के किनारे-किनारे उत्तरी सीमा लेते हुए नरसिंहपुर मार्ग के उत्तर में राकेश पटैल के मकान तक.

**पश्चिम**—जबलपुर-नरसिंहपुर सड़क के उत्तर में राकेश पटैल के मकान के उत्तर की ओर गंज कटंगा की सीमा तक.

#### वार्ड क्र. 2— डा. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

**उत्तर**—वाचनालय मार्ग में स्थित शारदा प्रसाद पटैल के मकान के पास पुलिया के पूर्व में स्थित करण सिंह के मकान से जनपद पंचायत तहसील मंगलभवन होते हुए छुट्टी लाल चक्रवर्ती के मकान तक.

**पूर्व**—छुट्टी लाल चक्रवर्ती के मकान से नाला किनारे दक्षिण की ओर अवस्थी किराना दुकान तक.

**दक्षिण**—जबलपुर नरसिंहपुर मार्ग के उत्तर में स्थित कैलाशचंद्र जैन के मकान से सड़क किनारे पश्चिम की ओर पुलिस थाना क्वार्टर तक.

**पश्चिम**—करण सिंह के मकान से चौहान मुहल्ला होते हुए पुलिस क्वार्टर तक.

#### वार्ड क्र. 3— पं जवाहर लाल नेहरू वार्ड

**उत्तर**—शेख महबूब के मकान से सड़क पार हुसैन खां के मकान से होते हुए नाला किनारे दोनों तरफ नजीर खां के मकान से होते हुए हलीम खां के मकान से नाला किनारे पश्चिमी भाग लेते हुए सुरेश रजक के मकान तक.

**पूर्व**—सुरेश रजक के मकान से दक्षिण की ओर जबलपुर-नरसिंहपुर मार्ग पर स्थित केशव शुक्ला के मकान तक.

**दक्षिण**—केशव शुक्ला के मकान से सड़क किनारे स्व. वंशगोपाल के मकान तक.

**पश्चिम**—स्व. वंशगोपाल के मकान से उत्तर की ओर मुन्ना रैकवार के मकान से होते हुए शेख मेहबूब के मकान तक.

#### वार्ड क्र. 4— संत रैदास वार्ड

**उत्तर**—बेलखेड़ा राजमार्ग पर स्थित गुरुकृपा पेट्रोल पंप से नटवारा ग्राम एवं धुसोर ग्राम की सीमा से लेकर केबिन से रेल्वे लाईन क्रॉस करते हुए राजमार्ग पुलिया के पास स्थित भूरा विश्वकर्मा के मकान तक.

**पूर्व**—चौधरी के मकान से सीमेंट रोड किनारे-किनारे बड़डू मेहतर के मकान तक.

**दक्षिण**—बुद्ध सिंह के मकान से पश्चिम की ओर बबलू कुम्हार के मकान तक.

**पश्चिम**—बबलू कुम्हार के मकान से सड़क पार तहसील कार्या. के पास से होते हुए रेल्वे लाइन क्रॉस करते हुए गुरु कृपा पेट्रोल पम्प तक.

#### वार्ड क्र. 5— श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड

**उत्तर**—बेलखेड़ा राजमार्ग के दक्षिण में स्थित कोदू सिंह के मकान से पूर्व की ओर स्व. रामनाथ ताम्रकार के मकान तक.

**पूर्व**—स्व. रामनाथ ताम्रकार के मकान से जीवन सिंह की कालोनी डॉ. सोनी के मकान तक.

**दक्षिण**—शेख नजीर के मकान से पश्चिम की ओर नाला किनारे पर स्थित घनश्याम रावत के मकान से लेकर दरवारी लाल पटवा के मकान तक.

**पश्चिम**—दरवारी लाल पटवा के मकान से उत्तर की ओर सीमेंट रोड के पूर्व मकान लड्डू सिंग के मकान को पार करते हुए पंचम सिंह (वकील) के मकान से गनपत रजक के मकान से होते हुए प्राथमिक शाला कैथरा से होते हुए ब्रजेन्द्र सिंग के मकान तक.

#### वार्ड क्र. 6— चंद्रशेखर आजाद वार्ड

**उत्तर**—पवन जैन के मकान के पीछे से नाला किनारे पूर्व की ओर ठाकुर सुभाष सिंह के मकान के पीछे से बाला प्रसाद जैन के पीछे नाली किनारे हेतु हुए बस स्टैण्ड के पीछे राजकुमार जैन के पीछे मण्डी बाउण्ड्री से होते हुए एच. एस. तहसीलदार के मकान तक.

**पूर्व**—शुभम् बैटरी से सीमेंट सड़क के किनारे से परोहा जी के मकान से होते हुए एच. एस. तहसीलदार के मकान तक.

**दक्षिण**—पवन जैन के मकान से जबलपुर नरसिंहपुर रोड पूर्व की ओर सड़क का उत्तरी भाग लेते हुए शुभम् बैटरी तक.

**पश्चिम**—पवन जैन के मकान से नाला तक.

#### वार्ड क्र. 7— भगत सिंग वार्ड

**उत्तर**—रवि सोनी के मकान से वार्ड क्र. 05 की सीमा से होते हुए गिरधारी लाल के मकान से होते हुए ब्रजलाल ठाकुर के मकान तक.

**पूर्व**—ब्रजलाल ठाकुर के मकान से दक्षिण की ओर पी.डब्ल्यू.डी. सड़क पर स्थित सूर्य नारायण सेंगर के मकान तक.

**दक्षिण**—पी.डब्ल्यू.डी. सड़क पर स्थित सूर्य नारायण सेंगर के मकान से पश्चिम की ओर ओंकार सोनी के मकान तक.

**पश्चिम**—वार्ड क्र. 06 की सीमा.

#### वार्ड क्र. 8—सुभाष चंद्र बोस वार्ड

**उत्तर**—शिव प्रसाद कहार के मकान से रेल्वे स्टेशन के पश्चिम की कालोनी में रेल्वे क्रॉसिंग पार करते हुए ग्राम घुन्सौर की सीमा से होते हुए ग्राम पौडी की सीमा से रेल्वे लाईन पुनः पार करते हुए पूर्व की कालोनी तक.

**पूर्व**—स्टेशन पूर्व की कालोनी होते हुए ग्राम पौडी की सीमा से नरसिंहपुर-जबलपुर के सामानान्तर भमकी ग्राम की सीमा तक.

**दक्षिण**—नरसिंहपुर-जबलपुर मार्ग पर स्थित एल.पी.जी. प्लांट के पहले द्वार से पश्चिम की ओर पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क के किनारे-किनारे उत्तर में चंद्रशेखर दुबे के मकान तक.

**पश्चिम**—चंद्रशेखर दुबे के मकान से उत्तर की ओर स्टेशन की पश्चिम कॉलोनी टीकाराम नेमा के मकान तक एवं पश्चिम की ओर शिव प्रसाद कहार के मकान तक.

#### वार्ड क्र. 9—मुंशी प्रेमचंद वार्ड

**उत्तर**—पी.डब्ल्यू.डी. सड़क के पूर्व गोपाल प्रसाद पटैल के मकान नरसिंहपुर-जबलपुर मार्ग पश्चिम की ओर विनोद जैन के मकान तक.

**पूर्व**—गोपाल प्रसाद पटैल के मकान से ग्राम भमकी एवं भमका की सीमा से होते हुए डब्लु प्रसाद पटैल के मकान तक.

**दक्षिण**—डब्लु प्रसाद पटैल के मकान से छपरट नलकूप रोड की सीमा से होते हुए आशीष सोनी के मकान तक.

**पश्चिम**—वार्ड क्र. 10 की सीमा.

#### वार्ड क्र. 10—स्वामी विवेकानंद वार्ड

**उत्तर**—नरसिंहपुर-जबलपुर मेन रोड के दक्षिण में स्थित रामसेवक सोनी के मकान से अनिल जैन (सकरा वाले) के मकान तक.

**पूर्व**—वार्ड क्र. 09 की सीमा तक.

**दक्षिण**—नवनिर्मित जैन मंदिर से छपरट सीमा होते हुए वीरेन्द्र सिंह के मकान से रामकिशन नामदेव के मकान तक.

**पश्चिम**—अनिल जैन (सकरा वाले) के मकान से रामकिशन नामदेव के मकान तक.

#### वार्ड क्र. 11—जय प्रकाश नारायण वार्ड

**उत्तर**—विष्णु कुमार चौरसिया के मकान से पश्चिम की ओर बच्चु भाईजान की दुकान तक.

**पूर्व**—विष्णु कुमार चौरसिया से नाला का पश्चिमी किनारा लेते हुए मुलायम सिंह के मकान तक.

**दक्षिण**—मुलायम सिंह के मकान से तलैया किनारे नाला पार होते हुए सोबरन सिंह (मनू सिंह) के मकान से होते हुए सड़क का उत्तरी किनारा लेते हुए नूरे भाईजान के मकान तक.

**पश्चिम**—बच्चु भाईजान की दुकान से दक्षिण की ओर नूरे भाईजान के मकान तक.

#### वार्ड क्र. 12—महात्मा गांधी वार्ड

**उत्तर**—भगवान सिंह नाहर के मकान से गोविंद सिंह पंचम सिंह के मकान से होते हुए सड़क पार सोबरन सिंह बाबूजी, अशोक साहू के मकान होते हुए दक्षिण रोड किनारे राजाराम प्रजापति के मकान तक.

**पूर्व**—नया मोहल्ला भगवान सिंह नाहर के मकान से होते हुए अच्छे लाल झारिया के मकान तक.

**दक्षिण**—अच्छे लाल झारिया के मकान से छपरट सीमा होते हुए बिजली आफिस तक.

**पश्चिम**—राजा राम प्रजापति के मकान से बिजली ऑफिस तक.

#### वार्ड क्र. 13—पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

**उत्तर**—नरसिंहपुर-जबलपुर मार्ग के दक्षिण में स्थित मल्लु जैन की दुकान से पश्चिम की ओर कैलाशचन्द्र जैन के पास धर्मशाला तक.

**पूर्व**—मल्लु जैन की दुकान से कुलिया से दक्षिण की ओर सड़क का पश्चिमी किनारा लेते हुए शेख अली हुसैन के मकान तक.

**दक्षिण**—शेख अली हुसैन के मकान से पश्चिम की ओर मालकछार रोड का उत्तरी किनारा लेते हुए कैलाश चंद के मकान तक.

**पश्चिम**—वार्ड क्र. 14 की सीमा तक.

**वार्ड क्र. 14—रानी दुर्गावती वार्ड**

**उत्तर**—मालकछार रोड के दक्षिण किनारे पर स्थित सुंदर लाल कुम्हार के मकान से पश्चिम की ओर रोड का दक्षिण किनारा लेते हुए मोहन लाल अग्रवाल के मकान से होते हुए जबलपुर नरसिंहपुर रोड के दक्षिण में स्थित शिवचरण रजक के मकान तक.

**पूर्व**—वार्ड क्र. 12 की सीमा तक.

**दक्षिण**—काछी के मकान से बिलखरवा की सीमा से होते हुए आरामशीन लकड़ी टाल तक.

**पश्चिम**—शिवचरण रजक के मकान से काछी के मकान तक.

**वार्ड क्र. 15—डां. भीवराव अम्बेडकर वार्ड**

**उत्तर**—नरसिंहपुर मार्ग के दक्षिण में स्थित गौरीशंकर कुटी से पश्चिम की ओर प्रानपुर की सीमा तक.

**पूर्व**—गौरीशंकर कुटी से पीछे मालकछार की सीमा तक.

**दक्षिण**—मालकछार की सीमा एवं झोझी ग्राम की सीमा तक.

**पश्चिम**—प्रानपुर एवं झोझी की सीमा से संपूर्ण बिलखरवा ग्राम तक.

**विवेक पोरवाल, कलेक्टर.**

Jabalpur, the 12th February 2014

No. 211.—Duda 2014.—In exercise of the powers conferred by the Notification No. 520-XVIII-3-04, Dated 24th February 2004 of Urban Administration and Development Department of Government of Madhya Pradesh, I, Vivek Porwal, Collector, District Jabalpur, Madhya Pradesh, under 29 (i) of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) hereby determine the extent of wards of Nagar Parishad Shahpura, District Jabalpur as per Schedule below:—

**SCHEDULE****NUMBER & NAME OF THE WARD**

1. Lal Bahadur Shastri Ward, 2. Dr. Rajendra Prasad Ward, 3. Pt. Jawaharlal Nehru Ward. 4. Sant Raidas Ward, 5. Shyama Prasad Mukharji Ward, 6. Chandra Shekhar Azad Ward, 7. Bhagat Singh Ward, 8. Subhash Chandra Bose Ward, 9. Munshi Premchand Ward, 10. Swami Vivekanand Ward. 11. Jay Prakash Narayan Ward, 12. Mahatma Gandhi Ward, 13. Pandit Din Dayal Upadhyaya Ward. 14. Rani Durgawati Ward, 15. Dr. Bhimrao Ambedkar Ward.

**Ward No. 01—Lal Bahadur Shastri Ward**

**North**—Starting from Ganjkatanga crossing Railway line towards Library road upto the house of Munnalal Choudhary.

**East**—From the house of Munnalal Choudhary to wards south Corner of Chhattar Singh house situated on the library marg crossing the house of Guman Singh upto house of Jaggu Soni's (Chakki) house.

**South**—Starting form northern side of the house of Jaggu Soni (Chakki) on Jabalpur Narshingpur road to west road and North corner of Rakesh Patel.

**West**—Starting form northern corner of the house of Rakesh Patel on Jabalpur-Narsinghpur road to north up to the boundary of Ganj Katanga.

**Ward No. 02—Dr. Rajendra Prasad Ward**

**North**—Starting from Library road the culvert situated near the house of Sharda Prasad Patel and from the house of karan singh situated in east side towards Janpad Panchayat Tahsil Mangal Bhawan up to the house of Chhutti lal Chakrawarti.

**East**—Starting from the house of Chhuti lal Chakrawati Situated in the side of culvert and southern side upto the shop of awasathi Kirana Dukan.

**South**—Starting from Jabalpur Narsinghpur road northern corner of the house of Kailash Chand Jain along with the western corner of the police station quarter.

**West**—Starting form the house of Karan Singh via Chowhan mohalla up to police quarter.

**Ward No. 03—Pt. Jawaharlal Nehru Ward**

**North**—Starting from the house of Sheikh Mehboob via house of Husain Khan both side of culvert from the house of Najeer Khan via the house of Haleem Khan to culvert side western portion up to the house of Suresh Rajak.

**East**—Starting from the house of Suresh Rajak southern side of Jabalpur Narsinghpur road upto the house of Keshav Shukla.

**South**—from the house of Keshav Shukla upto road side house of the late Vansh Gopal.

**West**—Starting from the Late Vansh Gopal northern corner via Munna Rajkumar house up to the house of Sheikh Mahboob.

#### **Ward No. 04—Sant Raidas Ward**

**North**—Starting from the Guru Kripa Petrol Pumb on Belkheda National Highway towards the boundry of the village Natwara and Ghunsor to wards Railway cabin crossing Railway line upto the house of Bhoora Vishkarma situated of National highway culvert.

**East**—Starting from the house of Choudhary towards cement road up to the house of Baddu Mehtar.

**South**—Starting form the house of Buddhu Singh upto western side the house of Bablu Kumhar.

**West**—Starting from Bablu Kumhar's house Block office via Railway crossing line upto the Gurukripa Petrol Pump.

#### **Ward No. 05—Shyama Prasad Mukharji Ward**

**North**—Southerly corner of Belkheda National Highway the house of Belkheda National Highway the house of kodoou singh to east side of the late Ramnath Tamrakar house.

**East**— from the house of late Ramnath Tamrakar up to Jivan Singh colony up to house of Dr. soni.

**South**—from the house of Shaikh Najeer of wards westerly culvert. The house of Ghanshyam Rawat up to the house of Darbarilal Patwa.

**West**—form the house of Darbarilal Patwa toward north and east corner to Laddoo Singh Pancham singh (Advocate) house via the house of Ganpat Rajak via Primary School Kethra up to the house of Brajendra Singh.

#### **Ward No. 06—Chandra Shekhar Azad Ward**

**North**—form the back side house of Pawan Jain culvert side eastern side to back side thakur Subhash Singh house Bala Prasad Jain back side of drain up to the house of Rajkumar Jain back side of bus stand behind mandi boundary up to house of H. S. Tahsildar.

**East**—form the Subham battry to words cement road via Paroha ji house upto the house of H. S. Tahsildar.

**South**—Starting from the house of Pawan Jain on Narsinghpur Jabalpur road to eastern side including north portion of road up to the Subham Battry.

**West**— from the house of Pawan jain up to the culvert.

#### **Ward No. 07—Bhagat Singh Ward**

**North**—form the house of Ravi Soni via boundary of ward No. 5 via Girdhari lal house up to the house of Brajlal thakur.

**East**—form the house of Brajlal Thakur to south PWD station road up to house of Sooryanarayan Senger.

**South**—Starting form PWD road to Soorynarayan Senger house the west site of road up to house of Omkar soni.

**West**—The boundary of ward No. 6.

#### **Ward No. 08— Subhash Chandra bose Ward**

**North**—Starting form the house of Shiv Prasad Kahar western colony railway crossing line via boundary of village Ghunsor the boundary of Paudi railway crossing line to east corner of railway colony.

**East**—Starting form east colony of railway station via boundary of Paudi village Narshinghpur Jabalpur road Parraller to boundary of Bhamki village.

**South**—Starting form first Gate of LPG plant on Narsinghpur Jabalpur road to west PWD road up to Chandra Shekher Dubey residence station on north.

**West**—form Chandra Shekhar Duby residence to northen side of to west colony of railway residence Teekaram Nema and western side up to the house of Shiv Prasad Kahar.

#### **Ward No. 09—Munshi Premchand Ward**

**North**—Starting form east PWD road the house Gopal Prasad Patel towards western road Jabalpur Narsinghpur up to the residence of Vinod Jain.

**East**—form Gopal Prasad Patel house to the boundary of Bhamki and Bhamka village via the house of Dabbal Prasad Patel.

**South**—Starting form the house of Dabbai Prasad Patel via boundary of Chhparit Nalkupe road up to house of Ashish Soni.

**West**—boundary of ward No. 10.

**Ward No. 10—Swami Vivekanand Ward**

**North**—Starting form Narsinghpur Jabalpur road to south side house of Ramshevak soni up to the house of anil Jain (Sakra wale).

**East**—boundary of ward No. 09.

**South**—Starting form newly constructed Jain Mandir via Virendra Singh house up to house of Ram kishan Namdeo.

**West**—Starting form the house of Anil Jain (Sakra wale) up to the house of Ram kishan Namdeo.

**Ward No. 11—Jay Prakash Narayan Ward**

**North**—Starting form the house of Vishnu Kumar Choursiya towards west side up to shop Bachchoo Bhajjan.

**East**—Starting form Vishnu kumar Choursiya Dukan via western corner of culvert up to the house of Mulayam Singh.

**South**—Starting form the house of Mulayam Singh. via of pond side corrsing the culvert via house of Shobaran singh (Munnu singh) northen portion of the road up to the house of Noore Bhajjan.

**West**—Starting form the house of Bachchoo Bahijan dukaan towards southern side up to the house of Noore Bhajjan.

**Ward No. 12—Mahatma Gandhi Ward**

**North**—Starting form the house of Bhagwan Singh Nahar via Govind singh Panoram Singh Sobaran Singh (Babu ji) Ashok Sahu up to the southern side of the house of Raja ram Prajapati.

**East**—Starting form the house of Bhagwan Singh Nahar Naya mohalla up to the house of Achchhelal Jhariya.

**South**—Starting form the house of Achchhelal Jhariya via boundary of Chhaprat up to the office of the bijali Department (MPEB).

**West**—Starting form the house of Rajaram Prajapati up to the office of Bijali Department (MPEB).

**Ward No. 13—Pandit Dindayal Upadhy Ward**

**North**—Starting form the Shop of Malloo Jain to western side on the way of Jabalpur Narsinghpur up to the house of Kailash Chand Jain near Dharam Shala.

**East**—Starting form the Shop of Malloo Jain via Kuliya on sourthen side including western side road position up to the house of Sheikh Ali Husain.

**South**—Starting form the house of Sheikh Ali Husain to wards west side via northen portion of Malkachhar road up to the house of Kailash chand.

**West**—boundary of the ward No. 14.

**Ward No. 14—Rani Durgawati Ward**

**North**—Starting form Malkachhar road towards south side of Sunderlal Kumhar house towards including the south position of the western road via the house of Mohanlal Agrawal up to the house of Shiv Charan Rajak on the south side of Jabalpur Narsinghpur road.

**East**—Boundary of ward No 12

**South**—Starting form the house of the Kachhi via Bilkharwa boundary up to Arra Machine wood tall.

**West**—Starting form the house of Shiv Charan Rajak up to Kachhi house.

**Ward No. 15—Dr. Bhimrao Ambedkar Ward**

**North**—Starting form Jabalpur Narsinghpur road towards south side of Gauri Shankar Kutti west side of the boundary of Pranpur.

**East**—form back side of house Gauri Shankar Kutti up to the boundary of Malkachhar.

**South**—up to the boundary of Malkachhar and Jhoji village.

**West**—the boundary of Pranpur and Jhoji up to hope bilkharwya village.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया

दतिया, दिनांक 22 फरवरी 2014

क्र. 106-वार्ड-परि-2014.—मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार नगर परिषद् बड़ौनी के वार्डों का परिसीमन (विस्तार) नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करती है:—

क्र. (1)	वार्ड क्रमांक (2)	वार्ड का नाम (3)
1	वार्ड क्र. 1	शीतला माता
2	वार्ड क्र. 2	महात्मा गांधी
3	वार्ड क्र. 3	जवाहरलाल नेहरू
4	वार्ड क्र. 4	डॉ. अम्बेडकर
5	वार्ड क्र. 5	सुभाष चन्द्र बोस
6	वार्ड क्र. 6	नरसिंग
7	वार्ड क्र. 7	डॉ. भगवानदास माहौर
8	वार्ड क्र. 8	बड़ी माता
9	वार्ड क्र. 9	चन्द्रशेखर आजाद
10	वार्ड क्र. 10	विवेकानन्द
11	वार्ड क्र. 11	पाताली हनुमान
12	वार्ड क्र. 12	बाँके बिहारी
13	वार्ड क्र. 13	प. दीनदयाल उपाध्याय
14	वार्ड क्र. 14	श्यामा प्रसाद मुखर्जी
15	वार्ड क्र. 15	इंदिरा गांधी

## वार्ड क्र. 1-शीतला माता वार्ड

उत्तर—रामनाथ कुशवाहा के मकान से बंध मुहल्ला लेते हुये सीताराम बाढ़ई के मकान तक.

पूर्व—प्रभू यादव के मकान से दतिया रोड की ओर ई. जी. ए. एस. स्कूल लेते हुए किशोरी प्रजापति का मकान लेते हुये राम प्रसाद बंशकार का कमरा लेते हुये रोड पर लेते हुये धनू कुशवाहा के मकान तक.

दक्षिण—सुल्लू साहू के मकान से मुन्ना खाँ की छिड़िया लेते हुये बफाती के मकान तक.

पश्चिम—श्रीलाल खंगार के मकान से लखन सैन की छिड़िया लेते हुये रामरतन रेजा के मकान तक.

## वार्ड क्र. 2-महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर—तुलसी कुशवाहा के मकान से माखन बाग लेते हुये मोहन बाढ़ई के कमान तक.

पूर्व—मुन्ना तिवारी के मकान से शिशुपाल सिंह के मकान को लेते हुये भरोसी कुशवाहा के मकान तक.

दक्षिण—जानकी दुबे के मकान से आँगनबाड़ी मुहल्ला लेते हुये झा मुहल्ला लेते हुये, गोविन्द सिंह के मकान तक.

पश्चिम—सुरेश के मकान से हरप्रसाद के मकान तक.

## वार्ड क्र. 3-जवाहर लाल नेहरू वार्ड

उत्तर—महेश रतू के मकान से पशु अस्पताल होते हुये रामस्वरूप अहिरवार के मकान तक.

पूर्व—रती अहिरवार के मकान से रपटा गली लेते हुये दिनेश रजक के मकान तक.

दक्षिण—मुन्नी देवी, हरचरन के मकान से होते हुये अशोक झा की दुकान लेते हुये नगर परिषद् के सामुदायिक भवन तक.

पश्चिम—बैजनाथ कुशवाहा के मकान से गोपाल कुशवाहा को लेते हुये चिन्नु लुहार से लेते हुये मंडी होते हुये अवधेश मोदी का घर लेते हुये बनमाली तिवारी को लेते हुये टेकरी हनुमान की बस्ती लेते हुये कैलाश सेठ के मकान तक.

## वार्ड क्र. 4-डॉ. अम्बेडकर वार्ड

उत्तर—काशीराम झा से दाऊजू का कुआ लेते हुये हरदास अहिरवार का मकान लेते हुये लक्ष्मन अहिरवार के मकान से होते हुये हरीराम करीगर का मकान लेते हुये, छोटी बड़ी हवेली लेते हुये अशोक खटीक के मकान तक.

पूर्व—बाबूलाल गोस्वामी के मकान से होते हुये, राजेन्द्र चौबे का मकान लेते हुये, नरसिंह मंदिर होते हुए, अर्जुन कुम्हार की छिड़िया लेते हुये, उपस्वास्थ्य केन्द्र लेते हुये कन्या प्रा. शा. लेते हुये, रामस्वरूप गुप्ता हिड़ोरा वाले का मकान लेते हुये, उमाचरन आचार्य का मकान लेते हुये, सीताराम बंशकार की होते हुये, रामसिंह कुम्हार को लेते हुये महेन्द्र कुम्हार के मकान तक.

दक्षिण—मातादीन कुम्हार के मकान से होते हुये परम अहिरवार लेते हुये, रामप्रसाद अहिरवार की छिड़िया लेते हुये, मन कुड़िया अहिरवार, हरदास के मकान तक.

पश्चिम—रामस्वरूप अहिरवार की पत्नी के मकान से होते हुये, कन्हई कुम्हार को लेते हुये वरिया मुहल्ला लेते हुये मूला लोधी के मकान तक.

**वार्ड क्र. 5-सुभाष चन्द्र बोस वार्ड**

**उत्तर**—नत्थू जाटव के मकान से होते हुये कल्लू जाटव का मकान लेते हुये व जमादार मुहल्ला लेते हुये छोटेश्वर मंदिर लेते हुये मुन्नी का डेरा लेते हुये, उमराव रामचरन जाटव, भैया लाल के मकान तक.

**पूर्व**—राकेश बाढ़ई के मकान से होते हुये ज्वाला कुम्हार से होते हुये लालाराम कुम्हार के मकान तक.

**दक्षिण**—घनश्याम कोरी के मकान से होते हुये छोटा कुरियाना मुहल्ला लेते हुये नत्थू पचैरिया से होते हुये रामस्वरूप तिवारी मकान लेते हुये पचौरी गली लेते हुये झुन्ने काछी के मकान को लेते हुये मुल्लू की चक्की तक.

**पश्चिम**—रामहेत कारीगर के मकान से होते हुये भगवान दास कुशवाहा से होते हुये सती माता गली लेते हुए नई कालोनी लेते हुये राम प्रसाद कुशवाहा के मकान तक.

**वार्ड क्र. 6-नरसिंह वार्ड**

**उत्तर**—हरदास कुम्हार के मकान से रघुवीर यादव का घर लेते हुये, रामकुमार कल्हार के मकान तक.

**पूर्व**—राजकुमार चौबे के मकान से चौबे मुहल्ला लेते हुये, मल्लू साहू से लेते हुए, संजय पाण्डे का मकान लेते हुये सुधीर चौबे को लेते हुये, तिवारी के मकान से होते हुये, साहूओं के मकान लेते हुये, धन्नु साहू के मकान तक.

**दक्षिण**—झाँसी वाले बाजपेई का बाड़ा लेते हुये हरप्रसाद लखरे को लेते हुये शिवकुमार सेठ का मकान लेते हुये गुंसाई गली लेते हुये अजय नरवरिया के मकान तक.

**पश्चिम**—रामस्वरूप बाढ़ई के मकान से होते हुये भगवानदास लोधी से होते हुये हरिनिवास के लखन साहू से होते हुये सुनील माते लेते हुये मुन्ना प्रोहित लेते हुये महेन्द्र त्रिपाठी से होते हुये रामकिशन लोधी के मकान तक.

**वार्ड क्र. 7-डॉ. भगवान दास माहौर वार्ड**

**उत्तर**—मुन्ना कारेखिमऊ के मकान से होते हुये मुरारी सेठ का मकान लेते हुये परम चौरसिया के मकान तक.

**पूर्व**—तुलसी चौधरी के मकान से होते हुये रामजी सोनी के मकान को लेते हुये शिवम तिवारी के मकान तक.

**दक्षिण**—सीताराम सेठ के मकान से होते हुये रमेश नीखरा को लेते हुये सुरेश इटोरिया से होते हुये रघुवीर बेडर को लेते हुये अशोक सेठ से होते हुये, रवि यादव से होते हुये, गोपाल को लेते हुये संतोष श्रीवास्तव से होते हुये दर्जियों को लेते हुये, मंगल इटोरिया मुरारी नीखरा से महेश यादव के घर तक.

**पश्चिम**—घनश्याम लखरे से होते हुये ओमप्रकाश वैद्य का मकान, हरीनीखरा से होते हुये कारेखिमऊ की छिड़िया लेते हुये गोपाल नीखरा से होते हुये, पप्पू प्रोहित को लेते हुये संतोष शर्मा लेते हुये, दशरथ पाठक से होते हुये प्रताप राजा को लेते हुये, नवल प्रोहित, काजू नीखरा लेते हुये, संतोष कारेखिमऊ का मकान लेते हुये गांधी चौक लेते हुये केशव यादव के मकान तक.

**वार्ड क्र. 8-बड़ी माता वार्ड**

**उत्तर**—परशु नामदेव के मकान से कौशिक गली लेते हुये रामपाल सिंह के मकान तक.

**पूर्व**—मंगल दमले के मकान से बड़ी माता गली लेते हुये भगवान दास दर्जी के मकान तक.

**दक्षिण**—नारान मलैया के मकान से मलैया गली लेते हुये हीरालाल गुप्ता के मकान तक.

**पश्चिम**—सीताराम पचैरिया के मकान से होते हुये जगदीश सैन की गली लेते हुये रघुवीर कुशवाहा की गली लेते हुये नरसिंह मरि की गली लेते हुये प्रेमनारान कुशवाहा का घर लेते हुये रामेश्वर यादव के मकान से होते हुये तुलसी कुशवाहा का घर लेते हुये कक्कू कुशवाहा से होते हुये बादाम, सपोली कुशवाहा के घर तक.

**वार्ड क्र. 9-चन्द्रशेखर आजाद वार्ड**

**उत्तर**—सुरेश पाल के घर से बच्ची पाल की लेते हुये, मामा पाल का घर लेते हुये, कुरिया गली लेते हुये, रामसेवक पटवारी के पीछे की गली लेते हुये, गुड्डी राजा की राऊर लेते हुये सुनूवारी का घर लेते हुये प्रमोद गोस्वामी के मकान तक.

**पूर्व**—महेश पुरोहित के मकान से पण्डा का घर लेते हुये दुबे की छिड़िया लेते हुये गजेन्द्र राजा का मकान लेते हुये बद्री लोहार के मकान तक.

**दक्षिण**—भण्जू कुशवाहा के मकान से बड़ा कुआ लेते हुये आचार्य जी का मोहल्ला लेते हुये अशोक यादव का मकान लेते हुये अनार के कुआ से नाहर सिंह यादव के मकान तक.

**पश्चिम**—बादाम पाल के मकान से संतोष सिंह राजा की छिड़िया लेते हुये मनीराम यादव के मकान से बबलू धोबी के मकान तक.

**वार्ड क्र. 10-विवेकानन्द वार्ड**

**उत्तर**—विनोद लुहार के मकान से होते हुये, पोस्ट ऑफिस वाली गली लेते हुये, काँकोरिया गली लेते हुये, रहमत बक्स के मकान तक.



**पूर्व**—रामचरन अहिरवार के मकान से होते हुये कचहरी लेते हुये अनिल प्रोहित से होते हुये, जगदीश प्रोहित के मकान तक.

**दक्षिण**—अशोक यादव के मकान से होते हुये भट्टेले मुहल्ला लेते हुये बाबू अहिरवार के मकान तक.

**पश्चिम**—मुन्ना कोरी के मकान से गोविन्द दास कोरी वाली गली लेते हुये कोमल यादव के मकान तक.

#### वार्ड क्र. 11-पाताली हनुमान वार्ड

**उत्तर**—संतोष तिवारी के मकान से मेवालाल थरेटिया के मकान से होते हुये, केशर कोरिन के मकान तक.

**पूर्व**—रामस्वरूप कोरी के मकान से बड़ा कुरियाना मोहल्ला लेते हुये बृजकिशोर योगी का मकान लेते हुये चिन्तामन जोशी तक.

**दक्षिण**—मजीद वेग की मकान से होते हुये बहरूपिया गली लेते हुये, मुकेश सोनी मकान लेते हुये रामसेक राववाले का मकान लेते हुये पुराने बैंक तक.

**पश्चिम**—रवि कस्तवार के मकान से होते हुये सुरेश कस्तवार का मकान लेते हुये वैद्य मैरिज हाऊस से होते हुये पाताली हनुमान, बिजली घर लेते हुये साँवला लेते हुये प्रीतम अहिरवार लेते हुये हरियाणा बीड़ी कंपनी लेते हुये चन्द्र प्रकाश तिवारी के मकान तक.

#### वार्ड क्र. 12-बाँके बिहारी वार्ड

**उत्तर**—डॉ. रामप्रकाश के मकान से होते हुये, प्रकाश कुशवाहा का घर लेते हुये जगदीश तिवारी, सरावगी घर लेते हुये बाँके बिहारी मंदिर तक.

**पूर्व**—बाबू नायक के मकान से के. डी. दुबे से होते हुये तैतिल को लेते हुये रमेश मोदी लेते हुये गधरयाना मुहल्ला लेते हुये शिवकुमार चउदा से होते हुये नन्द किशोर पहारिया से राकेश योगी से होते हुये रामजी योगी लेते हुये मोदी धर्मशाला तक.

**दक्षिण**—चुई कुम्हार के मकान से होते हुये रामदीन धोबी के मकान से लेते हुये, आशाराम के मकान से लेते हुये, लालाराम गड़रिया से होते हुये, निर्मिला धारपड़े को लेते हुये सी. आई. साहब का मकान लेते हुये अम्बिका योगी के मकान तक.

**पश्चिम**—बालमकुन्द गुप्ता के मकान से होते हुये अशोक पहारिया को लेते हुये शशि कस्तवार से होते हुये रमेश चउदा लेते हुये सियाशरण मोदी का मकान लेते हुये, बाबू कलाउत तक.

#### वार्ड क्र. 13-पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

**उत्तर**—रेखा अनिल के मकान से वरु ढीमर के मकान से होते हुये ढीमर छिड़िया लेते हुये नारान ढीमर के मकान तक.

**पूर्व**—बाबू ढीमर के मकान से ढीमर गली लेते हुये पनकू धोबी के मकान तक.

**दक्षिण**—गजेन्द्र अड़जरिया के मकान से बंशकार गली लेते हुये भागीरथ अहिरवार गली लेते हुये वरह गली लेते हुये बुच्ची काछी के मकान तक.

**पश्चिम**—वीर सिंह राजा के मकान से ठाकुर धोबी से होते हुये कब्जू गली लेते हुये रामस्वरूप सेन का घर लेते हुये पालो को लेते हुये भवानी सिंह के मकान तक.

#### वार्ड क्र. 14-श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड

**उत्तर**—तुलसी खुशाली कुशवाहा के मकान से होते हुये, गनसे कुशवाहा की छिड़िया लेते हुये, गनू तुलई कुशवाहा के मकान तक.

**पूर्व**—हुकुम कुशवाहा लोई बड़ौनी के मकान से कुशवाहा मोहल्ला लेते हुये, धनकू कुशवाहा से होते हुये नील के ऊसरा से होते हुये वरह माता लेते हुये नवल कुशवाहा, की गली लेते हुये, हरचयन यादव लेते हुये राजेन्द्र यादव से करन सिंह ठाकुर के मकान तक.

**दक्षिण**—हरीनायक के मकान से होते हुये कतकिया संपूर्ण मोहल्ला लेते हुये बंशकार गली से होते हुये गज्जू राजा के मकान तक.

**पश्चिम**—ननू अहिरवार के मकान से होते हुये पंचम यादव गली लेते हुये अशोक यादव, रघुवीर यादव लेते हुये, रामदास कुशवाहा से होते हुये हरप्रसाद कुशवाहा के मकान तक.

#### वार्ड क्र. 15-इंद्रिरा गांधी वार्ड

**उत्तर**—लाल सिंह कुशवाहा के मकान से जोशी के मकान लेते हुये चतुर सिंह यादव का मकान लेते हुये धनीराम कुशवाहा का मकान लेते हुये यादव गली लेते हुये कल्लू यादव के मकान तक.

**पूर्व**—नलथू आदिवासी के मकान से संपूर्ण मोहल्ला लेते हुये हरदेव आदिवासी के मकान से होते हुये माता मंदिर के पीछे तक.

**दक्षिण**—भगवान सिंह आदिवासी के मकान से होते हुये बाबू आदिवासी का मकान लेते हुये बालू के मकान से होते हुये हरीसिंह के मकान से होते हुये ज्ञान सिंह आदिवासी के मकान तक.

**पश्चिम**—लालाराम आदिवासी के मकान से धन्नु आदिवासी से होते हुये हल्कू आदिवासी मोहल्ला लेते हुये, रामचरन आदिवासी लेते हुये, भगवान दास आदिवासी के मकान तक.

रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर.

Datia, the 22<sup>nd</sup> February 2014

No. 106.—In Exercise of the power Contrerred by sub-section (1) of Section 29 of Madhya Pradesh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) The State Government hereby the (extend) the Distribution of wards of Nagar Parishad Badoni as per Schedule introduction of as below :—

#### SCHEDULES

S. No. (1)	No. of Ward (2)	Name of Ward (3)
1	Ward No. 1	SHITLAMATA
2	Ward No. 2	MAHATAMA GANDHI
3	Ward No. 3	JAWAHAR LAL NEHARU
4	Ward No. 4	DR. AMBADKAR
5	Ward No. 5	SUBHASH CHANDRA BOSE
6	Ward No. 6	NARSINGH
7	Ward No. 7	DR. BHAGWANDAS MAHOR
8	Ward No. 8	BADI MATA
9	Ward No. 9	CHANDRA SHAKHAR AJAD
10	Ward No. 10	VIVEKANAND
11	Ward No. 11	PATALI HANUMAN
12	Ward No. 12	BANKE BIHARI
13	Ward No. 13	PT. DEENDYAL UPADHAYAY
14	Ward No. 14	SHAYAMA PRASAD MUKHARJI
15	Ward No. 15	INDRA GANDHI

#### WARD No. 1—SHITLAMATA WARD

**North**—Ramnath House is taking from band mohalla to Sitaram's Badai's House.

**East**—Probhu Yadav House is taking from Datia Road to ward E. G. S. School including Kishori Prajapati's House and Rood of Ram Prasad Banshkar to Dhannu Kushawaha's House.

**South**—Munna Khan's Chhidiya is taking from Sullu Sahu's House to Bafati's House.

**West**—Lakhan Sen's Chhidiya is taking from Shrilal Khangar's house including to Ram Ratan Reja house.

#### WARD No. 2—MAHATAMA GANDHI WARD

**North**—Makhan Wage is taking from Tulsi Kushwaha's House to Mohan Badai's House.

**East**—Sisupal Singh House is taking from Munna Tiwar's House to Bharoshi Kushwaha's House.

**South**—Aganbadi Mohalla is Taking from Janki Duby's House Including Jha's Mohalla to Gobind Singh House.

**West**—From Suresh House to Harprasad House.

#### WARD No. 3—JAWAHARLAL NEHARU WARD

**North**—Animal Hospital is taking from Mahesh Rattu's House including to Ramshwroop Ahirwar's Hosue.

**East**—Rapta Strete is taking from Rati Ahairwar to Dinesh Rajak's House.

**South**—Munni Davi, Harcharan's House including Ashok Jha's Shop to Shamudayak Bhawan of Nagar Parisad.

**West**—Gopal Kushwaha is Taking from Vejnath Kushwaha's House including Chinu Lohar including Mandi including Abhdesch Modi's House including Banmali Tiwari, Takri Hanuman's basti to Kelash Shet House.

#### WARD No. 4—DR. AMBADKAR WARD

**North**—Dauju's well is taking from Kasiram Jha including Hardash Ahirwar's House taking up Laxman Ahirwar's House and then Hariram Karigar House including Chhoti-Badi haveli to Ashok Khatik's House.

**East**—Rajendra Chaubey is taking Bubulal Goswami's House Via Narsingh Mandir, Chiddiya of Arjun Kumhar, Sub hospital center, Grils Primary School, Ramshwaroop Gupta, Hidora Wales house Sitaram Vanskar's House, Umacharan Aacharya's House Ramsing Kumhar's House to Mahandra Kumar's House.

**South**—Param Ahirwar is taking from Matadeen Kumhar's Via Chiddiya of Ramprasad Ahirwar Man Kuiya Aharwar to Hardas house.

**West**—Ramshwaroop Ahirwar's wife's House including Kanhaiya Kumar Via Variya Mohalla to Mula Lodhi's House.

**WARD No. 5—SUBHASH CHANDRA BOSE WARD**

**North**—Kallu Jatav's House is taking from Jatav House Via Jamadar Mohalla, Ghotaswar Temple, Munni ka dera, Umroo. Ramcharan Jatav's House to Bhiya Lal House.

**East**—Jwala Kumhar is taking from. Rakesh Badai's House to Lalaram Kumhar's House.

**South**—Kuriyana Mohalla is taking from Ghanshyam Kori's House Via Nattu Pachariya, Ramshwroop Tiwari's House, Pachuri Strete, Jhamunna Kachi House to Mullu Ki Chakki.

**West**—Bhagwan Das Kushwaha is taking from Ramhet Karigar's House Via Shakti Mata Strete New Colony to Ram Prasad Kushwaha.

**WARD No. 6—NARSINGH WARD**

**North**—Raguveer Yadav's house is taking from Hardas Kumar's House to Ramkumar Kalhar's House.

**East**—Chaubey Mohalla is taking from Rajkumar Chaubey's house Via Malthu Sahu's House, Sanjay Panday's House, Sudheer Chaubey's House including Tiwaris House and Sahu Houses to House of Dhannu Sahu.

**South**—Harprasad Lakhare is taking from Jansi Bale Wajpay's Bada. Via Shivkumar Shat's House Gusai wali Strete to Ajay Narwariya's House.

**West**—Bhawandas Lodhi is taking from Ramswaroop Badais house via harinivash including Lakhana Sahu, Sunil mate, Munna Prohit, Mahardra Tripathi to Ramkisan Lodhi's House.

**WARD No. 7—BHAGWANDAS MAHOR WARD**

**North**—Murari Shet house is taking from Munna Karekhmau house to Param Chaurasiya House.

**East**—Ramji Soni House is taking from Tulsi Chaudari's House to Shivam Tiwari's House.

**South**—Ramesh Nekhra is taking from Sitaram Shet via Suresh Etoriya's House Raguveer Bader's House, Ahsok Shet's House Ravi Yadav's House Gopal's House, Santosh Shrivastava including dargies, Mangal Etoriya Murari Nekhara House to Mahesh Yadav's House.

**West**—Omprakash Vadhe House is taking from Ghanshyam Lakhare Via Harinikhara's Karekhamu Chhidiyas, Gopal Nekhara Pappu Prohit, Santosh Sharma including Dasharath Pathak, Pratap Raja, Naval Prohit Kaju Nekhara, Santosh Karekhamu House Gandhi Chuk to Kesab Yadav's House.

**WARD No. 8—BADI MATA WARD**

**North**—Kausik Strete is taking from Parshu Namdave's house to Ramsingh House.

**East**—Badi Mata Strete is taking from Mangal Damela's House to Bagawandas Dargi's House.

**South**—Malliya Strete is taking from Naran Malliya to Hiralal Gupta's House.

**West**—Jagdeeh Sen Strete is taking from Sitarma Pachariya's House via Raguveer Kushwaha Strete, Narsingh Mandir's strete including Pramnaran Kushwaha's House, Tulsi Kushawah house including Kaku Kushwaha's House to Badam Sapole Kushwaha's House.

**WARD No. 9—CHANDRA SHEKHAR AJAD WARD**

**North**—Bachi Pal is taking from Suresh Pal's House via Mama Pal's House, Kuriyana Strete Behind Strete of Ramsavak Patwari including Ravar of Guddi Raja, Sunnu Badi's House to Pramod Goswami's House.

**East**—Panda's House is taking from Mahesh Purohit's House via Chiddiya of Dubey's Including Gajandra Raja's House to Badri Lohar's House.

**South**—Bada Kau is taking from Bhajju Kushwah's House vai Acharyaji's Mohalla including Ashok Yadav House, Anars Kua to Nahar Singh's Yadav House.

**West**—Chiddiya of Santosh Singh Raja is including Badam Pal's House Via Maniram Yadav's House to Bablu Dhobi's House.

**WARD No. 10—VIVEKANAND WARD**

**North**—Strete of Post Office is taking from Venodh Lohar's House via Kankuriya's Strete to Rehmat Bax's House.

**East**—Kachahari is taking from Ramcharan Ahirwar's House via Anil Prohit to Jagdeesh Prohit's House.

**South**—Bhatele Mohalla is taking from Ashok Yadav House to Houses of Babu Ahirwar.

**West**—Govind Das Kories Strete is taking from Munna Koris house to Komal Yadav's House.

#### **WARD No. 11—PATALI HANUMAN WARD**

**North**—Mabalal Tharetiya's House is taking from Santosh Tiwaris House to Keshar Korin's House.

**East**—Bada Kuriyana Mohalla is taking from Ramswaroo Kories House including Brajkishor Yogi's House to Chintaman Joshi House.

**South**—Bahrupiya Strete is taking from Majeed begs house via Mukesh Sonis House Ramsevakh Raowable House.

**West**—Suresh Kastwar's House is taking Ravi Kastar's House via Baidh Merige House Patali Hanuman Electricity House including Sawala. Preetam Ahirwar. Hariyana Badi Company to Chandra Prakash Tiwari House.

#### **WARD No. 12—BANKE BIHARI WARD**

**North**—Prakash Kushwaha House is taking from Dr. Ramprakash House. Jagdeesh Tiwari House, Sarwagi House to Banke Bihari Mandir.

**East**—K. D. Dubey is taking from Babunayak House via taitil Ramesh modi Gadhriyana Mohalla including Shivkumar Chauda Nand Kishor Pahariya Rakesh Yogi Ramji Yogi to Modi Dharmashala

**South**—Ramdeen Dhobi's House is taking from Chui Kumhar House, Asharam House including Lalaram Gadriya Nirmla Gharpade including C. I. Shab House to Ambika Yogis House.

**West**—Ashok Pahariya is taking from Balmukund Gupta House via Shashi Kastwar Ramesh Chauda including Siyasharan Modi's House to Babu Kalut.

#### **WARD No. 13—Pt. DEENDAYAL UPADHAYAY WARD**

**North**—Vau Deemars's House is taking from Rekha Anil's House via Chidiya of deemar's to Narayan deemera's House.

**East**—Deemars Gali is taking from Babu deemar's House to Panku Dhobis House.

**South**—Vanskar Strete is taking from Gajandra Adjariya House including Bhageerat Ahirwar Strete Barah Strete to Buchi Kachi's House.

**West**—Thakur Dhobi is taking from Veer Singh Raja's House. Via Kabju Strete, Ramswaroop Sen's House including Pals to Bhavani Singh's House.

#### **WARD No. 14—SHAYAMA PRASAD MUKHARJI WARD**

**North**—Ganshe Kushwaha's Chhidiya is taking from Tulsi Khushali Kushwaha to Gannu tulai Kushwaha houses.

**East**—Kushwaha Mohall is taking from Hukum Kushwaha Loi Badoni's house via Dhanku Kushwaha including Neel Ka Ushra, Barah Mata Naval Kushwaha's Strete including Harcharan Yadav to Karan Singh Thakur's house.

**South**—All Katkaya Mohalla is taking from Harinayak's House Via Vanshar Strete to Gaggu Raja's house.

**West**—Pancham Yadav's Strete is taking from Nannu Ahirwar's house via Ashok Yadav Raghuvver Yadav Ramdas Kushwaha to Harparashad Kushwaha House.

#### **WARD No. 15—INDRA GANDHI WARD**

**North**—Joshis House is taking from Lalsingh Kushwaha via Chatur Singh Yadav's House Daniram Kushwaha's House including Yadav Strete to Kall Yadav's House.

**East**—All Mohallas is taking from Nathu Adivasi House, Hardev Adivasi's house to Behind Mata Temple

**South**—Babu Adivasi's House is taking from Bhagwan Singh Adivasi's house Via Balu's House, Harisingh house to Gyan Singh's Adivasi's House.

**West**—Dhanu Adivasi House is taking from Lalaram Adivasi's via Halku Adivasi's Mohalla including Ramcharan Adivasi to Bagwandas Adivasi's House.

RAGHURAJ RAJENDRAN, Collector.

## कार्यालय, नगर परिषद् बड़ौनी, जिला दतिया (मध्यप्रदेश)

मध्यप्रदेश नगर पालिका (वार्डों का विस्तार) नियम 1994 के नियम 6(2) (तीन) (चार) के अन्तर्गत जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार प्रस्तावित वार्ड 1 लगायत 15 की कुल एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या विवरण-पत्रक

क्र.	नगर परिषद् का नाम एवं जिला	अवधारित वार्डों की कुल संख्या	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम	वार्डों की कुल जनसंख्या	सामान्य जनसंख्या	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	नगर परिषद्, बड़ौनी जिला-दतिया.	15	1	शीतला माता वार्ड	707	652	55	-	
			2	महात्मा गांधी वार्ड	673	573	100	-	
			3	जवाहर लाल नेहरू वार्ड	705	310	395	-	
			4	डॉ. अम्बेडकर वार्ड	708	110	598	-	
			5	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड	762	332	430	-	
			6	नरसिंह वार्ड	677	586	91	-	
			7	डॉ. भगवानदास मौहार वार्ड.	685	685	-	-	
			8	बड़ी माता वार्ड	689	667	-	22	
			9	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड	683	563	60	-	
			10	विवेकानन्द वार्ड	683	547	136	-	
			11	पाताली हनुमान वार्ड	685	424	261	-	
			12	बाँके बिहारी वार्ड	664	519	145	-	
			13	दीनदयाल उपाध्याय वार्ड	775	620	155	-	
			14	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड	785	554	231	-	
			15	इंदिरा गांधी वार्ड	788	238	-	550	
<b>कुल योग</b>					<b>10609</b>	<b>7380</b>	<b>2657</b>	<b>572</b>	

## कार्यालय कलेक्टर जिला अशोक नगर मध्यप्रदेश

अशोकनगर, दिनांक 22 फरवरी, 2014

क्रमांक/डूडा/वार्ड विभाजन/2014/4-222- मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 एवं म.प्र. नगर पालिका (वार्डों का विस्तार) नियम 1994 के तारतम्य में तथा म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25.02.2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं आर.बी.प्रजापति, कलेक्टर, जिला अशोकनगर नगर परिषद मुंगावली के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ।

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम	जन संख्या			चतुर्थ सीमा
		कुल.	अ.जा.	अ.ज.जा	
1	सिद्धेश्वर वार्ड	1383	61	1	6 उत्तर- जेल तालाब की पार से प्रारम्भ होकर नगरपालिका चुंगी नाका को लेते हुये चंदेरी रोड पर किशन उपाध्याय के भवन को लेते हुये नगरपालिका सीमा के साथ साथ सिद्धेश्वर बगीचे के पूर्वी भाग देवराज पंजाबी के भवन तक। पूर्व - सिद्धेश्वर बगीचे के पूर्वी भाग देवराज पंजाबी के मकान एवं मलखाबनी बावड़ी के पश्चिमी भाग को लेते हुये स्टेशन रोड नं.1 मदन पंजाबी के मकान तक। दक्षिण- बस सस्टेण्ड के पास मदन पंजाबी के मकान से स्टेशन रोड नं. 1 के उत्तरी भाग के मकानों को लेते हुये अवतार सिंह के मकान तक। पश्चिम- अवतार सिंह के मकान से प्रारम्भ होकर जेल टैंक रोड के उत्तरी भाग के मकानों को शामिल करते हुये बोर्डिंग केम्पस जेल तालाब की पार तक।
2	महारानी लक्ष्मी वार्ड	1297	525	34	उत्तर- देवराज पंजाबी के मकान से नगर परिषद की उत्तरी सीमा के साथ साथ मीरकाबाद रोड में स्थित शासकीय शौचालय तक। पूर्व - मीरकाबाद रोड शासकीय शौचालय से प्रारम्भ होकर मीरकाबाद के उत्तरी भाग को शामिल करते हुये कुसुम सुनेरिया महेन्द्र सोनी के मकान तक। दक्षिण- महेन्द्र सोनी के मकान से प्रारम्भ होकर स्टेशन रोड के पूर्वी भाग को शामिल करते हुये आनंद बूट हाऊस तक। पश्चिम- आनंद बूट हाऊस से प्रारंभ होकर परमालसिंह के मकान को घेरते हुये खारा कुआ के उत्तरी भाग में स्थित भवनों को लेते हुये पुरोहित जी का मकान अम्बिका नामदेव के मकान को लेते हुये धाना पोस्ट ऑफिस को लेते हुये स्टेशन रोड के पूर्वी भाग को शामिल करते हुये न.प.एवं पुरानी तहसील को शामिल करते हुये मलखाबनी बावड़ी रोड के पूर्वी भाग में स्थित देवराज पंजाबी के मकान तक।
3	अम्बेडकर वार्ड	1561	651	24	उत्तर- मीरकाबाद रोड स्थित शासकीय शौचालय से प्रारम्भ होकर न.प.सीमा के साथ-साथ मार्केटिंग सोसायटी की गोदाम तक। पूर्व - मार्केटिंग सोसायटी के गोदाम से प्रारम्भ होकर स्टेशन रोड के उत्तरी भाग को शामिल करते हुये नरसिंह मंदिर को घेरते हुये जगन्नाथ पंजाबी के मकान तक। दक्षिण- जगन्नाथ पंजाबी से प्रारम्भ होकर गौरापुरा रोड के उत्तरी भाग के भवनों को लेते हुये मथुरा लखेरा के मकान को शामिल करते हुये औधिया सुनारान गली के उत्तरी भवनों को लेते हुये पदमचंद के मकान तक। पश्चिम- पदमचंद जैन के मकान से प्रारम्भ होकर सुभाष रोड के पूर्वी भवनों को शामिल करते हुये दर्जियों के मंदिर को घेरते हुये गंगाजली गली के दक्षिणी भाग में स्थित भवनों को लेते हुये स्टेशन रोड के पश्चिमी भाग को शामिल करते हुये मीरकाबाद रोड शासकीय शौचालय तक।
4	सुभाष वार्ड	1270	20	17	उत्तर- दुर्गाबाई के मकान से प्रारम्भ होकर औधिया सुनारान गली के दक्षिणी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये रामरतन के मकान तक। पूर्व - रामरतन के मकान से प्रारम्भ होकर गौरापुरा के पश्चिमी भाग व उत्तरी भाग को शामिल करते हुये हुकुमचंद की दुकान तक। दक्षिण- हुकुमचंद की दुकान से प्रारम्भ होकर मातापुरा रोड पर किशोरसिंह के मकान को शामिल करते हुये कुंजीलाल गली के उत्तरी भाग के भवनों को शामिल करते हुये हरचंद सोहनलाल के मकान तक। पश्चिम- सोहनलाल के मकान से प्रारम्भ होकर गांधी रोड के पूर्वी भाग के भवनों को लेते हुये दुर्गाबाई के मकान तक।
5	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड	1257	240	96	उत्तर- कस्टम चौकी की सीमा से प्रारम्भ होकर न.प. के दक्षिणी सीमा के भवनों को शामिल करते हुये कुशवाह कालोनी तक। पूर्व - कुशवाह कालोनी के भवनों को शामिल करते हुये भुजरिया तालाब न.प.सीमा के साथ-साथ भुजरिया तालाब के बजरंगवली मंदिर तक। दक्षिण- बजरंगवली मंदिर से प्रारम्भ होकर भुजरिया तालाब के उत्तरी भाग के भवनों को शामिल करते हुये गायत्री माता मंदिर तक।

					पश्चिम- गायत्रीमाता मंदिर से प्रारम्भ होकर मल्हारगढ रोड के पूर्वी भाग में स्थित भवनों को लेते हुये इमली चौराहे तक। इमली चौराहे से स्टेशन रोड के दक्षिणी भाग में स्थित भवनों को लेते हुये कस्टम चौकी तक
6	महावीर वार्ड	1258	239	17	उत्तर- कुंजीलाल गली के दक्षिणी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये मातापुरा रोड के दक्षिणी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये मातापुरा रोड की पुलिया तक। पूर्व - मातापुरा रोड की पुलिया से प्रारम्भ होकर मल्हारगढ रोड के पश्चिमी भागों के स्थित भवनों को शामिल करते हुये भुजरिया तालाब रोड की पुलिया तक। दक्षिण- भुजरिया तालाब रोड की पुलिया से प्रारम्भ होकर भुजरिया तालाब रोड के उत्तरी भाग के स्थित भवनों को शामिल करते हुये आनंद चौधरी के मकान तक। पश्चिम- आनंद चौधरी के मकान से हरचंद सोहनलाल के मकान तक।
7	वाल्मीक वार्ड	1584	213	103	उत्तर-जगदीश सेन के मकान से प्रारंभ होकर भुजरिया तालाब रोड के दक्षिणी भाग को शामिल करते हुये हजारीलाल के मकान तक एवं रामदयाल करोसिया के मकान तक भुजरिया तालाब रोड। पूर्व - रामदयाल करोसिया के मकान से प्रारंभ होकर न.प.की सीमा के साथ साथ पश्चिमी भाग में स्थित भवनों को लेते हुये कल्लू कोरी के मकान तक। दक्षिण- कल्लू कोरी के मकान से मल्हारगढ रोड के पूर्वी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये मल्हारगढ रोड के पश्चिमी भाग में कैलाश दीवान के मकान तक। पश्चिम- कैलाश दीवाल से प्रारंभ होकर उत्तरी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये मूलचंद कुशवाह के मकान तक एवं मूलचंद कुशवाह के मकान को लेते हुये गांधी रोड के पूर्वी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये जगदीश सेन के मकान तक।
8	महात्मा गांधी वार्ड	1509	178	9	उत्तर-कंछेदीलाल के मकान से प्रारंभ होकर गांधी रोड के पश्चिमी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये प्यारेलाल पटेल के मकान तक। पूर्व - प्यारेलाल पटेल से प्रारंभ होकर गणपति रोड के दक्षिणी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये द्वारका ओझा के मकान तक। दक्षिण- द्वारका ओझा के मकान से प्रारंभ होकर मल्हारगढ रोड के पश्चिमी भाग को शामिल करते हुये रमेशचंद शर्मा के मकान तक। पश्चिम- रमेशचंद शर्मा के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिमी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये बूढे बालाजी व दादूबाबा के चबूतरे को घेरते हुये रामबाग मार्ग के पश्चिमी भाग के स्थित भवनों को शामिल करते हुये काछीपुरा रोड के पूर्वी भाग में स्थित भवनों को लेते हुये कंछेदीलाल के मकान तक।
9	पं.जवाहर लाल नेहरू वार्ड	1506	0	0	उत्तर- द्वारकाप्रसाद सोनी के मकान से प्रारंभ होकर सिंघई गली के दक्षिणी भाग के भवनों को शामिल करते हुये शम्भुसोनी के मकान को लेते हुये शनिचरा रोड के दक्षिणी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये पालीवाल के मकान तक। पूर्व - पालीवाल के मकान से प्रारंभ होकर गांधी रोड के पश्चिम भाग में स्थित भवनों हुंये मोतीलाल साहू के मकान तक। दक्षिण- मोतीलाल साहू के मकान से प्रारंभ होकर पटेल गली के उत्तरी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये दौलतराम साहू के मकान तक। पश्चिम- दौलतराम साहू के मकान से प्रारंभ होकर काजीपुरा रोड के पूर्वी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये छोटेलाल जैन के मकान तक एवं कुम्हरयाना रोड के पूर्वी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये द्वारकाप्रसाद सोनी के मकान तक।
10	इंदिरा गांधी वार्ड	1294	73	85	उत्तर- खारकुआ से प्रारंभ होकर कुम्हरयाना रोड के पश्चिमी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये हरिनारायण तिवारी के मकान को घेरते हुये काजीपुरा के पश्चिमी भाग के भवनों को शामिल करते हुये सटदू खां के मकान तक। पूर्व - सटदूखां के मकान से प्रारंभ होकर जमींदार कुआ के भवनों को शामिल करते हुये खड़िया नाला तक। दक्षिण- खड़िया नाले के पूर्वी भाग में स्थित न.प.सीमा के भवनों को शामिल करते हुये परम शिकारी के मकान तक। पश्चिम- परम शिकारी के मकान जोगीपुरा के दक्षिणी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये सन्नूशाह गली के पूर्वी भाग के भवनों को शामिल करते हुये खुर्शिद अली के मकान को शामिल करते हुये खारा कुआ तक।
11	जाकिर हुसैन वार्ड	1425	38	0	उत्तर- बाबूसलाम के मकान से शुरू होकर फैंज गली में दक्षिणी भाग में स्थित भाग को लेते हुये नन्नू हकीम के मकान तक। पूर्व - नन्नू हकीम के मकान से प्रारंभ होकर खटीकपुरा गली व नजीरगली के पश्चिमी भाग में स्थित भवनों को लेते हुये गनपतखटीक के मकान को शामिल करते हुये कय्यूमखां, भैयालालधोबी, भूराकुजडे के मकान व आगाखां के मकान को घेरते हुये अजीज फदाली के मकान को घेरते हुये अथाईपुरा रोड स्थित हल्केलाल जैन के मकान तक। दक्षिण- हल्के सोनहलाल के मकान से प्रारंभ होकर शनिचरा रोड के दक्षिणी भाग में

					स्थित नवीवक्श के मकान को लेते हुये सिंघई गली के पश्चिमी भाग को शामिल करते हुये द्वारकाप्रसाद पण्डा के मकान तक। <u>पश्चिम</u> — द्वारकाप्रसाद पण्डा के मकान से प्रारंभ होकर कुमरयाना रोड के पूर्वी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये विश्वनाथ सोनी व शेखरस्ताम के मकान को लेते हुये किरमानी पुरा रोड के पूर्वी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये बाबूसलाम के मकान तक।
12	चंद्रशेखर वार्ड	1226	141	0	<u>उत्तर</u> — बाबूलाल खुर्दिया के मकान से शुरू होकर बहादुरपुर रोड के दक्षिणी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये डॉ.प्रमोद जैन के मकान तक। <u>पूर्व</u> — डॉ.प्रमोद जैन के मकान से प्रारंभ होकर स्टेशन रोड पश्चिमी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये वाचनालय तक। <u>दक्षिण</u> — वाचनालय से प्रारंभ होकर जवाहर रोड के उत्तरी भाग में स्थित भवनों को लेते हुये मनोजकुमार जैन के मकान को शामिल करते हुये तलैया गली के पश्चिमी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये मेहबूब खां के मकान तक। <u>पश्चिम</u> — मेहबूब खां के मकान से प्रारंभ होकर खटीकपुरा के भवनों को शामिल करते हुये नजीर गली के पूर्वी मकानों को लेते हुये इमामवक्श के भवन को लेते हुये रमजानी के मकान तक एवं रमजानी के मकान से प्रारंभ होकर बाबूलाल खुर्दिया के मकान तक।
13	संजय गांधी वार्ड	1223	0	8	<u>उत्तर</u> — हफीज खां सुन्नी के नये मकान से प्रारंभ होकर तलैया गली में स्थित बोहरों के मकान को घेरते हुये जवाहर रोड के दक्षिणी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये जैन मंदिर तक। <u>पूर्व</u> — जैन मंदिर से प्रारंभ होकर स्टेशन रोड के दक्षिणी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये डॉ.शीलचंद जैन का मकान को लेते हुये कंचन गली में स्थित कपूरचंद मोदी के मकान तक। <u>दक्षिण</u> — कपूरचंद मोदी के मकान से प्रारंभ होकर गणेशशंकर रोड के पश्चिमी भाग के भवनों को शामिल करते हुये सुभाष रोड के पश्चिमी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये कपूरचंद के मकान तक। <u>पश्चिम</u> — कपूरचंद के मकान से प्रारंभ होकर मोहम्मद अंसार के मकान को लेते हुये शनिचरा रोड के उत्तरी भाग में स्थित भवनों को लेते हुये अथाई पुरा रोड के पूर्वी भवनों को शामिल करते हुये सरदार गली में स्थित भवनों को शामिल करते हुये फैंज मोहम्मद के मकान तक व हॉल को घेरते हुये हफीज के मकान तक।
14	राजीव गांधी वार्ड	1551	128	45	<u>उत्तर</u> — जेल तालाब के किनारे से प्रारंभ होकर जेल टैंक रोड के दक्षिणी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये स्टेशन रोड नं.1 में स्थित भवनों को लेते हुये गोलम्बर पार्क तक। <u>पूर्व</u> — गोलम्बर पार्क से प्रारंभ होकर बहादुरपुर रोड के उत्तरी भाग को लेते हुये घोड़ेशाह बाबा की मजार तक। <u>दक्षिण</u> — घोड़ेशाह बाबा की मजार से प्रारंभ होकर घोसीपुरा रोड के पश्चिमी भाग में स्थित भवनों को लेते हुये पंचपीरों के चबूतरे तक। <u>पश्चिम</u> — पंचपीरों के चबूतरे से प्रारंभ होकर न.प.सीमा के साथ साथ खडिया नाले के पूर्वी भवनों को शामिल करते हुये बहादुरपुर रोड की पुलिया तक व जेल तालाब की पार तक।
15	गणेश शंकर वार्ड	1345	169	34	<u>उत्तर</u> — बहादुरपुर रोड घोड़ेशाह बाबा के सामने पुलिया से मोहनसिंह यादव के मकान से प्रारंभ होकर बहादुरपुर रोड के दक्षिणी भाग में स्थित भवनों को शामिल करते हुये नारायण शर्मा के मकान को शामिल करते हुये गोडपुरा तक। <u>पूर्व</u> — गोडपुरा चबूतरे से प्रारंभ होकर किरमानी पुरा रोड के पश्चिमी भवनों को शामिल करते हुये हफीज के मकान तक। <u>दक्षिण</u> — हफीज खां के मकान से प्रारंभ होकर अजीज खां का मकान एवं शन्नूशाह गली के पश्चिमी भाग को शामिल करते हुये जोगीपुरा रोड खेमचंद के मकान तक। <u>पश्चिम</u> — खेमचंद के मकान से प्रारंभ होकर खडिया नाले के साथ साथ पंचपीरों के चबूतरे एवं घोसीमोहल्ला को शामिल करते हुये बहादुरपुर रोड घोड़ेशाह बाबा के सामने पुलिया से मोहनसिंह यादव के मकान तक।
योग :-		20689	2676	473	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. बी. प्रजापति, कलेक्टर.